

॥ श्रीः ॥

शिवसंहिता.

(भाषाटीकासहिता.)

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकयोगिराजश्री ६ स्वा-
मिस्वयम्भूतशानन्दसरस्वतीनामाज्ञानुसा-
रेण गोस्वामिश्रीरामचरणपुरीकृतेन
भाषानुवादेन सहिता ।

Sa
RAM

सेयं

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना
मुम्बय्यां

स्वकीये "श्रीविद्गुप्तेश्वर" (स्टीम) यन्त्रालये
मुद्रयित्वा प्रकाशं नीता.

श्रावण सवत् १९६०, शके १८२५

सर्वाधिकार "श्रीविद्गुप्तेश्वर" यन्त्रालयाधीशने
स्वाधीन रक्खा है ।

प्रस्तावना.



सर्व मोक्षकांक्षी महापुरुषोंको विदित होय कि, यह “शिवसंहिता” नामक ग्रंथ जो संसारके उपकारार्थ पूर्व श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोत्तर योगमार्गउत्पत्तिकर्ता श्रीशिवजीने कृपापूर्वक योगोपदेश किया सो यह ग्रंथ योगाभ्यासी जनोंको अति उपकारक है इस हेतुसे कि, श्रीशिवजीने इसमें ब्रह्मज्ञान और हठयोगक्रिया राजयोगसहित उत्तम सरलरीतिसे उपदेश किया है इसको परिश्रमसे लाभ करके योगाभ्यासी और मोक्षकांक्षी जनोंके उपकारार्थ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकयोगीराज श्री ६ स्वामी स्वयंप्रकाशानन्दसरस्वतीजीके साधक शिष्य काशीनिवासी गोस्वामी रामचरणपुरीजीके द्वारा भाषानुवाद कराय अब तीसरी बार शुद्ध करके निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम्) मुद्रायन्त्रालयमें मुद्रित कर प्रसिद्ध किया। अब सर्व शास्त्रवेत्ता बुद्धिमान् जनोंसे प्रार्थना है कि, इस ग्रंथके मूल वा टीकामें जहां कहीं दृष्टिदोषसे अशुद्ध रहा होय उसको कृपापूर्वक सुधार दें.

भवदीय शुभाकांक्षी-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई.


शिवसंहितास्थविषयानुक्रमणिका ।

विषयाः	पृष्ठांकाः	विषयाः	पृष्ठांकाः
प्रथमः पटलः		१८ चञ्चलीमुद्राकथनम्.	११३
अथ मंगलाचरणम्.	१	१९ शक्तिचालनकथनम्.	१२१
१ अथ लयप्रकरणम्.	२	पञ्चमः पटलः	
द्वितीयः पटलः		२० अथ योगविधादिकथनम्.	१२४
२ अथ तत्त्वज्ञानोपदेशः	३६	२१ धर्मरूपयोगविद्वानकथनम्.	१२५
तृतीयः पटलः		२२ ज्ञानरूपयोगविद्वानकथनम्.	१२६
३ अथ ये गानुष्ठानपद्धतियोगि- गाभ्यासवर्णनञ्च.	५७	२३ चतुर्विधबोधकथनम्.	१२८
४ सिद्धासनकथनम्.	८५	२४ मृदुसाधकलक्षणम्.	१२९
५ पद्मासनकथनम्.	८६	२५ अधिमात्रसाधकलक्षणम्.	१३०
६ उग्रासनकथनम्.	८८	२६ अधिमात्रतमसाधकलक्ष- णम्.	१३१
७ स्वस्तिकासनकथनम्.	८९	२७ प्रतीकोपासनाकथनम्.	१३२
चतुर्थः पटलः		२८ मूलाधारपद्मविवरणम्.	१३८
८ अथ मुद्राकथनम्.	९०	२९ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणम्.	१५५
९ योनिमुद्राकथनम्.	९२	३० मणिपूरचक्रविवरणम्.	१५७
१० महामुद्राकथनम्.	९७	३१ अनाहनचक्रविवरणम्.	१५८
११ महाबंधकथनम्.	१००	३२ विशुद्धचक्रविवरणम्.	१६१
१२ महावेधकथनम्.	१०२	३३ आज्ञाचक्रविवरणम्.	१६३
१३ खेचरीमुद्राकथनम्.	१०५	३४ सहस्रारपद्मविवरणम्.	१७२
१४ जालन्धरबन्धकथनम्.	१०८	३५ राजयोगकथनम्.	१८२
१५ मूलबन्धकथनम्.	१०९	३६ राजाधिराजयोगकथनम्.	१९५
१६ विपरीतकरणीकथनम्.	११०	३७ शिवसंहिताफलकथनम्.	२०३
१७ उड्डाणबन्धकथनम्.	१११	३८ उमामहेश्वरमाहात्म्यम्.	२०५

ओ ३ म्

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ शिवसंहिता ।



मंगलाचरणम् ।

विघ्नहरण गणनाथजी, बुद्धिगेह तुभ माहिं ॥

विघ्न बुद्धि दोनों विकल, नशत जात जगमाहिं ॥ १ ॥

बुद्धिराज दीजे हमें, बुद्धि पुत्र गौरीश ॥

योगयुक्ति भाषा करौं, धरि गुरुआज्ञा शीश ॥ २ ॥

शिव आलयमें जायके, होत जीव भवपार ॥

पाय कृपा गुरु शम्भुकी, भजन चहों केंवार ॥ ३ ॥

गौरी अब मोहिं दीजिए, अनुशासन सुत जानि ॥

शिवभाषित भाषा रचौं, छूटौं भवध्रम जानि ॥ ४ ॥

फिर नहिं आवों जगतमें, योग युक्ति सब जानि ॥

मातु कृपा मोपर करहु, शिखहुदेहुमोहिंज्ञान ॥ ५ ॥

नाम हमारोहै नहीं, नहीं कर्म गुण त्रास ॥

मातु पुकारत पै अहौं, रामचरणपुरि दास ॥ ६ ॥

श्लोक-यंज्ञातुमेवयतिनो मतिपूर्वमेतत्


संसारसृत्वरकलत्रसुतादिसर्वम् ॥

त्यक्त्वासमाधिविधिमेवसमाश्रयन्ते

वन्देकमप्यहमजञ्जगदादिवीजम् ॥ १ ॥

शिवसंहिता ।

भाषाटीका ।



प्रथमपटलः ।

मूलम्—एकंज्ञानं नित्यमाद्यन्तशून्यं नान्यत् किञ्चिद्वर्तते वस्तु सत्यम् ॥ यद्दे-
दोस्मि त्रिन्द्रियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं
भासते नान्यथैव ॥ १ ॥

टीका—केवल एक ज्ञान नित्य आदि अन्तरहित है ज्ञानसे अलग अन्य कोई वस्तु सत्य संसारमें वर्तमान नहीं है केवल इन्द्रियोपाधिद्वारा संसार जो भिन्न भिन्न बोध होता है सो यह ज्ञानमात्रही प्रकाश होता है और कुछ नहीं है अर्थात् ज्ञानसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १ ॥

मूलम्—अथ भक्तानुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगानु-
शासनम् ॥ ईश्वरः सर्वभूतानामात्ममुक्ति-
प्रदायकः ॥ २ ॥ त्यक्त्वा विवादशीलानां
मतं दुर्ज्ञानहेतुकम् ॥ आत्मज्ञानाय भूता-
नामनन्यगतिचेतसाम् ॥ ३ ॥

टीका—सर्व प्राणिमात्रके ईश्वर आत्ममुक्तिप्रदायक भक्तवत्सल जिन मनुष्योंको सिवाय आत्मज्ञानके अन्य गति नहीं है उनके हेतु कृपापूर्वक योगोप-

दश करतेहैं विवादशील लोगोंका मत दुर्ज्ञानका हेतु है यह त्यागनेके योग्य है ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥

मूलम्-सत्यं केचित्प्रशंसन्ति तपः शौचं तथापरे ॥ क्षमां केचित्प्रशंसन्ति तथैव शममार्ज्वम् ॥ ४ ॥ केचिद्दानं प्रशंसन्ति पितृकर्म तथापरे ॥ केचित्कर्म प्रशंसन्ति केचिद्वैराग्यमुत्तमम् ॥ ५ ॥

टीका-कोई सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्याकी, कोई शौचाचारकी, कोई क्षमाकी प्रशंसा, कोई समताकी, कोई सरलताकी, कोई दानकी प्रशंसा, कोई पितृकर्मकी, कोई सकाम उपासनाकी, कोई पुरुष वैराग्यको उत्तम कहतेहैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूलम्-केचिद्गृहस्थकर्माणि प्रशंसन्ति विचक्षणाः ॥ अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचित्परं विदुः ॥ ६ ॥ मन्त्रयोगं प्रशंसन्ति केचित्तीर्थानुसेवनम् ॥ एवं बहूनुपायास्तु प्रवदन्ति विमुक्तये ॥ ७ ॥

टीका-कोई पुरुष गृहस्थकर्मकी प्रशंसा करतेहैं, कोई बुद्धिमान् पुरुष अग्निहोत्रादिक कर्मकी प्रशंसा करतेहैं कोई मंत्रादिक कोई तीर्थसेवन करना मुख्य

(४) शिवपंदिना भाषाटीकासमेता ।

समझते हैं इसी प्रकार मनुष्य बहुतसे उपाय मुक्तिके हेतु अपने मतिके अनुसार करते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

मूलम्—एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यवि-
दो जनाः ॥ व्यामोहमेव गच्छन्ति विमु-
क्ताः पापकर्मभिः ॥ ८ ॥ एतन्मतावलम्बी
यो लब्ध्वा दुरितपुण्यके ॥ भ्रमतीत्यव-
शः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराम् ॥ ९ ॥

टीका—इसीतरह विधिनिषेध कर्मके जाननेवाले लोग पापकर्मसे रहित होके मोहमेंही पड़तेहैं और जो मनुष्य पुण्यपापका अनुष्ठान पहिले जो मत कहा है उसके आसरे होके करते हैं उसका फल यह होता है कि, मनुष्य वारंवार संसारमें जनमता और मरता है अर्थात् शुभाशुभ कर्म करनेसे कदापि मोक्ष नहीं होता परन्तु शुभकर्म करनेसे केवल चित्तकी शुद्धि होतीहै ॥ ८ ॥ ९ ॥

मूलम्—अन्यैर्मतिमतां श्रेष्ठैर्गुणालोकनतत्प-
रैः ॥ आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्व-
गतास्तथा ॥ १० ॥ यद्यत्प्रत्यक्षविषयं
तदन्यत्रास्ति चक्षते ॥ कुतः स्वर्गादयः
सन्तीत्यन्ये निश्चितमानसाः ॥ ११ ॥

टीका—कोई कोई बुद्धिमान् गुप्तशास्त्रके जाननेमें तत्पर अर्थात् गूढदर्शी बहुत आत्मा नित्य और सर्व-व्यापक कहते हैं बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि, जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमें आताहै वही सत्य है और कुछ नहीं है जिनकी बुद्धि स्वर्गादिकके न माननेमें निश्चित है ॥ १० ॥ ११ ॥

मूलं—ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये शून्यं केचित्परं वि-
दुः ॥ द्वावेव तत्त्वं मन्यन्तेऽपरे प्रकृति-
पुरुषौ ॥ १२ ॥

टीका—कोई मनुष्य कहते हैं कि, सिवाय ज्ञान-धाराके और कुछ नहीं है जो वस्तु संसारमें वर्तमान देखने या सुननेमें आती है या किसी प्रकारसे उसका होना निश्चय होताहै वह सब ज्ञानही है कोई पुरुष यही जानता है कि, सिवाय शून्यके और कुछ नहीं है इसीतरह कोई मनुष्य प्रकृतिपुरुष दोनोंको तत्त्व मानते हैं ॥ १२ ॥

मूलम्—अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङ्-
खाः ॥ एवमन्ये तु संचिन्त्य यथामति य-
थाश्रुतम् ॥ १३ ॥ निरीश्वरमिदं प्राहुः
सेश्वरञ्च तथापरे ॥ वदन्ति विविधैर्भेदैः
सुयुक्त्याति स्थिकातराः ॥ १४ ॥

(६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका-बहुतसे परमार्थसे बहिर्मुख जिनकी भिन्न भिन्न मति है अपने मतके अनुसार कर्मोंको मानते और करते हैं कोई कहते हैं कि, ईश्वर नहीं है इसीतरह बहुत लोग कहते हैं कि, यह संसार बिना ईश्वरके नहीं है अर्थात् ईश्वरहीसे है यही निश्चय जानते हैं अपनी युक्तिसे बहुत २ भेद कहते और उसमें स्थिरतासे तत्पर रहते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

मूलम्-एते चान्ये च मुनिभिः संज्ञाभेदाः
पृथग्विधाः ॥ शास्त्रेषु कथिता ह्येते लोक-
व्यामोहकारकाः ॥ १५ ॥ एतद्विवादशीला-
नां मतं वक्तुं न शक्यते ॥ भ्रमन्त्यास्मि-
न्नाः सर्वे मुक्तिमार्गवहिष्कृताः ॥ १६ ॥

टीका-ऐसे बहुत मुनिलोगोंने नानाप्रकारके मत शास्त्रमें स्थापन किये हैं यह संसारके मोह भ्रममें पड़नेका हेतु है अर्थात् शास्त्रमें बहुतप्रकारके मत देखनेसे मनुष्यके चित्तमें भ्रम उत्पन्न होता है उस भ्रमका फल यह है कि, अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक मत ग्रहण करके मरणपर्यंत उसमें तत्पर मनुष्य रहता है परंतु अमृत लाभ नहीं होता ऐसे विवादशील लोगोंका मत वर्णन करनेको हम शक्य नहीं हैं ।

मुक्तिमार्गसे विमुख होके सब मनुष्य संसारमें भ्रमण करते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

मूलम्—आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च
पुनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्नं योग-
शास्त्रं परं मतम् ॥ १७ ॥

टीका—श्रीमहादेवजी कहते हैं कि, सब शास्त्रोंको देखके और बारंबार विचारके यह निश्चित हुआ कि, एक यह योगशास्त्र उत्तम परमसंमत है अर्थात् यह सबसे उत्तम है तात्पर्य यह है कि, ऐसे मतको छोड़कर जिसकी प्रशंसा ईश्वर अपने मुखारविन्दसे करते हैं और जिसके ग्रहण करनेसे ब्रह्म करामलकवत् जानपडता है मनुष्य विक्षिप्तके तरह इधर उधर चित्तको दौड़ाते हैं और बहुत लोग यह विचारते हैं कि, यह बड़ा कठिन है आश्चर्यकी बात है कि, मनुष्यशरीरसे जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा तो जान पडता है कि, रोगादिकसे शरीरके नाश होनेसे पीछे फिर जब पशुका जन्म होगा तब कुछ ईश्वरके जाननेमें श्रम करेंगे ॥ १७ ॥

मूलम्—यस्मिञ्ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति
निश्चितम् ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यः
किमन्यच्छास्त्रभाषितम् ॥ १८ ॥

(८) शिवसंहिता धारार्टीकासमता ।

टीका—निश्चय जिसके जाननेसे सब संसार जाना जाता है ऐसे योगशास्त्रके जाननेमें परिश्रम करना अवश्य उचित है फिर अन्य शास्त्र जो कहेहैं उनका क्या प्रयोजन है अर्थात् कुछ प्रयोजन नहीं तात्पर्य यह है कि, पंडित लोग वृथा विवाद करके जो लोग सुमार्गमें जानेकी इच्छा करतेहैं उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं ॥ १८ ॥

मूलम्—योगशास्त्रमिदं गोप्यमस्माभिः परि-
भाषितम् ॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये
च महात्मने ॥ १९ ॥

टीका—यह योगशास्त्र जो हमने कहाहै सो परम गोपनीय है यह त्रैलोक्यमें महात्मा और अच्छे भक्त जनोंको देना उचित है तात्पर्य यह है कि, विना ईश्वरके भक्तिके यह शुभकर्म सिद्ध नहीं होता न उधर चित्तकी वृत्ति जातीहै इस हेतुसे अभक्तजनोंको देना उचित नहींहै ॥ १९ ॥

मूलम्—कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्वि-
धा मतः ॥ भवति द्विविधो भेदो ज्ञानका-
ण्डस्य कर्मणः ॥ २० ॥ द्विविधः कर्म
काण्डः स्यान्निषेधविधिपूर्वकः ॥ निषिद्ध-
कर्मकरणे पापं भवति निश्चितम् ॥ विधि-

ना कर्मकरणे पुण्यं भवति निश्चितम् ॥ २१ ॥

टीका—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड वेदके दो मत हैं इसमें भी दो दो भेद कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें भये हैं ॥ २० ॥ उस कर्मकाण्डमें दो प्रकार हैं एक निषेध दूसरा विधि तहाँ निषेध कर्म करनेसे निश्चय पाप होता है विहित कर्म करनेसे निश्चय करके पुण्य होता है ॥ २१ ॥

मूलम्—त्रिविधो विधिकूटः स्यान्नित्यनैमित्तिकाभ्यतः ॥ नित्येऽकृते किल्बिषं स्यात्काम्ये नैमित्तिके फलम् ॥ २२ ॥

टीका—विधि कर्ममें तीन प्रकारका भेद कहा है नित्य १ नैमित्तिक २ सकाम ३ नित्यकर्म संध्या देवार्चन आदि न करनेसे पाप होता है सकाम अर्थात् जो कर्म फलके इच्छासे किया जाता है और नैमित्तिक जो तीर्थों में पर्वान्तिकमें स्नानादिक करते हैं इनके न करनेसे पाप नहीं होता परन्तु करनेसे फल होता है ॥ २२ ॥

मूलं—द्विविधन्तु फलं ज्ञेयं स्वर्गो नरक एव च ॥ स्वर्गो नानाविधश्चैव नरकोपि तथा भवेत् ॥ २३ ॥

टीका—फल दो प्रकारका होता है स्वर्ग और नरक स्वर्ग नानाप्रकारका है ऐसेही नरकभी बहुत प्रकारका

है तात्पर्य यह है कि, जैसा जो मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वैसेही नरक वा स्वर्गमें जाताहै ॥ २३ ॥

मूलम्—पुण्यकर्मणि वै स्वर्गो नरकः पापकर्मणि ॥ कर्मबंधमयी सृष्टिर्नान्यथा भवति ध्रुवम् ॥ २४ ॥

टीका—पुण्यकर्म करनेसे स्वर्गमें जाताहै और पापकर्मसे नरकमें जाताहै. संसार कर्मसे निश्चय करके बंधाहै दूसरा हेतु नहीं है तात्पर्य यह है कि, जो ईश्वरको जानके कर्माकर्मसे अपनेको रहित समझेगा वह इस बंधसे छूटजायगा ॥ २४ ॥

मूलम्—जन्तुभिश्चानुभूयंते स्वर्गे नानासुखानि च ॥ नानाविधानि दुःखानि नरके दुःसहानि वै ॥ २५ ॥

टीका—प्राणी स्वर्गमें नानाप्रकारके सुखका अनुभव करता है ऐसेही बहुत प्रकारके दुःसह दुःख नरकमें भी भोगता है ॥ २५ ॥

मूलम्—पापकर्मवशाद्दुःखंपुण्यकर्मवशात्सुखं तस्मात्सुखार्थी विविधं पुण्यं प्रकुरुते ध्रुवं २६

टीका—पापकर्म करनेसे दुःख होता है और पुण्यकर्म करनेसे सुख होताहै इस हेतुसे निश्चय करके सुखार्थी पुरुष नानाप्रकारके पुण्य करते हैं ॥ २६ ॥

मूलम्-पापभोगावसाने तु पुनर्जन्म भवे-
त्खलु ॥ पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा
भवति ध्रुवम् ॥ २७ ॥

टीका-पापका फल भोगनेके पीछे अवश्य फिर
जन्म होता है ऐसेही पुण्यफल भोगनेके अंतमें
निश्चय फिर जन्म होता है अन्यथा नहीं होता ॥ २७ ॥

मूलम्-स्वर्गेऽपि दुःखसंभोगः परस्त्रीदर्शना-
द्भुवम् ॥ ततो दुःखमिदं सर्वं भवेन्नास्त्यत्र
संशयः ॥ २८ ॥

टीका-स्वर्गमेंभी दुःखहैं इस कारणसे कि, उस स्था-
नमें परस्त्रीका दर्शन अवश्य होता है उसकी अप्राप्तिमें
मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है अन्य भी राग द्वेषादि
बहुतसे कारण हैं कि, प्राणीके चित्तको स्वर्गमें भी
स्थिर नहीं रहने देते इस हेतुसे संसारमें सिवाय
दुःखके सुख नहीं है ॥ २८ ॥

मूलम्-तत्कर्मकल्पकैः प्रोक्तं पुण्यं पापमि-
ति द्विधा ॥ पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां
भवति क्रमात् ॥ २९ ॥

टीका-बुद्धिमान् लोगोंने पुण्य और पाप दो प्रकारक

कर्म कहौं इसी पुण्य पापसे शरीर बंधायमान है
अर्थात् वारंवार शरीरधारण करनेका कारण है ॥ २९ ॥

मूलम्-इहामुत्र फलद्वेषी सफलं कर्म सं-
त्यजेत् ॥ नित्यनैमित्तिके संगं त्यक्त्वा
योगे प्रवर्तते ॥ ३० ॥

टीका-इस लोकका भोग वा परलोकके फलकी
इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मोंको फलसहित
त्यागके योगाभ्यास अर्थात् परब्रह्मके विचारमें
महात्मा जनोंके तत्पर रहना उचित है ॥ ३० ॥

मूलं-कर्मकाण्डस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा यो-
गी त्यजेत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्वयं त्यक्त्वा
ज्ञानकाण्डे प्रवर्तते ॥ ३१ ॥

टीका- कर्मकाण्डके माहात्म्यको जानके योगीको
उचितहै कि, पुण्य पाप दोनोंको तृणवत् विचारके
त्याग दे और ज्ञानकाण्डमें तत्पर होरहे ॥ ३१ ॥

मूलम्-आत्मा वारे च श्रोतव्यो मंतव्य
इति यच्छ्रुतिः ॥ सा सेव्या तत्प्रयत्नेन
मुक्तिदा हेतुदायिनी ॥ ३२ ॥

टीका- यह श्रुतिका वाक्य है कि, आत्माको सुनो
और आत्माको मनन करो अर्थात् जो कुछ

है सो आत्माही है सो श्रुति मुक्तिकी देनेवाली है
यत्न करके सेवनके योग्य है ॥ ३२ ॥

मूलम्-दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचो-
दयात् ॥ सोऽहं प्रवर्तते मत्तो जगत्सर्वं
चराचरम् ॥ ३३ ॥ सर्वं च दृश्यते
मत्तः सर्वं च मयि लीयते ॥ न तद्भिन्नोऽ-
हमस्मीह मद्भिन्नो न तु किञ्चन ॥ ३४ ॥

टीका-पाप पुण्य दोनोंमें समानरूपकी बुद्धिको
जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम हैं और हमसेही सब
जगत् चराचर उत्पन्न है ॥ ३३ ॥ और जो देख पड़ताहै
वह सब हम हैं हममेंही सब लीन होताहै न वह
हमसे भिन्न है न हम उससे किञ्चित्मात्र भिन्न हैं ता-
त्पर्य यह है कि, वह आत्मा जिससे यह जगत् उत्पन्नहै
हमसे भिन्न नहीं है इस हेतुसे इस संसारके स्थिति
संहार कर्ता हम हैं ऐसी वृत्ति योगीकी रहती है ॥ ३४ ॥

मूलम्-जलपूर्णेष्वसंख्येषु शरावेषु यथा-
भवेत् ॥ एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्वेदोऽत्र
न दृश्यते ॥ ३५ ॥ उपाधिषु शरावेषु या
संख्या वर्तते परा ॥ सा संख्या भवति
यथा रवौ चात्मनि तत्तथा ॥ ३६ ॥

(१४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जलसे भरा असंख्य शराव अर्थात् मृत्तिका आदिके पात्रमें एक सूर्यका अनेक प्रतिविव देख-पडता है वास्तवमें भेद नहीं है जो भेद देख-पडता है वह शरावके संख्याका भेद है ॥ ३५ ॥ जिस प्रकारसे शरावके संख्यासे सूर्यमें भेद जान पडता है उसी प्रकार मायाकी उपाधिसे संसार भिन्न भिन्न जान पडता है वस्तुतः केवल एक ब्रह्म है ॥ ३६ ॥

मूलम्—यथैकः कल्पकः स्वप्ने नानावि-
धतयेष्यते ॥ जागरेपि तथाप्येकस्तथैव
बहुधा जगत् ॥ ३७ ॥

टीका—जैसे स्वप्न अवस्थामें एकसे अनेक कल्पना होती है निद्राच्युत होजानेपर कुछ नहीं रहता उसी प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जान पडता है जब ज्ञानरूपी खड्गसे मायाका पटल कटजाता है तब सिवाय शुद्धब्रह्मके और कुछ नहीं रहजाता ॥ ३७ ॥

मूलम्—सर्पबुद्धिर्यथा रज्जौशुक्तौवा रजतभ्र-
मः ॥ ३८ ॥ तद्ब्रह्मदेवमिदं विश्वं विवृतं पर-
मात्मनि ॥ रज्जुज्ञानाद्यथा सर्पो मिथ्या
रूपो निवर्तते ॥ ३९ ॥ आत्मज्ञानात्तथा
याति मिथ्याभूतामिदं जगत् ॥ रौप्यभ्रा-
न्तिरियं याति शुक्तज्ञानाद्यथा खलु ४०

टीका—रस्सीमें सर्पकी भ्रान्ति और सीपीमें चाँदीकी भ्रान्ति होती है ॥३८॥उसी प्रकार शुद्धब्रह्ममें संसारकी झूठी भ्रान्ति होती है रस्सीके ज्ञान होनेसे झूठे सर्पका अभाव होजाता है ॥३९॥ उसी तरह आत्मज्ञान होनेसे यह संसार नहीं रहजाता सीपीकोभी अच्छी तरह निश्चय जानलेनेसे चाँदीकी भ्रान्ति दूर होती है ॥ ४० ॥

मूलम्-जगद्भ्रान्तिरियं याति चात्मज्ञानाद्य-
था तथा ॥ यथा रज्जूरगभ्रान्तिर्भवेद्भे-
दवशाज्जगत् ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं
भ्रान्तिरध्यासकल्पनाज्जगत् ॥ आत्मज्ञा-
नाद्यथा नास्ति रज्जुज्ञानाद्भुजङ्गमः ॥४२॥

टीका—वैसेही आत्मज्ञान होनेसे जगत्की भ्रान्ति दूर होती है जैसे रस्सीमें सर्पकी भ्रान्ति होती है ॥ ४१ ॥ उसी तरह आत्मामें अध्यास कल्पनामात्र जगत्की भ्रान्ति है रज्जुवत् ज्ञान होनेसे फिर जगत्का तीनों कालसे अभाव हो जाता है ॥ ४२ ॥

मूलम्-यथा दोषवशाच्छुक्लः पीतो भवति ना-
न्यथा ॥ अज्ञानदोषादात्मापि जगद्भवति
दुस्त्यजम् ॥ ४३ ॥ दोषनाशे यथा शुक्लो

गृह्यते रोगिणा स्वयम् ॥ शुक्लज्ञानात्तथाऽ-
ज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥ ४४ ॥

टीका—जैसे मनुष्यको कवलकी व्याधि अर्थात् पित्तादिकके दोषसे सब वस्तु निश्चय पीतवर्ण देख पड़ती हैं उसी प्रकार अज्ञानरूपी दोषसे शुद्ध आत्मा नहीं प्रतीत होता है परन्तु यह झूठा संसार देख पड़ता है ऐसा अज्ञान बड़े कष्टसे दूर होता है जैसे पित्तादिक दोषके नाश होनेसे फिर यथार्थ देख पड़ता है उसी प्रकार अज्ञान दूर होनेसे शुद्धब्रह्म निर्विकार जान पड़ता है तात्पर्य यह है कि, मनुष्यके पीछे एक अज्ञान की व्याधि बहुत बड़ी लगी है इसकी औषधि आत्म-ज्ञान है यह बात निश्चय है कि, व्याधि बिना औषधिके दूर नहीं होती ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

मूलम्-कालत्रयेपि न यथा रज्जुःसर्पो भवे-
दिति ॥ तथात्मा न भवेद्विश्वं गुणातीतो
निरञ्जनः ॥ ४५ ॥

टीका—जिस तरह रस्सी तीनों कालमें सर्प नहीं हो सकती उसी तरह आत्मा भी तीनों कालमें कदापि संसार नहीं हो सक्ता अर्थात् नहीं है इस हेतुसे कि, आत्मा गुणातीत है अर्थात् गुणसे रहित है ॥ ४५ ॥

मूलम्-आगमाऽपायिनोऽनित्यानाश्रयत्वेने-
श्वरादयः ॥ आत्मबोधेन केनापि शास्त्रा-
देतद्विनिश्चितम् ॥ ४६ ॥

टीका-वह शास्त्र जिसमें आत्मबोधका निरूपण किया है उससे निश्चय है कि, इंद्रादि देवताभी जो ईश्वर कहे जाते हैं नित्यभावसे रहित हैं अर्थात् उनकाभी जनन मरण होताहै ॥ ४६ ॥

मूलम्-यथा वातवशात्सिन्धावुत्पन्नाः फेन-
बुद्बुदाः ॥ तथात्मनि समुद्भूतं संसारं
क्षणभंगुरम् ॥ ४७ ॥

टीका-जैसे वायुकी उपाधिसे समुद्रमें फेन और बुद्बुदे उत्पन्न होते हैं क्षणभरमें फिर उसीमें लय हो-जाते हैं तैसेही आत्मासे संसार मायाकी उपाधिसे क्षण-भंगी उत्पन्न होताहै फिर उसीमें लय होजाताहै ॥ ४७ ॥

मूलम्-अभेदो भासते नित्यं वस्तुभेदो न
भासते ॥ द्विधात्रिधादिभेदोऽयं भ्रमत्वे
पर्यवस्यति ॥ ४८ ॥

टीका-परमात्माका संसारसे सदां अभेद है और किसी वस्तुमें भेद नहीं है एक दो तीन ऐसा जो वस्तु का भेद जानपडताहै वह भ्रमका कारण है ॥ ४८ ॥

(१८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—यद्भूतं यच्च भाव्यं वै मूर्तामूर्तं तथैव
च ॥ सर्वमेव जगदिदं विवृतं परमा-
त्मनि ॥ ४९ ॥

टीका— जो भया है और जो होगा मूर्तिमान् वा
अमूर्तिमान् यह सब जगत् आत्मासे मिला है अर्थात्
उसेसे भिन्न नहीं है ॥ ४९ ॥

मूलम्—कल्पकैः कल्पिता विद्या मिथ्या
जाता मृपात्मिका ॥ एतन्मूलं जगदिदं
कथं सत्यं भविष्यति ॥ ५० ॥

टीका—यह संसार मिथ्याभूत अविद्याकल्पनासे
कल्पित भया है बड़े आश्चर्यकी बात है कि, जिसकी
जड मिथ्या है वह आप कव सत्य होसक्ता है अर्थात्
सब झूठ है ॥ ५० ॥

मूलं—चैतन्यात्सर्वमुत्पन्नं जगदेतच्चराच-
रम् ॥ तस्मात्सर्वं परित्यज्य चैतन्यं त
समाश्रयेत् ॥ ५१ ॥

टीका—केवल एक चैतन्य ब्रह्मसे जरायुज, अंडज,
स्वेदज, उद्भिज्ज आदि सकल चराचर संसार उत्पन्न
भया है इस हेतुस सबको त्यागिके केवल उसी एक

चैतन्य आत्माके आसरे होना उचित है क्यों कि वही चैतन्य सबका कारण है ॥ ५१ ॥

मूलम्-घटस्याभ्यंतरे बाह्ये यथाकाशं प्रवर्तते ॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्मांडस्य प्रवर्तते ॥ ५२ ॥

टीका-जैसे घटके भीतर बाहर आकाश व्याप्त है तैसेही इस ब्रह्माण्डके भीतर बाहर आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है ॥ ५२ ॥

मूलम्-सततं सर्वभूतेषु यथाकाशं प्रवर्तते ॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्मांडस्य प्रवर्तते ॥ ५३ ॥ वर्तते सर्वभूतेषु यथाकाशं समंततः ॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये कार्यवर्गेषु नित्यशः ॥ ५४ ॥

टीका-जिसप्रकार आकाश सब चराचरमें व्याप्त है उसीतरह आत्माभी इस जगत्में व्याप्त है अर्थात् आकाशवत् सब वस्तुमें आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

मूलम्-असंलग्नं यथाकाशं मिथ्याभूतेषु पंचसु ॥ असंलग्नस्तथात्मा तु कार्यवर्गेषु नान्यथा ॥ ५५ ॥

(२२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

दुःखका आदि अंत शून्य है इस हेतुसे निश्चय आत्मा सुखस्वरूप है ॥ ६१ ॥

मूलम्-यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्व-
कारणम् ॥ तस्मादात्मा भवेज्ज्ञानं ज्ञानं
तस्मात्सनातनम् ॥ ६२ ॥

टीका-जिसकरके अज्ञान नाश होताहै और यह जान पडताहै कि अज्ञानही संसारका कारण है सोई आत्मज्ञान है और ज्ञानही नित्य है ॥ ६२ ॥

मूलम्-कालतो विविधं विश्वं यदा चैव भवे-
दिदम् ॥ तदेकोऽस्ति स एवात्मा कल्प-
नापथवर्जितः ॥ ६३ ॥

टीका-काल पायके अनेक प्रकारका संसार उत्पन्न होताहै, सो वह एक आत्मा है वह कल्पनापथवर्जित है अर्थात् कल्पना नहीं होसकी ॥ ६३ ॥

मूलम्-बाह्यानि सर्वभूतानि विनाशं यान्ति
कालतः ॥ यतो वाचो निवर्त्तते आत्मा
द्वैतविवर्जितः ॥ ६४ ॥

टीका-आत्मासे जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है वह काल पायके नाश होजाती हैं आत्मा द्वैतरहित है,

अर्थात् एक है इसका वर्णन नहीं होसता तात्पर्य यह है कि यावत् वस्तु उत्पन्न होती है उसको काल खाजाता है परन्तु आत्मामें कालकाभी नाश होजाता है ॥६४॥

मूलम्--न खं वायुर्न चाग्निश्च न जलं पृथिवी
न च ॥ नैतत्कार्यं नेश्वरादि पूर्णैकात्मा
भवेत्खलु ॥ ६५ ॥

टीका--वह आकाश नहीं है इस हेतुसे कि उसमें शब्द नहीं है वायु नहीं है क्यों कि उसमें स्पर्श नहीं है अग्नि नहीं है काहेसे कि उसमें तेजभाव नहीं है जल नहीं है क्यों कि उसमें रस नहीं है वह पृथ्वी नहीं है क्यों कि गन्धरहित है वह कार्य नहीं है क्यों कि उसका कारण नहीं है वह ब्रह्मा इंद्र आदि ईश्वर नहीं है इस हेतुसे कि उसका नाश नहीं होता अर्थात् वह आत्मा न आकाश न वायु न अग्नि न जल न पृथ्वी कुछ नहीं है निश्चय केवल एक परिपूर्णब्रह्म है ॥ ६५ ॥

मूलम्--आत्मानमात्मनो योगी पश्यत्या-
त्मनि निश्चितम् ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासी
त्यक्तमिथ्याभवग्रहः ॥ ६६ ॥

टीका--यह मिथ्यासंसाररूपी गृहको त्यागके सर्व

(२४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

संकल्पसे रहित होके योगी आत्मासे आत्माको
आत्मामें देखता है ॥ ६६ ॥

मूलम्-आत्मनात्मनि चात्मानं दृष्ट्वानन्तं
सुखात्मकम् ॥ विस्मृत्य विश्वं रमते समा-
धेस्तीव्रतस्तथा ॥ ६७ ॥

टीका-संसार विस्मृति करके अर्थात् भुलके
आत्मासे आत्माको आत्मारूप होके देखता और
आत्माके आनन्द सुखरूपी तीव्रसमाधिमें योगी रम-
ण करता है ॥ ६७ ॥

मूलम्-मायैव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया
परा ॥ यदा नाशं समायाति विश्वं नास्ति
तदा खलु ॥ ६८ ॥

टीका-माया संसारकी माता है अर्थात् मायासेही
संसार उत्पन्न भयाहै यह निश्चय है कि दुसरा हेतु
इस जगत्के उत्पत्तिका नहीं है ज्ञान करके इस मायाके
नाश होनेसे संसारका अभाव निश्चय जानपडताहै ॥ ६८ ॥

मूलम्-हेयं सर्वमिदं यस्य मायाविलसितं
यतः ॥ ततो न प्रीतिविषयस्तनुवित्तसु-
खात्मकः ॥ ६९ ॥

टीका-यह जूँठा मायाका प्रपंच विषयसुखं धन शरीर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं है यह सब त्यागनेके योग्य है ॥ ६९ ॥

मूलम्-अरिर्मित्रमुदासीनस्त्रिविधं स्यादिदं जगत् ॥ व्यवहारेषु नियतं दृश्यते नान्यथा पुनः ॥ ७० ॥

टीका-शत्रु मित्र उदासीनता यही तीन प्रकारके व्यवहारका प्रवाह इस संसारमें निश्चय देखपड़ता है ॥ ७० ॥

मूलम्-प्रियाप्रियादिभेदस्तु वस्तुषु नियतः स्फुटम् ॥ आत्मोपाधिवशादेवं भवेत्पुत्रादि नान्यथा ॥ ७१ ॥ मायाविलसितं विश्वं ज्ञात्वैवं श्रुतियुक्तितः ॥ अध्यारोपापवादाभ्यां लयं कुर्वन्ति योगिनः ॥ ७२ ॥

टीका-और प्रिय अप्रिय यही दो भेदसे जगत् बँधा है ॥ आत्माके उपाधिसे पिता पुत्रादि होतेहैं यह जगत् मायासे विलसितहै यह श्रुति प्रमाणसे जानके योगी लोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामें लय करतेहैं अर्थात् शुद्धचैतन्यका मनन करते हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

मूलम्-कर्मजन्यं विश्वमिदं नत्वकर्मणि

(२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वेदना ॥ निखिलोपाधिहीनो वै यदा
भवति पूरुषः ॥ ७३ ॥

टीका—इस जगत्की स्थिति कर्मसे है अर्थात् सुख दुःख जन्म मरण आदि क्लेशोंका कारण कर्मही है अकर्म होजानेसे फिर कुछ दुःख नहीं है यावत् मायाके उपाधिको जब पुरुष जीतेके उससे रहित होजाताहै ॥ ७३ ॥

मूलम्—तदा विजयतेऽखंडज्ञानरूपी निरं-
जनः ॥ सहि कामयते पुरुषः सृजते च
प्रजाः स्वयम् ॥ ७४ ॥

टीका—तब अखंडज्ञानरूपी निरंजनका भान हो-
ताहै ॥ आत्मा अपने इच्छासे जगत् सृजता अर्थात्
उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥

मूलम्—अविद्या भासते यस्मात्तस्मान्मि-
थ्या स्वभावतः ॥ शुद्धे ब्रह्मणि संवद्धो
विद्यया सहजो भवेत् ॥ ७५ ॥

टीका—यह इच्छा अविद्याका कार्य है अविद्या नाम
मिथ्याका है तो जब इच्छाही मिथ्या मायासे उत्पन्न है
तो उस इच्छाका कार्य कब सत्य होसक्ताहै तात्पर्य
यहहै कि, मायाके उपाधिसे आत्माका यह इच्छाभूत

संसार मनोराज्यवत् है. जैसे मनुष्यका मनोराज्य मिथ्या है, उसी प्रकार आत्माका इच्छाभूत यह जगत्भी मिथ्याहै शुद्धब्रह्ममें ज्ञानरूपी विद्याका संबन्धहै ॥७६॥

मूलम्—ब्रह्मतेजोऽशतो याति तत आभास
ते नभः ॥ तस्मात्प्रकाशते वायुर्वायोर-
ग्निस्ततो जलम् ॥ ७६ ॥ प्रकाशते ततः
पृथ्वी कल्पनेयं स्थिता सति ॥ आकाशा-
द्वायुराकाशपवनादग्निसंभवः ॥ ७७ ॥

टीका—उस ब्रह्मके तेजअंशसे आकाश उत्पन्न भया, आकाशसे वायु उत्पन्न भया, वायुसे अग्नि उत्पन्न भया अग्निसे जल भया, जलसे पृथ्वी उत्पन्न भई, यह कल्पना है आकाशसे वायु उत्पन्न भया और आकाश वायुसे तेज उत्पन्न भया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

मूलम्—खवाताग्नेर्जलं व्योमवाताग्निवारि
तोमही ॥ खंशब्दलक्षणं वायुश्चंचलः स्पर्-
शलक्षणः ॥ ७८ ॥ स्याद्रूपलक्षणं तेजः
सलिलं रसलक्षणम् ॥ गन्धलक्षणिका
पृथ्वी नान्यथा भवति ध्रुवम् ॥ ७९ ॥

(२८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

विशेषगुणाः प्रस्फुरन्ति यतः शास्त्रादि-
निर्णयः ॥ शब्दैकगुणमाकाशं द्विगुणो
वायुरुच्यते ॥ ८० ॥ तथैव त्रिगुणं तेजो भ-
वन्त्यापश्चतुर्गुणाः ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं
च रसो गन्धस्तथैव च ॥ ८१ ॥ एतत्पंच-
गुणा पृथ्वी कल्पकैः कल्प्यतेऽधुना ॥ चक्षु-
पा गृह्यते रूपं गन्धो घ्राणेन गृह्यते ॥ ८२ ॥

टीका—और आकाश वायु अग्निसे जल उत्पन्न भया
और इन चारोंसे पृथ्वी उत्पन्न भई, शब्दगुण आकाश-
का है और स्पर्श गुण वायुका है, रूपगुण तेजका
है, रसगुण जलका है और पृथ्वीका गुण गंध है. इन
पांच तत्त्वोंमें यह गुण जो ऊपर कहा है विशेष है यह
शास्त्रसे निर्णय भया है अन्यथा नहीं है निश्चय है कि,
आकाशमें एक शब्द गुण है, वायुमें दो गुण हैं, अग्निमें
तीन गुण हैं और जलमें चार गुण हैं, पृथ्वीमें शब्द,
स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पांचों गुण कल्पित हैं नेत्र
रूपको ग्रहण करता है और नासिका गंध ग्रहण करती
है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

मूलम्—रसो रसनया स्पर्शस्त्वचा संगृह्यते

परम् ॥ श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति
नान्यथा ॥ ८३ ॥

टीका—और जिह्वासे रस ग्रहण होता है और स्पर्श
त्वंचा अर्थात् शरीरके चर्मसे ग्रहण होता है वा
बोध होता है और शब्द कर्णसे ग्रहण होता है यह
निश्चय है इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ८३ ॥

मूलम्—चैतन्यात्सर्वमुत्पन्नं जगदेतच्चराच-
रम् ॥ अस्तिचेत्कल्पनेयं स्यान्नास्ति
चेदस्ति चिन्मयम् ॥ ८४ ॥

टीका—सब जगत् चराचर उसी एक चैतन्यसे
उत्पन्न भया है यदि संसार सत्य माना जाय तो इस प्रका-
रसे कल्पना भई है और जो संसारका अभाव है अर्थात्
नहीं है तो वही एक चैतन्य आत्मा है और कुछ नहीं
है ॥ ८४ ॥

मूलम्—पृथ्वी शीर्णा जले मग्ना जलं मग्नञ्च
तेजसि ॥ लीनं वायौ तथा तेजो व्योम्नि
वातो लयं ययौ ॥ ८५ ॥

टीका—पृथ्वी जलमें मग्न अर्थात् लय होजाती है जला

अग्निमें लयभावको प्राप्त होताहै और अग्नि वायुमें लय होजाताहै और वायु आकाशमें लीन होजाताहै ॥ ८५ ॥

मूलम्-अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे पदे ॥ विक्षेपावरणाशक्तिर्दुरन्ता दुःखरूपिणी ॥ ८६ ॥ जडरूपा महामाया रजःसत्त्वतमोगुणा ॥ सा मायावरणाशक्त्यावृताविज्ञानरूपिणी ॥ ८७ ॥

टीका-और आकाश अविद्यामें लयभावको प्राप्त होजाताहै और यह अविद्या मायाभी परमपदको पहुँच जाती है अर्थात् आत्मामें लय होजातीहै. तात्पर्य यह है कि, जो उत्पन्न भयाहै उसका अवश्य नाशहै. ईश्वरकी यह दो शक्ति विक्षेप और आवरण हैं, इनका अंत नहींहैं यह महामाया दुःखरूपिणीमें रज, सत्त्व, तम, तीनों गुण हैं समय समयपर इन गुणोंको धारण कर लेतीहै सो माया आवरणशक्ति ज्ञानको आवृत करके अर्थात् छिपाके अज्ञानरूपिणी होजातीहै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

मूलम्-दर्शयेज्जगदाकारं तं विक्षेपस्वभावतः ॥ तमोगुणाधिकाविद्या या सा दुर्गा भवेत्स्वयम् ॥ ८८ ॥ ईश्वरं तदुपहितं चैतन्यं तद-

भृद्भुवम्॥सत्त्वाधिका च या विद्या लक्ष्मीः
स्याद्विव्यरूपिणी॥८९॥चैतन्यं तदुपहितं
विष्णुर्भवति नान्यथा ॥ रजोगुणाधिका
विद्या ज्ञेया सा वै सरस्वती ॥ यश्चि-
त्स्वरूपो भवति ब्रह्मा तदुपधारकः ॥९०॥

टीका—और संसारके आकारको देखातीहै यह विक्षेप करना उसका स्वभाव है माया जब तमोगुण धारण करतीहै तब दुर्गारूप होके चैतन्य ईश्वरको उत्पन्न करतीहै और जब सतोगुणको धारण करतीहै तब लक्ष्मी रूप होके चैतन्य जो विष्णु हैं उनको उत्पन्न करतीहै जब रजोगुणको धारण करतीहै तब सरस्वतीरूप होके चैतन्य जो ब्रह्मा हैं उनको उत्पन्न करतीहै अर्थात् सबके उत्पत्तिका कारण यही जगन्माता महा-माया है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मूलम्—ईशाद्याः सकला देवा दृश्यन्ते पर-
मात्मनि ॥ शरीरादिजडं सर्वं सा विद्या
तत्तथा तथा ॥९१॥एवंरूपेण कल्पन्ते क-
ल्पका विश्वसम्भवम् ॥ तत्त्वात्तत्त्वं भवंती
हकल्पनान्येन नोदिता ॥ ९२ ॥

टीका-हमारे आदि सकल देवता उसी एक परमात्मामें देख पड़ते हैं और शरीरआदि सब जड पदार्थ उसी एक विद्या अर्थात् आत्मामें भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं इसी तरह बुद्धिमान् लोगोंने संसारके स्थितिकी कल्पना किया है कि, तत्त्व अतत्त्व दोनों भयाहैं अर्थात् आत्मासेही सब सृष्टिकी उत्पत्ति केवल कल्पनामात्रहै और कुछ किसीने कहा नहीं है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

मूलम्-प्रमेयत्वादिरूपेण सर्वं वस्तु प्रकाश्यते ॥ तथैव वस्तुनास्त्येव भासको वर्तकः परः ॥ ९३ ॥ स्वरूपत्वेन रूपेण स्वरूपं वस्तु भाष्यते ॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो भवति नान्यथा ॥ ९४ ॥

टीका-प्रमेयरूप अर्थात् यावत् वस्तु संसारमें दृश्यमान हैं वह सबके प्रकाशका कारण वही एक आत्मा है उपाधिभेदसे भिन्न भिन्न स्वरूपदे खपड़ता है विशेष करके नामभेदसे भेद है अर्थात् ज्ञान और ज्ञेय दोनों वहीहै और कुछ नहीं है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

मूलम्-एकः सत्तापूरितानन्दरूपः पूर्णो व्यापी वर्तते नास्ति किञ्चित् ॥ एतज्ज्ञानं

यः करौत्येव नित्यं मुक्तः स स्यान्मृत्युसं-
सारदुःखात् ॥ ९५ ॥

टीका—एक सत्तामात्र पुरित आनन्दस्वरूप परि-
पूर्ण व्यापी सर्वदा वर्तमानहै और दूसरा कुछ नहीं है
एसा ज्ञान जिसको है और सर्वदा वह यही मनन कर-
ताहै सो मुक्त है अर्थात् संसारके जन्ममरणआदि
दुःखसे वह रहित है ॥ ९५ ॥

मूलम्—यस्यारोपापवादाभ्यां यत्र सर्वे लयं
गताः ॥ स एको वर्तते नान्यत्तच्चित्तेना-
वधार्यते ॥ ९६ ॥

टीका—जहां ज्ञानद्वारा संसारके कार्योंका लय
होजाता है अर्थात् उससे अभेद होजाते हैं उसी एक
सर्वदा वर्तमान आत्मामें मनको लय करे अर्थात्
आत्माकाही ध्यान धारण करे ॥ ९६ ॥

मूलम्—पितुरन्नमयात्कोशाज्जायते पूर्वक-
र्मणः ॥ शरीरं वै जडं दुःखं स्वप्राग्भोगाय
सुन्दरम् ॥ ९७ ॥

टीका—पूर्वकर्मके अनुसार प्राणी पिताके अन्न-
मय कोशसे दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर
भोगरूप उत्पन्न होताहै ॥ ९७ ॥

मूलम्-मांसास्थिरुनायुमज्जादिनिर्मितं भोगमन्दिरम् ॥ केवलं दुःखभोगाय नाडीसंततिगुंफितम् ॥ ९८ ॥

टीका-मांस अस्थि स्नायु मज्जा आदि नाडियोंसे बँधाहुआ यह भोगमन्दिर अर्थात् शरीर केवल दुःखका कारण है, तात्पर्य यह है कि, ऐसा शरीर जिसके उत्पत्ति स्थितिके स्मरण करनेसे घृणा होती है उसमें व्यर्थ मनुष्य मायामें फँसके मोह और अभिमान करता है ॥९८॥

मूलम्-पारमेष्ठ्यमिदं गात्रं पंचभूताविनिर्मितम् ॥ ब्रह्माण्डसंज्ञकं दुःखसुखभोगाय कल्पितम् ॥ ९९ ॥

टीका-यह शरीर ब्रह्माके द्वारा पंचभूतसे निर्मित ब्रह्माण्डसंज्ञा सुख दुःख भोगनेके हेतु कल्पित है ॥९९॥

मूलम्-विन्दुः शिवो रजः शक्तिरुभयोर्मिलनात्स्वयम् ॥ स्वप्नभूतानि जायन्ते स्वशक्त्या जडरूपया ॥ १०० ॥

टीका-शिवरूप विन्दु और शक्तिरूप रज इन दोनोंके संबन्धसे ईश्वरकी शक्ति जडरूपा महामाया अपनी प्रभुतासे शरीरोंको उत्पन्न करती है ॥ १०० ॥

मूलम्-तत्पञ्चीकरणात्स्थूलान्यसंख्यानि
चराचरम् ॥ ब्रह्मांडस्थानि वस्तूनि यत्र
जीवोऽस्तिकर्मभिः ॥ १०१ ॥ तद्भूतपञ्च-
कात्सर्वं भोगाय जीवसंज्ञिता ॥ १०२ ॥

टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूल वस्तु इस
संसारमें चराचर उत्पन्न होती हैं यह जीवभी अपने
कर्मके अनुसार भोग भोगनेके हेतु उसी पांच भूतसे
जीवसंज्ञा करके प्रगट होता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

मूलम्-पूर्वकर्मानुरोधेन करोमि घटनामहं ॥
अजडः सर्वभूतान्वै जडस्थित्या भुनक्ति
तान् ॥ १०३ ॥

टीका-ईश्वर कहते हैं कि, प्राणीको पूर्व कर्मके अनु-
सार हम उत्पन्न करतेहैं और सर्व भूतोंसे हम अजड
अर्थात् भिन्न और अविनाशी हैं परंतु जडरूप होके सब-
को हम खाजाते हैं अर्थात् सबका नाश करतेहैं ॥१०३॥

मूलम्-जडात्स्वंकर्मभिर्वद्धो जीवाख्यो वि-
विधो भवेत् ॥ भोगायोत्पद्यते कर्म ब्रह्मां-
डाख्ये पुनः पुनः ॥ जीवश्च लीयते भोगाव-
साने च स्वकर्मणः ॥ १०४ ॥

(३६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका-जीव अपने कर्ममें बंधके नाना प्रकारके जड शरीर धारण करता है और अपने कर्मके फल भोगनेके हेतु संसारमें वारंवार उत्पन्न होता है और सब कर्मोंके अवसानमें अर्थात् जब ज्ञानद्वारा सब कर्मोंसे रहित होजाता है तब उसी ज्ञानस्वरूप आत्मामें लय होजाताहै ॥ १०४ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे लयप्रकरणे
भाषाटीकायां प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयपटलः ।

मूलम्-देहेऽस्मिन्वर्तते मेरुःसप्तद्वीपसमन्वितः॥सरितःसागराः शैलाःक्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः॥१॥ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥ २ ॥

टीका-प्राणीके इस शरीरमें सप्तद्वीपसहित सुमेरु है और नदी समुद्रआदि पर्वत और क्षेत्र क्षेत्रपाल ऋषि मुनि और सब नक्षत्र ग्रह पुण्यतीर्थ और पीठ देवता आदि सब इसी शरीरमें वर्तमान हैं । तात्पर्य यह है कि, मनुष्य तीर्थोंमें स्नान दर्शनके हेतु भटकता फिरता है, परंतु इस शरीरस्थ तीर्थ और देवताको नहीं जानता न

मनको शुद्ध करके उनके जाननेमें प्रयास करता है ॥ १ ॥ २ ॥
 मूलम्-सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशि-
 भास्करौ ॥ नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी
 तथैव च ॥ ३ ॥

टीका-सृष्टिके स्थिति संहारके कर्ता चन्द्रमा और
 सूर्य इस शरीरमें भ्रमण करते हैं और आकाश, वायु,
 अग्नि, जल, पृथ्वी, अर्थात् पांचों तत्त्व सर्वदा शरीरमें
 वर्तमान रहते हैं. तात्पर्य यह है कि, सब इसी शरीरमें हैं
 परंतु विना गुरुकी कृपाके देख नहीं पड़ते ॥ ३ ॥

मूलम्-त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वा-
 णि देहतः ॥ मेरुं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः
 प्रवर्तते ॥ जानाति यः सर्वमिदं स योगी
 नात्र संशयः ॥ ४ ॥

टीका-जो त्रैलोक्यमें चराचर वस्तु हैं सो सब इसी
 शरीरमें मेरुके आश्रय होके सर्वत्र अपने २ व्यवहार
 को वर्तते हैं जो मनुष्य यह सब जानता है सो योगी है
 इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥

मूलम्-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यव-
 स्थितः ॥ मेरुशृंगे सुधारश्चिर्मर्वाहिरष्टक-
 लायुतः ॥ ५ ॥

टीका—यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञकहै जिस तरह संसारमें सब देश और सुमेरु पर्वतहै उसी तरह शरीरमें मेरु है उसके ऊपर सुधाकर अर्थात् चन्द्रमा आठ कलासे स्थितहै ॥ ५ ॥

मूलम्—वर्ततेऽहर्निशं सोऽपि सुधावर्षत्य-
धोमुखः ॥ ६ ॥ ततोऽमृतं द्विधाभूतं याति
सूक्ष्मं यथा च वै ॥ इडामार्गेण पुष्ट्यर्थं
याति मन्दाकिनीजलम् ॥ पुष्णाति सकलं
देहमिडामार्गेण निश्चितम् ॥ ७ ॥

टीका—सोई चन्द्रमा रात्रि दिवस अधोमुख होके अमृतकी वर्षा करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो-जाता है सो मन्दाकिनीके जलके समान देहके रक्षार्थ इडा जो वामनाडी है उसके रन्ध्रसे सकल शरीरको पोषण करता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

मूलम्—एष पीथूपरश्मिर्हि वामपार्श्वे व्य-
वस्थितः ॥ ८ ॥ अपरः शुद्धदुग्धाभो ह-
ठात्कर्षति मण्डलात् ॥ रन्ध्रमार्गेण सू-
ष्ट्यर्थं मेरौ संस्थाति चन्द्रमाः ॥ ९ ॥

टीका—वही सुधाकिरण संयुक्त इडा नाडीकी स्थिति वामभागमें है और शुद्ध दूधके समान मेरुमें चन्द्रम

प्रसन्नतापूर्वकं अपने मण्डलसे इडाके रन्ध्रमार्गसे आ-
यके देहीका पोषण करते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥

मूलम्-मेरुमूले स्थितः सूर्यः कलाद्वादशसं-
युतः ॥ दक्षिणे पथि रश्मिभिर्वहत्यूर्ध्वं प्र-
जापतिः ॥ १० ॥

टीका-मेरुदण्डके मूलमें अर्थात् नीचे वारह कला-
संयुक्त सूर्य स्थित हैं दक्षिणपथ अर्थात् पिङ्गलानाडी
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति ऊपरको है ॥ १० ॥

मूलम्-पीयूषरश्मिनिर्यासं धातुंश्च ग्रसति
ध्रुवम् ॥ समीरमण्डले सूर्यो भ्रमते सर्व-
विग्रहे ॥ ११ ॥

टीका-सूर्य अमृतधातुको अपने किरण शक्तिसे
ग्रास करजातेहैं और वायुमण्डलके साथ सब शरीरमें
भ्रमण करतेहैं ॥ ११ ॥

मूलम्-एषा सूर्यपरा मूर्तिर्निर्वाणं दक्षिणे प-
थि ॥ वहते लग्नयोगेन सृष्टिसंहारका-
रकः ॥ १२ ॥

टीका-यह सूर्यकी अपर निर्वाण मूर्ति है अर्थात्
पिङ्गलानाडी दक्षिणभागमें स्थितहै सूर्य सृष्टिसंहार
करता लग्नयोगसे नाडीद्वारा प्रवाह करतेहैं ॥ १२ ॥

(४०) शिवसंहिता भाषाटीकोसमेता ।

मूलम्-सार्धलक्षत्रयं नाड्यः सन्ति देहान्तरे
नृणाम् ॥ प्रधानभूता नाड्यस्तु तासु सु-
ख्याश्चतुर्दश ॥ १३ ॥ सुपुम्णेडा पिङ्गला
च गान्धारी हस्तिजिह्विका ॥ कुहूः सरस्व-
ती पूषा शंखिनी च पयस्विनी ॥ १४ ॥ वा-
रुणालम्बुसा चैव विश्वोदरी यशस्विनी ॥
एतासु तिस्रो मुख्याः स्युः पिङ्गलेडा सु-
पुम्णिका ॥ १५ ॥

टीका-शरीरमें बहुत नाडी हैं परंतु उनमें प्रधान
नाडी साठेतीन लक्ष हैं उनमेंसे मुख्य यह चौदह ना-
डी हैं १ सुपुम्णा २ इडा ३ पिङ्गला ४ गान्धारी ५ हस्ति-
जिह्वा ६ कुहू ७ सरस्वती ८ पूषा ९ शंखिनी १० पय-
स्विनी ११ वारुणा १२ अलंबुसा १३ विश्वोदरी १४ यश-
स्विनी इन चौदहमें भी तीन नाडी मुख्य हैं इडा, पिङ्ग-
ला, सुपुम्णा ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूलम्-तिसृष्वेका सुपुम्णैव मुख्या सा
योगिवल्लभा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा
नाड्यः सन्ति हि देहिनाम् ॥ १६ ॥

टीका-इडा, पिङ्गला, सुपुम्णा इन तीन नाडियोंमें

भी एकही सुपुम्णा मुख्य है इस कारणसे कि, परमपदकी दाता है योगी लोगोंको हितकारी है अन्य नाडी उसके आश्रय शरीरमें रहती हैं ॥ १६ ॥

मूलम्--नाड्यस्तु ता अधोवदनाःपद्मतन्तु-
निभाः स्थिताः ॥ षष्ठवंशं समाश्रित्य
सोमसूर्याग्निरूपिणी ॥ १७ ॥

टीका--यह तीनों नाडी अधोवदनाहैं अर्थात् नीचेको मुख कमलतन्तुके सदृश है और चन्द्र सूर्य आग्निके समान हैं अर्थात् इडा चन्द्ररूप और पिङ्गला सूर्यरूप और सुपुम्णा अग्निरूप है यह तीनों नाडी मेरुदंडके आश्रय स्थित हैं ॥ १७ ॥

मूलम्--तासां मध्ये गता नाडी चित्रा सा
मम वल्लभा ॥ ब्रह्मरन्ध्रञ्च तत्रैव सूक्ष्मा-
त्सूक्ष्मतरं शुभम् ॥ १८ ॥

टीका--उन तीनों नाडियोंके मध्यमें जो चित्रा नाडी है वह हमको प्रिय है उसी स्थानमें बहुत सूक्ष्म ब्रह्मरन्ध्र शोभायमान है ॥ १८ ॥

मूलम्--पञ्चवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुपुम्णा
मध्यचारिणी ॥ देहस्योपाधिरूपा सा
सुपुम्णा मध्यरूपिणी ॥ १९ ॥

टीका—वह चित्रनाडी पंचवर्ण अतिउज्ज्वल शुद्ध है और देहके उपाधिका कारणभी वही सुषुम्णान्तर्गता अर्थात् चित्रा नाडी है. तात्पर्य यह है कि, आत्मस्वरूप वही है ॥ १९ ॥

मूलम्—दिव्यमार्गमिदं प्रोक्तममृतानन्दकारकम् ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो दुरितौघं विनाशयेत् ॥ २० ॥

टीका—यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ अमृतानन्दकारक मुक्तिका दाता हमने कहा है जिसके ध्यानमात्रसे योगी लोगोंके पापका समूह नाश होजाताहै ॥ २० ॥

मूलम्—गुदात्तु द्व्यंगुलादूर्ध्वं मेढ्रात्तु द्व्यंगुलादधः ॥ चतुरंगुलविस्तारमाधारं वर्तते समम् ॥ २१ ॥

टीका—गुदासे दो अंगुल ऊपर और मेढ्रसे दो अंगुल नीचे मध्यमें चार अंगुल विस्तार आधारपद्म है ॥ २१ ॥

मूलम्—तस्मिन्नाधारपद्मे च कर्णिकायां सुशोभना ॥ त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वतंत्रेषु गोपिता ॥ २२ ॥

टीका—उस आधारपद्मके कर्णिकामें अर्थात् डंडीमें

त्रिकोण योनि है यह योनि सब तंत्रों करके गोपित है अर्थात् इसके प्रकाशकरनेकी आज्ञा किसी शास्त्रमें नहीं है ॥ २२ ॥

मूलम्-तत्र विद्युलताकारा कुण्डली परदे-
वता ॥ सार्द्धत्रिकरा कुटिला सुपुम्णा मार्ग
संस्थिता ॥ २३ ॥

टीका-उसी स्थानमें कुण्डलिनी देवता साठेतीन हात कुटिला अर्थात् टेढी जिसकी प्रभा विद्युत्के समान है सुपुम्णाके मार्गमें स्थित है ॥ २३ ॥

मूलम्-जगत्संसृष्टिरूपा सा निर्माणे सत-
तोद्यता ॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा
देवैर्नमस्कृता ॥ २४ ॥

टीका-सोई कुण्डलिनी जगत्के बहुत प्रकारसे उत्साहपूर्वक रचना करनेकी रूप है और वाग्देवी है अर्थात् उसीसे वाक्यका उच्चारण होता है इस कुण्डलिनी देवीको देवतालोग नमस्कार करते हैं ॥ २४ ॥

मूलम्-इडानाम्नी तु या नाडी वाममार्गे
व्यवस्थिता ॥ सुपुम्णायां समाश्लिष्य
दक्षनासापुटे गता ॥ २५ ॥

टीका-जो इडा नाम नाडी वामभागमें है वह सु-

(४४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

पुम्णाको आवृत करती हुई अर्थात् उससे मिलीहुई नासिकाके दक्षिणद्वारको गई है ॥ २५ ॥

मूलम्-पिङ्गला नाम या नाडी दक्षमार्गे
व्यवस्थिता ॥ सुपुम्णा सा समाश्लिष्य
वामनासापुटे गता ॥२६ ॥

टीका-दक्षिणमार्गमें जो पिङ्गला नाडी है वह सुपु-
म्णाके आसरे होके नासिकाके वामद्वारको गई है ॥२६॥

मूलम्-इडापिंगलयोर्मध्ये सुपुम्णा या भ-
वेत्खलु ॥ षट्स्थानेषु च षट्शक्ति षट्-
पद्मं योगिनो विदुः ॥ २७ ॥

टीका-इडा पिङ्गलाके मध्यमें सुपुम्णाहै इस सुपु-
म्णाके छः स्थानमें छः शक्ति हैं इनके नाम यह हैं डा-
किनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी; राकिनी, शाकिनी,
और इन्हीं छः स्थानोंमें छः पद्म हैं उनके नाम यह हैं
आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा
यह अपने ज्ञानसे योगी लोग जानते हैं ॥ २७ ॥

मूलम्-पंचस्थानं सुपुम्णाया नामानि
स्युर्वहूनि च ॥ प्रयोजनवशात्तानि ज्ञात-
ानि शास्त्रतः ॥ २८ ॥

टीका--सुपुम्णाके पांच स्थान हैं उनके नाम बहुत हैं प्रयोजनसे शास्त्रकरके जाना जाताहै ॥ २८ ॥

मूलम्--अन्या याऽस्त्यपरा नाडी मूलाधा-
रात्समुत्थिताः॥रसनामेढूनयनं पादांगुष्ठे
च श्रोत्रकम् ॥ २९ ॥ कुक्षिकक्षांगुष्ठकर्णं
सर्वांगं पायुकुक्षिकम्॥लब्ध्वातां वै निव-
र्तन्ते यथादेशसमुद्भवाः ॥ ३० ॥

टीका--और अन्य नाडी मूलाधारसे उठीहैं और जिह्वा, मेढू, नेत्र, पादका अङ्गुष्ठ, कर्ण, कुक्षि, कक्ष, हस्ताङ्गुष्ठ, पायु, उपस्थ, इन सब अङ्गोंमें इनका अन्त भयाहै अर्थात् मूलाधारसे उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें जाके निवृत्त होगई हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

मूलम्--एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपशा-
खतः क्रमात् ॥ सार्धलक्षत्रयं जातं यथा-
भागं व्यवस्थितम् ॥३१॥ एता भोगवहा
नाड्यो वायुसञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोताः
सुसंव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन्कलेवरे ॥ ३२ ॥

टीका--इन्हीं नाडियोंमेंसे शाखोपशाख क्रमसे साठेतीनलक्ष नाडी उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें स्थित हैं यह सब भोगवहानाडी वायुके संचारमें

(४६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

दक्षहैं ओतप्रोत अर्थात् संयोग वियोगसे इस शरीरमें व्याप्त हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मूलम्-सूर्यमण्डलमध्यस्थः कलाद्वादश-
संयुतः॥वस्तिदेशे ज्वलद्बह्निर्वर्तते चान्न-
पाचकः ॥ ३३ ॥ वैश्वानराग्निरेपो वै मम
तेजोऽशसम्भवः ॥ करोति विविधं पाकं
प्राणिनां देहमास्थितः ॥ ३४ ॥

टीका-द्वादशकलासंयुक्त सूर्यमण्डलके मध्यमें प्रज्वलित अग्नि है सो वस्तिदेशमें अन्नका पाचन करती है वह वैश्वानर अग्नि हमारे तेजसे उत्पन्न है प्राणीके शरीरमें स्थित होकर नाना प्रकारका पाक करती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मूलम्- आयुःप्रदायको वह्निर्बलं पुष्टिं द-
दाति सः ॥ शरीरपाटवञ्चापि ध्वस्तरोग
समुद्भवः ॥ ३५ ॥

टीका-सो वैश्वानर अग्नि आयु, बल और पुष्टता और शरीरमें कान्तिका देनेवाला है और यावत् रोगोंको नाश करनेवाला है ॥ ३५ ॥

मूलम्-तस्माद्वैश्वानराग्निञ्च प्रज्वालय वि-

धिवत्सुधीः ॥ तस्मिन्नन्नं हुनेद्योगी प्रत्य-
हं गुरुशिक्षया ॥ ३६ ॥

टीका-इस वैश्वानर अग्निको गुरुके शिक्षापूर्वक प्रज्वलित करके नित्य उसमें अन्नका होम करै अर्थात् भोजन करै ॥ ३६ ॥

मूलम्-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे स्थानानि स्युर्व-
हानि च ॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात-
व्यानीह शास्त्रके ॥ ३७ ॥ नानाप्रकारना-
मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वर्तन्ते
विग्रहे तानि कथितुं नैव शक्यते ॥ ३८ ॥

टीका-यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञक है इसमें बहुत स्थान हैं हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं ये शास्त्रसे जाने जाते हैं बहुत प्रकारके स्थान और नाम उन स्थानोंके हैं जो इस शरीरमें वर्तमान हैं उनके वर्णन करनेको हम शक्य नहीं है अर्थात् बहुत विस्तार है उसके कहनेमें व्यर्थ परिश्रम है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मूलम्-इत्थं प्रकल्पिते देहे जीवो वसति
सर्व्वगः ॥ अनादिवासनामालाऽलंकृतः
कर्मशृङ्खलः ॥ ३९ ॥

टीका-इसी तरह शरीर कल्पित है और जीव पूर्व-

(४८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वासनारूपी वेडीमें फँसके मालाके तरह घूमा करता है ॥ ३९ ॥

मूलम्-नानाविधगुणोपेतः सर्वव्यापारकारकः ॥ पूर्वार्जितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि च ॥ ४० ॥

टीका-सोई जीव नानाप्रकारके गुण ग्रहण करताहै और संसारमें बहुत प्रकारके व्यापार करताहै यह सब पूर्वार्जित शुभाशुभ कर्मके फल भोगताहै ॥ ४० ॥

मूलम्-यद्यत्संदृश्यते लोके सर्वं तत्कर्मसम्भवम् ॥ सर्वः कर्मानुसारेण जन्तुर्भोगान्भुनक्ति वै ॥ ४१ ॥

टीका-जो जो शुभाशुभ कर्म संसारमें देखपड़ताहै वह सबका आदिकारण कर्मही है प्राणीमात्र अपने कर्मके अनुसार भोग भोगता है ॥ ४१ ॥

मूलम्-ये ये कामादयो दोषाः सुखदुःखप्रदायकाः ॥ ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीवकर्मानुसारतः ॥ ४२ ॥

टीका-जो जो काम क्रोध आदिसे सुख दुःख होताहै वो सब जीवके कर्महीके अनुसार वर्तताहै ॥ ४२ ॥

मूलम्-पुण्योपरक्तचैतन्ये प्राणान्प्रीणाति
केवलम् ॥ बाह्ये पुण्यमयं प्राप्य भोज्यव-
स्तु स्वयम्भवेत् ॥ ४३ ॥

टीका-पुण्यकर्मके अनुष्ठान करनेसे प्राणीको सुख
होता है और बाह्य वस्तु श्रेष्ठ भोजनआदि नानाप्र-
कारकी वस्तु आपही मिल जातीहै ॥ ४३ ॥

मूलम्-ततः कर्मवलात्पुंसः सुखं वा दुःखमे-
व च ॥ पापोपरक्तचैतन्यं नैव तिष्ठति नि-
श्चितम् ॥ ४४ ॥ न तद्भिन्नो भवेत्सोऽपि त-
द्भिन्नो न तु किञ्चन ॥ मायोपहितचैत-
न्यात्सर्वं वस्तु प्रजायते ॥ ४५ ॥

टीका-यह प्राणी अपने कर्मके बलसे सुख वा
दुःख भोगताहै, जीव जब पापमें आसक्त होताहै तब
दुःख भोगताहै, फिर उसको सुखलाभ नहीं होता.
जीव अपने कर्मके अनुसार सुख वा दुःख भोगताहै
इसमें भिन्नता नहीं है अर्थात् कर्ता भोक्तामें भेद
नहीं चैतन्य आत्मा जब मायोपहित होताहै तब सब
वस्तु उत्पन्न होताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

मूलम्-यथाकालेपि भोगाय जन्तूनां विवि-

(५०) शिवसंहिता तापार्टाकासमेता ।

धोद्भवः ॥ यथा दोषवशाच्छुक्तौ रजता-
रोपणं भवेत् ॥ तथा स्वकर्मदोषाद्ब्रह्म-
ण्यारोप्यते जगत् ॥ ४६ ॥

टीका—जैसा काल भोगके हेतु निश्चय रहता है उसमें प्राणी नानाप्रकारसे भोग भोगनेके लिये उत्पन्न होताहै जैसे नेत्रके विकारके कारणसे सीपीमें चाँदीका आरोप होताहै वैसेही अपने कर्मके दोषसे प्राणी ब्रह्ममें मिथ्या जगत्का आरोप करताहै ॥ ४६ ॥

मूलम्—सवासनाभ्रमोत्पन्नोन्मूलनातिस-
मर्थनम् ॥ उत्पन्नञ्चेदीदृशं स्याज्ज्ञानं
मोक्षप्रसाधनम् ॥ ४७ ॥

टीका—वासनासे भ्रम उत्पन्न होताहै जबतक वासनाकी जड नहीं जाती तबतक कदापि भ्रम दूर नहीं होता इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होताहै तब कुछ नहीं रह जाता इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका साधन है ॥ ४७ ॥

मूलम्—साक्षाद्विशेषदृष्टिस्तु साक्षात्कारिणि
विभ्रमे ॥ करणं नान्यथा युक्त्या सत्यं
सत्यं मयोदितम् ॥ ४८ ॥

टीका—विशेष करके दृष्टिसे साक्षात् जो देखपड-

ताहै वही साक्षात् भ्रमका कारणहै अर्थात् इसी साक्षात्-
त्ममें मनुष्य फँसाहै मायाके आवरणसे बुद्धि आगे
नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं है यह हम
सत्य कहते हैं ॥ ४८ ॥

मूलम्—साक्षात्कारिभ्रमे साक्षात्साक्षा-
त्कारिणि नाशयेत् ॥ सो हि नास्तीति
संसारे भ्रमो नैव निवर्तते ॥ ४९ ॥

टीका—यह साक्षात् घटपट आदिका भ्रम ब्रह्मके
प्रत्यक्ष होनेसे नाश होताहै विना आत्माके प्रत्यक्ष भये
ब्रह्म संसारमें नहीं है यह भ्रम निवृत्त नहीं होता ॥ ४९ ॥

मूलम्—मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु विशेषदर्शना-
द्भवेत् ॥ अन्यथा न निवृत्तिः स्याद्दृश्य-
ते रजतभ्रमः ॥ ५० ॥

टीका—यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका विशेष-
प दर्शन होनेसे निवृत्त होता है और किसीप्रकार इस
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती. जैसे सीपीमें चाँदीका
भ्रम विना सीपीके निश्चय भये दूर नहीं होता ॥ ५० ॥

मूलम्—यावन्नोत्पद्यते ज्ञानं साक्षात्कारे
निरञ्जने ॥ तावत्सर्वाणि भूतानि दृश्य-
न्ते विविधानि च ॥ ५१ ॥

(५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जबतक आत्माका साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता तबतक सब प्राणी संसार आदि नाना प्रकारके देखपडते हैं ॥ ५१ ॥

मूलम्—यदा कर्माजितं देहं निर्वाणे साधनं
भवेत् ॥ तदा शरीरवहनं सफलं स्यान्न
चान्यथा ॥ ५२ ॥

टीका—जो यह कर्माजित शरीर है इससे निर्वाण अर्थात् आत्मज्ञानका साधन होयतब इसका जन्म और स्थिति सुफल है नहीं तो व्यर्थ है. तात्पर्य यह है कि, जिस मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस विषयका उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवल माताके दुःख देने और पृथ्वीपर भारके हेतु भया ॥ ५२ ॥

मूलम्—यादृशी वासना मूलावर्त्तते जीवसं-
गिनी ॥ तादृशं वहते जन्तुः कृत्याकृत्य-
विधौ भ्रमम् ॥ ५३ ॥

टीका—जैसी वासना जीवके संग रहती है वैसेही प्राणी शुभाशुभ कर्म भ्रमके वश होके करताहै और उसी वासनासे उत्पन्न और नाश होता रहताहै ॥ ५३ ॥

मूलम्—संसारसागरं तर्त्तुं यदीच्छेद्योगसा-
धकः ॥ कृत्वा वर्णाश्रमं कर्म फलवर्जं
तदाचरेत् ॥ ५४ ॥

टीका-योगसाधक यदि संसारसे तरनेकी इच्छा करे तो यावत् वर्णाश्रमका कर्म फलरहित करना उचित है ॥ ५४ ॥

मूलम्-विपयासक्तपुरुषा विषयेषु सुखेप्स-
वः ॥ वाचाभिरुद्धनिर्वाणा बलन्ते पापक-
र्मणि ॥ ५५ ॥

टीका-विपयासक्त पुरुष सुख और विषयकी इच्छा में सर्वदा रहते हैं और पापकर्ममें ऐसे तत्पर रहते हैं कि, वाक्यभी उनका परमार्थ विषयमें रुद्ध रहता है अर्थात् मोक्षका साधन तो बहुत दूर है परन्तु परमार्थकी चर्चासेभी उनको ज्वर चढ़ताहै ॥ ५५ ॥

मूलम्-आत्मानमात्मना पश्यन्न किञ्चिदि-
ह पश्यति ॥ तदा कर्मपरित्यागे न दोषोऽ-
स्ति मतं मम ॥ ५६ ॥

टीका-जब ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखे और सब वस्तुका अभाव जानपड़े तब कर्मको त्याग देनेमें कुछ दोष नहीं है यह हमारा मतहै ऐसा श्रीशिवजी जगन्माता पार्वतीजीसे कहते हैं ॥ ५६ ॥

मूलम्-कामादयो विलीयन्ते ज्ञानादेव न
चान्यथा ॥ अभावे सर्वतत्त्वानां स्वयं त-
त्त्वं प्रकाशते ॥ ५७ ॥

(५४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—ज्ञानमें काम क्रोधादि सकल पदार्थ लय होजातेहैं इसमें अन्यथा नहीं है, जब स्वयंतत्त्व अर्थात् आत्मज्ञान प्रकाश होताहै तब सब तत्त्वोंका अभाव होजाताहै ॥ ५७ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगप्रकथने
तत्त्वज्ञानोपदेशो नाम द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

अथ तृतीयपटलः ।

मूलम्—हृद्यस्ति पङ्कजं दिव्यं दिव्यलिङ्गेन
भूषितम् ॥ कादिठान्ताक्षरोपेतं द्वादशार्ण
विभूषितम् ॥ १ ॥

टीका—प्राणीके हृदयस्थानमें एक पद्म सुन्दर दि-
व्यलिङ्गसे शोभायमानहै यह पद्म क-से-ठ-तक द्वादश
वर्ण करके शोभित है अर्थात् क-ख-ग-घ-ङ-च-छ-ज-
झ-झ-ट-ठ ॥ १ ॥

मूलम्—प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलंकृ-
तः ॥ अनादिकर्मसंश्लिष्टः प्राप्याहङ्कार-
संयुतः ॥ २ ॥

टीका—उसी पद्ममें प्राणकी स्थितिहै और अनादि
कर्म अहंकारसंयुक्त वासनासे अलंकृतहै ॥ २ ॥

मूलम्-प्राणस्य वृत्तिभेदेन नामानि विवि-
धानि च ॥ वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुं
नैव शक्यते ॥ ३ ॥

टीका--प्राणके वृत्तिभेदसे जो इस शरीरमें वायु वर्तमान हैं उनके बहुतप्रकारके नाम हैं जिनके वर्णन करनेको हम शक्य नहीं हैं अर्थात् यहाँ उनके वर्णन का प्रयोजन नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम्-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यान-
श्च पञ्चमः ॥ नागः कूर्मश्चकृकरो देवदत्तो
धनञ्जयः ॥ ४ ॥ दशनामानि मुख्यानि म-
योक्तानीह शास्त्रके ॥ कुर्वन्तितेऽत्रकार्या-
णि प्रेरितानि स्वकर्मभिः ॥ ५ ॥

टीका--प्राणके मुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान, समान, उदान, पांचवां व्यान और नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय, यह दश वायु मुख्य हैं हम शास्त्रप्रमाणसे कहते हैं शरीरमें यह वायु अपने कर्मसे प्रेरित होके कार्य करते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूलम्-अत्रापि वायवः पञ्च मुख्याः स्युर्द-
शतः पुनः ॥ तत्रापि श्रेष्ठकर्त्तारौ प्राणा-
पानौ मयोदितौ ॥ ६ ॥

टीका—वह दश वायुमें पांच मुख्य हैं फिर उनमेंभी निश्चय करके श्रेष्ठ करता श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हमने प्राण और अपानको कहाहै ॥ ६ ॥

मूलम्—हृदि प्राणोगुदेऽपानः समानोनाभिमण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ ७ ॥ नागादिवायवः पञ्च कुर्वन्ति ते च विग्रहे ॥ उद्गारोन्मीलनंक्षुत्तृड्जृम्भा हिक्का च पञ्चमः ॥ ८ ॥

टीका—हृदयस्थानमें प्राणकी स्थिति है और गुदामें अपान और नाभिमण्डलमें समान और कण्ठमें उदान और व्यान सब शरीरमें व्याप्तहै और नाग आदि जो पांच वायु हैं वह शरीरमें डकार, हिचकी, जँभाई, क्षुधा, पिपासा, उन्मीलन अर्थात् निद्रासे जाग्रत होनेके समय जो नेत्रके खुलनेका हेतु है यह सब कार्य करतेहैं ॥ ७ ॥ ८ ॥

मूलम्—अनेन विधिना यो वै ब्रह्माण्डं वेत्ति विग्रहम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

टीका—इस विधानसे जो पहिले कहा है शरीरको जो मनुष्य ब्रह्माण्ड जानता है वह सर्व पापोंसे मुक्त होके

परमगतिको प्राप्त होताहै अर्थात् मोक्ष होताहै ॥ ९ ॥

मूलम्--अधुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य
सिद्धये ॥ यज्ज्ञात्वा नावसीदन्ति योगि-
नो योगसाधने ॥ १० ॥

टीका--अब जो हम कहते हैं इस विधिसे बहुत
शीघ्र योग सिद्ध होता है और इसके जान लेनेसे
योगीको योगसाधनमें कष्ट नहीं होता ॥ १० ॥

मूलम्--भवेद्दीर्यवती विद्या गुरुवक्त्रसमुद्भ-
वा ॥ अन्यथा फलहीना स्यान्निर्वीर्याप्य-
तिदुःखदा ॥ ११ ॥

टीका--जो विद्या गुरुके मुखसे सुनी वा जानी
जाती है वह वीर्यवती होतीहै और अन्य प्रकारसे विद्या
फलहीन निर्वीर्या और अतिदुःखकी देनेवाली होती है.
तात्पर्य यह है कि, योगविद्या वा अन्यविद्या भलेप्रकार
गुरुसे जानकरके करना उचित है जो लोक पुस्तकसे वा
किंसीको करते देखते योगादिक क्रिया आरम्भ करदे-
ते हैं उनका कल्याण नहीं होता यथार्थ न जाननेसे
कष्टही होताहै ॥ ११ ॥

मूलम्--गुरुं सन्तोष्य यत्नेन ये वै विद्यामु-
पासते ॥ अवलम्बेन विद्यायास्तस्याः
फलमवाप्नुयुः ॥ १२ ॥

टीका—गुरुको सब तरहसे प्रसन्न करके जो विद्या मिलतीहै उस विद्याका फल शीघ्र होताहै अर्थात् थोड़े कालमें सिद्ध होजातीहै ॥ १२ ॥

मूलम्—गुरुः पितागुरुर्माता गुरुर्देवो नसंश-
यः ॥ कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सर्वैः
प्रसेव्यते ॥ १३ ॥ गुरुप्रसादतः सर्वं लभ्य-
ते शुभमात्मनः ॥ तस्मात्सेव्यो गुरुर्नि-
त्यमन्यथा न शुभं भवेत् ॥ १४ ॥ प्रदक्षि-
णत्रयं कृत्वा स्पृष्ट्वा सव्येन पाणिना ॥

अष्टांगिनमस्क्रुर्याद्गुरुपादसरोरुहम् ॥ १५ ॥

टीका—गुरु पिता और गुरु माता और गुरु देवता है इसमें संशय नहीं है इस हेतुसे गुरुको कर्मसे मनसे वाक्यसे सब प्रकारसे सेवा करना उचितहै गुरुके प्रसादसे आत्माका सब शुभ होजाता है. इसलिये गुरुकी नित्य सेवा करना उचित है. दूसरी तरह शुभ नहीं है गुरुको तीन प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथसे स्पर्श करके गुरुके चरणकमलमें साष्टांग नमस्कार करना उचित है ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूलम्—श्रद्धयात्मवर्ता पुंसां सिद्धिर्भवति
नान्यथा ॥ अन्येषाञ्च न सिद्धिः स्यात्त-
स्माद्यत्नन साधयेत् ॥ १६ ॥

टीका—जिस पुरुषको श्रद्धा है उसको निश्चय करके विद्या सिद्ध होती है दूसरेको नहीं होती. इस हेतुसे साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे ॥ १६ ॥

मूलम्—न भवेत्संगयुक्तानां तथाऽविश्वासिनामपि ॥ गुरुपूजाविहीनानां तथा च बहुसंगिनाम् ॥ १७ ॥ मिथ्यावादरतानां च तथा निष्ठुरभाषिणाम् ॥ गुरुसन्तोषहीनानां न सिद्धिः स्यात्कदाचन ॥ १८ ॥

टीका—जिस पुरुषका किसी व्यवहारी मनुष्यसे अतिसङ्ग है उसको योगविद्या सिद्ध नहीं होती ऐसेही अविश्वासी और जो गुरुपूजासे हीन हैं और जिनका बहुत लोगोंसे संग है और वह लोग जो झूठ और कठोर वचन बोला करते हैं और वह लोग जो गुरुको प्रसन्न नहीं करते इन लोगोंको कदापि सिद्धि नहीं होती ॥ १७ ॥ १८ ॥

मूलम्—फलित्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथमलक्षणम् ॥ द्वितीयं श्रद्धया युक्तं तृतीयं गुरुपूजनम् ॥ १९ ॥ चतुर्थं समताभावं पञ्चमेन्द्रियनिग्रहम् ॥ षष्ठं च प्रमिताहारं सप्तमं नैव विद्यते ॥ २० ॥

टीका—योगसिद्धि होनेका प्रथम लक्षण यह है कि, उसके सिद्धिमें विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गुरु-पूजार्त हो चौथे प्राणीमात्रमें समताभाव रखे पांचवें इन्द्रियोंका निग्रह रहे छठवें परिमित भोजन करे यह छः लक्षण योनिसिद्धिके हैं और सातवाँ नहीं है ॥१९॥२०॥

मूलम्—योगोपदेशं संप्राप्य लब्ध्वा योग
विदं गुरुम् ॥ गुरुपदिष्टविधिना धिया
निश्चित्य साधयेत् ॥ २१ ॥

टीका—योगवेत्ता गुरुसे योग उपदेश लेके जिस विधिसे गुरु उपदेश करे उस विधिसे बुद्धि निश्चय करके साधन करे ॥ २१ ॥

मूलम्—सुशोभने मठे योगी पद्मासनसम-
न्वितः ॥ आसनोपरि संविश्य पवनाभ्या-
समाचरेत् ॥ २२ ॥

टीका—उपद्रवरहित सुन्दर स्वच्छ और उसका सू-क्ष्म रन्ध्र होय उस मठमें पद्मासनसंयुक्त आसनपर बैठके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२ ॥

मूलम्—समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च
गुरुन् सुधीः ॥ दक्षे वामे च विघ्नेशं क्षेत्रपा-
लांबिकां पुनः ॥ २३ ॥

टीका-समकायः अर्थात् सीधा शरीर करके हाथ जोड़के गुरुको प्रणाम करे और दक्षिण वामभागमें गणेशजीको प्रणाम करे और क्षेत्रपाल और जगन्माता देवीको प्रणाम करना उचित है ॥ २३ ॥

मूलम्-ततश्च दक्षाङ्गुष्ठेन निरुद्धय पिंगलां सुधीः ॥ इडया पूरयेद्रायुं यथाशक्त्या तु कुम्भयेत् ॥ २४ ॥ ततस्त्यक्त्वा पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥ पुनः पिंगलयाऽऽपूर्य यथाशक्त्या तु कुम्भयेत् ॥ २५ ॥ इडया रेचयेद्रायुं न वेगेन शनैःशनैः ॥ इदं योगविधानेन कुर्याद्विंशतिकुम्भकान् ॥ सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः प्रत्यहं विगतालसः ॥ २६ ॥

टीका-इसके पश्चात् दहिने हाथके अंगुष्ठसे पिंगलाको रोककरके इडासे वायुपूरक करे अर्थात् ग्राह्य करे और यथाशक्ति वायुको रोके फिर पिंगलासे शनैः शनैः रेचक अर्थात् वायुको बाहरकरे इसीप्रकार फिर पिंगलासे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इडासे धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस योगविधानसे बीस कुम्भक करे और सर्वद्वन्द्वसे रहित होजाय अर्थात् एकाकार वृत्ति रखे और नित्य आलस्यको त्याग करके अभ्यास करे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

(६२) , शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-प्रातःकाले च मध्याह्ने सूर्यास्ते
चार्द्धरात्रके ॥ कुर्यादेवं चतुर्वारं कालेष्वे-
तेषु कुम्भकान् ॥ २७ ॥

टीका-पूर्वोक्त विधिमें प्रातःकाल और मध्याह्नमें
और सायंकालमें और अर्द्धरात्रिमें इसीतरह चार बार
नित्य कुम्भक करना उचित है ॥ २७ ॥

मूलम्-इत्थं मासत्रयं कुर्यादनालस्योदिने
दिने ॥ ततो नाडीविशुद्धिः स्यादविल-
म्बेन निश्चितम् ॥ २८ ॥

टीका-इसीप्रकार आलस्यको छोडकरके तीन मास
नित्यकरे तो उस पुरुषकी नाडी बहुत शीघ्र शुद्ध
होजाय यह निश्चय है ॥ २८ ॥

मूलम्-यदा तु नाडीशुद्धिः स्याद्योगिन-
स्तत्त्वदर्शिनः ॥ तदा विध्वस्तदोषश्च
भवेदारम्भसम्भवः ॥ २९ ॥

टीका-तत्त्वदर्शी योगीकी जब नाडी शुद्ध होगी
तब सर्व दोषका नाश होगा और आरम्भका सम्भव
होगा ॥ २९ ॥

मूलम्-चिह्नानि योगिनो देहे दृश्यन्ते ना-
डिशुद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यङ्ग-
नि संक्षेपतो मया ॥ ३० ॥

टीका-नाडी शुद्ध होनेपर जो योगीके शरीरमें चिह्न देखपडतेहैं उन सबको हम संक्षेपसे वर्णन करतेहैं ॥ ३८ ॥

मूलम्-समकायःसुगन्धिश्चसुकान्तिःस्वर-
साधकः ॥३१॥ आरम्भघटकश्चैव यथा
परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्वयोगेषु
योगावस्था भवन्ति ताः ॥ ३२ ॥

टीका-जब योगीकी नाडी शुद्ध होगी तब समकाय होजायगा अर्थात् न स्थूल न कृश न वक्र रहेगा और शरीरमें सुगंधिसंयुक्त अच्छी कान्ति अर्थात् तेज रहेगा और वायुस्वरका साधन होजायगा और आरम्भका लक्षण जान पडेगा और सब योगका ज्ञान होजायगा इसको योगावस्था कहते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मूलम्-आरम्भःकथितोऽस्माभिरधुना वा-
युसिद्धये ॥ अपरः कथ्यते पश्चात्सर्वदुः-
खौघनाशनः ॥ ३३ ॥

टीका-अभी जो हमने कहा है सो प्राणवायु सिद्ध होनेके आरम्भमें यह चिह्न होता है और इसके पीछे जो सर्व दुःखका नाश होता है सो कहते हैं ॥ ३३ ॥

मूलम्-प्रौढवह्निःसुभोगी च सुखीसर्वाङ्गसु-

न्दरः ॥ संपूर्णहृदयो योगी सर्वोत्साहव-
लान्वितः ॥ जायते योगिनोऽवश्यमेत-
त्सर्वं कलेवरे ॥ ३४ ॥

टीका—साधकके शरीरमें जठराग्नि विशेष प्रज्वलित
होगी और सर्व अङ्ग सुन्दर सुखपूर्वक सुन्दर भोजन
करेगा और बलसंयुक्त सर्व उत्साहसे हृदय योगीका
प्रसन्न रहेगा इतने गुण योगीके शरीरमें अवश्य होंगे ॥ ३४ ॥

मूलम्—अथ वर्ज्यं प्रवक्ष्यामि योगविघ्नकरं
परम् ॥ येन संसारदुःखाब्धि तीर्त्वा या-
स्यन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥

टीका—अब जो योगमें विघ्न हैं उनको हम कहते हैं
जिनको त्यागके यह संसाररूपी जो दुःखका समुद्र है
योगी उसके पार होजाताहै ॥ ३५ ॥

मूलम्—आम्लं रूक्षं तथा तीक्ष्णं लवणं सर्प-
पं कटुम् ॥ बहुलं भ्रमणं प्रातः स्नानं तैल-
विदाहकम् ॥ ३६ ॥ स्तेयं हिंसां जनद्वेषञ्चा-
हङ्कारमनाजबम् ॥ उपवासमसत्यञ्च मोह-
ञ्च प्राणिपादनम् ॥ ३७ ॥ स्त्रीसङ्गमग्निसेवां
च बह्वालापं प्रियाप्रियम् ॥ अतीव भोजनं
योगी त्यजेदेतानि निश्चित ॥ ३८ ॥

टीका—खट्टा रूखा तीक्ष्ण लोन सरसों कडुआ बहुत भ्रमण करना प्रातःकाल स्नान झगीरमें तेल मर्दन करना ॥ ३६ ॥ स्वर्णआदिककी चोरी हिंसा मनुष्यसे द्वेष व अहंकार अनार्जव अर्थात् मनुष्यसे प्रेम न रखना, उपवास, झूठ, ममता, प्राणीको पीडा देना ॥ ३७ ॥ स्त्रीका सङ्ग, आग्निसेवन, प्रिय, अप्रिय, बहुत बोलना, बहुत भोजन करना योगीको उचित है कि, यह सब अवश्य त्यागदे ॥ ३८ ॥

मूलम्—उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य
सिद्धये ॥ गोपनीयं साधकानां येन सि-
द्धिर्भवेत्खलु ॥ ३९ ॥

टीका—अब हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका उपाय कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग निश्चय सिद्ध होजायगा ॥ ३९ ॥

मूलम्—घृतं क्षीरं च मिष्टान्नं ताम्बूलं चूर्णव-
र्जितम् ॥ कर्पूरं निष्ठुरं मिष्टं सुमठं सूक्ष्मव-
स्त्रकम् ॥ ४० ॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्यं वैरा-
ग्यगृहसेवनम् ॥ नामसङ्कीर्तनं विष्णोः सु-
नादश्रवणं परम् ॥ ४१ ॥ धृतिः क्षमा तपः
शौचं ह्रीर्मतिर्गुरुसेवनम् ॥ सदैतानि परं
योगी नियमेन समाचरेत् ॥ ४२ ॥

टीका-घृत दूध मधुर पदार्थ ताम्बूल कर्पूरवासित
चूर्णरहित, कठोर शब्दरहित मधुर बोलना, सुन्दर सू-
क्ष्मरन्ध्रके स्थानमें रहना, सूक्ष्म वस्त्र अर्थात् महीन और
थोडा वस्त्र धारण करे नित्य सिद्धांत अर्थात् वेदान्त
श्रवण करे और वैराग्यसे गृहमें रहे ईश्वरका स्मरण करे
अच्छा शब्द श्रवण करे धैर्य क्षमा तप शौच लज्जा गुरु-
की सेवा योगी सदैव इसप्रकार नियमसंयुक्त रहे तो
कल्याण होगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

मूलम्-अनिलेऽर्कप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि-
भिः सदा ॥ वायौ प्रविष्टे शशिनि शयनं
साधकोत्तमैः ॥ ४३ ॥

टीका-जब सूर्यनाडी अर्थात् पिंगलानाडीका
प्रवाह रहे तब योगी सदैव भोजन करे और जब चन्द्र
अर्थात् इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे तब साधकके
प्रति शयन करना उचित है ॥ ४३ ॥

मूलम्-सद्यो भुक्तेऽपि क्षुधिते नाभ्यासः
क्रियते बुधैः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं कुर्या-
त्क्षीराज्यभोजनम् ॥ ४४ ॥

टीका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब
क्षुधित होय तब साधक कदापि अभ्यास न करे और
अभ्यास कालमें प्रथम दूध घृत भोजन करे ॥ ४४ ॥

मूलम्-ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न तादृङ्घ्रिय-
मग्रहः ॥ ४५ ॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं
स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥ पूर्वोक्तकाले
कुर्यात्तु कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ४६ ॥

टीका-जब अभ्यास स्थिर होजाय तब पूर्वोक्त निय-
मका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ४५ ॥ और अभ्यासीको
उचित है कि, थोडा थोडा कईबार भोजनकरे और जिस-
प्रकार पहिले कहा है उसीतरह नित्य कुम्भक करे ॥ ४६ ॥

मूलम्-ततो यथेष्टा शक्तिः स्याद्योगिनो वा-
युधारणे ॥ यथेष्टं धारणाद्वायोः कुम्भकः
सिद्ध्यति ध्रुवम् ॥ केवले कुम्भके सि-
द्धे किं न स्यादिह योगिनः ॥ ४७ ॥

टीका-योगीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा-
के अनुसार होजायगी. जब इच्छानुसार धारणशक्ति
होजायगी तब कुम्भक निश्चय सिद्ध होगा और
केवल कुम्भक सिद्ध होनेसे योगी क्या नहीं करसकता
अर्थात् सब सिद्ध करसकता है ॥ ४७ ॥

मूलम्-स्वेदःसंजायते देहे योगिनः प्रथमो-
द्यमे ॥ ४८ ॥ यदा संजायते स्वेदो मर्दनं

(६८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कारयेत्सुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातुर्न-
ष्टो भवति योगिनः ॥ ४९ ॥

टीका—योगीके शरीरमें प्रथम स्वेद अर्थात् पसीना
उत्पन्न होता है जब स्वेद उत्पन्न होय तो उसको शरी-
रमें मर्दन करे अन्यथा अर्थात् मर्दन न करनेसे योगी-
के शरीरका धातु नष्ट होजाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

मूलम्—द्वितीये हि भवेत्कम्पो दार्ढुरी
मध्यमे मतः ॥ ततोऽधिकतराभ्यासा-
द्गनेचरसाधकः ॥ ५० ॥

टीका—दूसरे भूमिकामें कंप होताहै तीसरेमें दार्ढु-
रीवृत्ति होती है अर्थात् आसन उठता है फिर भूमिपर
आभजाता है उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी
गगनमें स्वेच्छाचारी होजाताहै ॥ ५० ॥

मूलम्—योगी पद्मासनस्थोऽपि भुवमुत्सृज्य
वर्तते ॥ वायुसिद्धिस्तदा ज्ञेया संसारध्वा-
न्तनाशिनी ॥ ५१ ॥

टीका—योगी पद्मासनस्थ होके पृथ्वीको त्यागके
आकाशमें स्थिर रहे तब जाने कि, संसारके अन्धकार
नाश करनेवाली वायु सिद्ध होगई ॥ ५१ ॥

मूलम्—तावत्कालं प्रकुर्वीत योगोक्तनियम-

ग्रहम् ॥ अल्पनिद्रा पुरीषं च स्तोकं मूत्रं
च जायते ॥ ५२ ॥

टीका—उस कालतक योगके हेतु पूर्वोक्त नियम करना उचित है जबतक वायु न सिद्ध होय और योगीको थोड़ी निद्रा और थोड़ा मलमूत्र होता है ॥ ५२ ॥

मूलम्—अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥स्वेदो लाला कृमिश्वैव सर्वथैव न जायते ॥ ५३ ॥ कफपित्तानिलाश्वैव साधकस्य कलेवरे ॥ तस्मिन्काले साधकस्य भोज्येष्वनियमग्रहः ॥ ५४ ॥

टीका—तत्त्वदर्शा योगीको कायिक वा मानसिक व्यथा उत्पन्न नहीं होती और स्वेद लाला कृमिआदि उत्पन्न नहीं होते और साधकके शरीरमें कफ पित्त वातका दोषभी नहीं होता पूर्वोक्त कालतक साधक भोजन आदिका नियम करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

मूलम्—अत्यल्पं बहुधा भुक्त्वा योगी न व्यथते हि सः ॥ अथाभ्यासवशाद्योगी भूचरीं सिद्धिमाप्नुयात् ॥ यथादर्दुरजन्तूनां गतिः स्यात्पाणिताडनात् ॥ ५५ ॥

टीका—योगीको बहुत थोड़ा या विशेष भोजन क-

रनेसे कष्ट न होगा और योगीको अभ्याससे भूचरी सिद्धि होजायगी जैसे दर्दुरजन्तु पाणि ताडन करनेसे पृथ्वीपर उड्डान करताहै उसी प्रकार योगीभी पृथ्वीपर उड्डान करता है ॥ ५५ ॥

मूलम्-सन्त्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा दुर्नि-
वारणाः ॥ तथापि साधयेद्योगी प्राणैः
कंठगतैरपि ॥ ५६ ॥

टीका-इस योगसाधनमें बहुत दारुण विघ्न होते हैं जिसका निवारण बहुत कठिन है. परन्तु साधकको उचित है कि, यदि कंठगतभी प्राण होजाँय तोभी साधन न छोड़े ॥ ५६ ॥

मूलम्-ततो रहस्युपाविष्टः साधकः संयते-
न्द्रियः ॥ प्रणवं प्रजपेद्दीर्घं विघ्नानां नाशहे-
तवे ॥ ५७ ॥

टीका-साधकको उचित है कि, विघ्नोंके नाशके हेतु इन्द्रियोंके संयममें अर्थात् उनके कार्यको रोकके विधि-पूर्वक एकान्तमें बैठके दीर्घमात्रासे अर्थात् स्पष्ट अक्षरके उच्चारणसे प्रणवका जप करे ॥ ५७ ॥

मूलम्-पूर्वार्जितानि कर्माणि प्राणायामेन
निश्चितम् ॥ नाशयेत्साधको धीमानिह
लोकोद्भवानि च ॥ ५८ ॥

टीका—पूर्वाजित कर्म और जो इस जन्ममें किया है यह दोनोंके फलको बुद्धिमान् साधक प्राणायामसे निश्चय है कि, नाश करदेता है ॥ ५८ ॥

मूलम्—पूर्वाजितानि पापानि पुण्यानि विविधानि च ॥ नाशयेत्षोडशप्राणायामेन योगिपुंगवः ॥ ५९ ॥

टीका—श्रेष्ठयोगी पूर्वाजित नानाप्रकारका पाप और पुण्य केवल सोलह प्राणायामसे नाश करदेताहै ॥ ५९ ॥

मूलम्—पापतूलचयानाहोप्रलयेत्प्रलयाग्निना ॥ ततः पापविनिर्मुक्तः पश्चात्पुण्यानि नाशयेत् ॥ ६० ॥

टीका—साधक पाप राशिको तूलके समान प्राणायामरूपी अग्निसे प्रलय करदेताहै अर्थात् जलादेताहै. इसप्रकारसे मुक्तहोके पश्चात् पुण्यकोभी उसी अग्निमें नाश करदेताहै ॥ ६० ॥

मूलम्—प्राणायामेन योगीन्द्रो लब्ध्वैश्वर्याष्टकानि वै ॥ पापपुण्योदधि तीर्त्वा त्रैलोक्यचरतामियार्त्त ॥ ६१ ॥

टीका—योगी प्राणायामके प्रभावसे आठ ऐश्वर्य

जिसको अष्टसिद्धि कहते हैं अर्थात् अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता प्राप्त करता है अब इन आठों सिद्धिके लक्षण कहते हैं योगीका शरीर इच्छामात्रसे परमाणुवत् होजाय उसको अणिमा कहते हैं और योगी इच्छापूर्वक प्रकृति-को अपनेमें करके आकाशवत् स्थूल होजाय उसको महिमा कहते हैं और अति हलके शरीरका पर्वतके समान भारी होजाना उसको गरिमा कहते हैं और बहुत भारी पर्वतके समानको रुईके सदृश होजाना इसको लघिमा कहते हैं और सर्व पदार्थ इच्छामात्रसे योगीके समीप होजाय उसको प्राप्ति कहते हैं और दृश्यादृश्य अर्थात् कभी देख पडे कभी न देखपडे इसको प्राकाम्य कहते हैं और भूत भविष्य पदार्थको जन्म मरणकी रचना करनेमें समर्थ होय उसको ईशिता कहते हैं और भूत भविष्य वर्तमान पदार्थको इच्छा से अपने आधीन करलेना इसको वशित्वसिद्धि कहते हैं और योगी पाप पुण्यके समुद्रको तरके अपनी इच्छा पूर्वक त्रैलोक्यमें विचरता है ॥ ६१ ॥

मूलम्-ततोऽभ्यासक्रमेणैव घटिकात्रितयं
भवेत् ॥ येन स्यात्सकलासिद्धिर्योगिनः
स्वैप्सिता ध्रुवम् ॥ ६२ ॥

टीका—पूर्वोक्त क्रमस प्राणायाम जब तीन घडीतक स्थिर होजायगा तब योगीको उसके इच्छाके अनुसार सब सिद्ध होजायगा यह निश्चय है ॥ ६२ ॥

मूलम्—वाक्सिद्धिः कामचारित्वं दूरदृष्टि-
स्तथैव च ॥ दूरश्रुतिः सूक्ष्मदृष्टिः परका-
यप्रवेशनम् ॥६३॥ विण्मूत्रलेपने स्वर्णम-
दृश्यकरणं तथा ॥ भवन्त्येतानि सर्वा-
णि खेचरत्वं च योगिनाम् ॥६४॥

टीका—वाक्यसिद्धी स्वेच्छाचारी दूरदृष्टी दूर शब्द श्रवण अतिसूक्ष्म दर्शन दूसरेके शरीरमें प्रवेश करनेकी शक्ति होय और योगी अन्पधातुमें अपने मल मूत्र लेपनमात्रसे स्वर्ण करे और योगीको अदृश्य होजाने की शक्ति और आकाशमें गमन करनेकी सिद्धि यह सब योगीको कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध होजायगा इसमें संशय नहीं है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

मूलम्—यदा भवेद्धटावस्था पवनाभ्यासने
परा ॥ तदा संसारचक्रेऽस्मिन्मस्तन्नास्ति
यत्र साधयेत् ॥ ६५ ॥

टीका—जब योगीकी घटावस्था होगी अर्थात् उसमें

योगकी घटना होगी तब यह संसारचक्र योगीको कुछ असाध्य न रहेगा ॥ ६५ ॥

मूलम्—प्राणापाननादविन्दुजीवात्मपरमात्म
नः ॥ मिलित्वा घटते यस्मात्तस्माद्वै घट
उच्यते ॥ ६६ ॥

टीका—प्राण अपान नाद विन्दु जीव आत्मा और परमात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसको घटावस्था कहते हैं ॥ ६६ ॥

मूलम्—याममात्रं यदा धर्तुं समर्थः स्यात्त-
दाद्भुतः ॥ प्रत्याहारस्तदैव स्यान्नांतरा
भवति ध्रुवम् ॥ ६७ ॥

टीका—एक प्रहर मात्र जब वायु धारण करनेकी सामर्थ्य होगी तब अद्भुत प्रत्याहारकी शक्ति होगी और साधनसे न होगी निश्चय है ॥ ६७ ॥

मूलम्—यं यं जानाति योगीन्द्रस्तं तमात्मे-
ति भावयेत् ॥ यैरिन्द्रियैर्यद्विधानस्तदि-
न्द्रियजयो भवेत् ॥ ६८ ॥

टीका—योगी जो जो पदार्थ जाने सो सो पदार्थमें आत्माकाही भावना करे जो इंद्रियसे जिस पदार्थका बोध होगा उस पदार्थमें वही आत्मभावनासे वह इंद्रिय

जय हो जायगी अर्थात् जैसे नेत्रसे रूपका बोध होता है तो जब रूपमें आत्मभावना होगी तब उस भावनासे चक्षु इन्द्रिय रूपमें कदापि आसक्त न होगी जब वह आसक्त न भई तब वह इन्द्रिय आपही जय होगई ॥६८॥

मूलम्—याममात्रं यदा पूर्णं भवेदभ्यासयोगतः ॥ एकवारं प्रकुर्वीत तदा योगी च कुम्भकम् ॥ ६९ ॥ दण्डाष्टकं यदा वायुर्निश्चलं योगिनो भवेत् ॥ स्वसामर्थ्यात्तदांगुष्ठे तिष्ठेद्वातुलवत्सुधीः ॥ ७० ॥

टीका—जब एकवारमें पूर्ण एक प्रहरतक योगीका अभ्याससे कुम्भक स्थिर रहेगा अर्थात् आठ घडीतक योगीका वायु निश्चल रहे तब वह अपने सामर्थ्यसे अङ्गुष्ठमात्रके बलसे अचल अवोधवत् खडा रहसक्ता है अर्थात् यह सामर्थ्य भी योगीको होगी और अपने सामर्थ्यको गोप्य रखनेके हेतु विक्षिप्तकी चेष्टा योगी दिख लावेगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥

मूलम्—ततःपरिचयावस्था योगिनोऽभ्यासतो भवेत् ॥ यदा वायुश्चंद्रसूर्यं त्यक्त्वा तिष्ठति निश्चलम् ॥ ७१ ॥ वायुः परिचितो वायुः सुषुम्ना व्योम्नि संचरेत् ॥

(७६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—इस अन्तरमें योगीकी अभ्याससे परिचयावस्था होगी जब वायु इडा पिङ्गलाको त्यागके निश्चल स्थिर रहेगा ॥ ७१ ॥ तत्र परिचित होके सुपुम्नाके रन्ध्रसे प्राणवायु आकाशको गमन करेगा ॥

मूलम्—क्रियाशक्तिं गृहीत्वैव चक्रान्भित्त्वा
सुनिश्चितम् ॥ ७२ ॥ यदा परिचयावस्था
भवेदभ्यासयोगतः ॥ त्रिकूटं कर्मणां
योगी तदा पश्यति निश्चितम् ॥ ७३ ॥

टीका—क्रियाशक्तिको ग्रहण करके योगी निश्चय सब चक्रको वेधेगा ॥७२॥ और जब योग अभ्याससे परिचयावस्था होगी तब त्रिकूट कर्मोंको योगी निश्चय देखेगा तात्पर्य यह है कि, जब योगीका पूर्वोक्त अभ्यास सिद्ध होजायगा तब त्रिकूट अर्थात् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक मानसिक दुःखको आध्यात्मिक कहते हैं और भूत पिशाचादिसे जो कष्ट होता है उसको आधिभौतिक कहते हैं और देवता आदिसे जो कर्मानुसार कष्ट होता है उसको आधिदैविक कहते हैं यह त्रिकूटकर्मोंका ज्ञान योगीको होजाता है ॥ ७३ ॥

मूलम्—ततश्चकर्मकूटानि प्रणवेन विनाशयेत् ॥ स योगी कर्मभोगाय कायव्यूहं समाचरेत् ॥ ७४ ॥

टीका-इस कर्मकूटको योगी प्रणवद्वारा नाश कर-
देताहै और यदि पूर्वकृत कर्मफल भोगनेकी इच्छा
करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे
भोगलेगा ॥ ७४ ॥

मूलम्-अस्मिन्कालेमहायोगी पञ्चधा धा-
रणं चरेत् ॥ येन भूरादिसिद्धिः स्यात्ततो
भूतभयापहा ॥ ७५ ॥ आधारे घटिकाः पञ्च-
लिंगस्थाने तथैव च ॥ तदूर्ध्वं घटिकाः
पञ्च नाभिहृन्मध्यके तथा ॥ ७६ ॥ श्रूम-
ध्योर्ध्वं तथा पञ्च घटिका धारयेत्सुधीः ॥
तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो न भवे
त्वलु ॥ ७७ ॥

टीका-जिसकालमें महायोगी पञ्चधाधारणा सिद्ध
करलेगा तब यह पञ्चभूत सिद्ध होजायँगे और इनसे
कोई कष्टका भय नहोगा. अब धारणाका निर्णय करतेहैं
कि, आधारचक्रमें पांचघड़ी वायु धारणकरे इसी क्रमसे
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्रमें
अर्थात् गुदा लिङ्ग नाभि हृदय कंठ भृकुटीके मध्यमें
ऊपर कहेहुए प्रमाणसे वायु धारणकरेगा तो योगी पञ्च
भूतसे निश्चय नाश न होगा ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

(७८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—मेधावी सर्वभूतानां धारणांयः सम-
भ्यसेत् ॥ शतब्रह्ममृतेनापि मृत्युस्त-
स्य न विद्यते ॥ ७८ ॥

टीका—बुद्धिमान् योगी अभ्याससे पञ्चभूतकी धार-
णा करेगा तो यदि एकशत ब्रह्माभी मृत्युको प्राप्त होंगे
तबभी उसकी मृत्यु न होगी ॥ ७८ ॥

मूलम्—ततोऽभ्यासक्रमेणैव निष्पत्तियोगि-
नो भवेत् ॥ अनादिकर्मबीजानियेन ती-
र्त्वाऽमृतं पिबेत् ॥ ७९ ॥

टीका—इस अभ्यासक्रमसे योगीको ज्ञान होता है
और अनादिकर्म बीजको तरके अर्थात् नाश करके
योगी अमृतपान करताहै ॥ ७९ ॥

मूलम्—यदा निष्पत्तिर्भवति समाधेः स्वेन
कर्मणा ॥ जीवन्मुक्तस्य शांतस्य भवेद्धी-
रस्य योगिनः ॥ ८० ॥ यदा निष्पत्तिसं-
पन्नः समाधिःस्वेच्छया भवेत् ॥ ८१ ॥
गृहीत्वा चेतनां वायुः क्रियाशक्तिं च वेग-
वान् ॥ सर्वाश्चक्रान्विजित्वा च ज्ञान-
शक्तौ विलीयते ॥ ८२ ॥

टीका-जब अपने अभ्यासकर्मसे योगीको समाधी-
का ज्ञान होगा तब जविन्मुक्त शान्त होके योगीको
ज्ञानसम्पन्न स्वेच्छासमाधी होगी और मन वायु क्रिया-
शक्तिसहित सर्व चक्रोंको वेधके ज्ञानशक्त्यामें लीन हो-
जायगा ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

मूलम्-इदानीं क्लेशहान्यर्थं वक्तव्यं वायु-
साधनम् ॥ येन संसारचक्रेस्मिन्नोगहा-
निर्भवेद्भुवम् ॥ ८३ ॥

टीका-हे देवि ! अब क्लेशहानीके अर्थ वायुसाधन
कहते हैं जिससे इस संसारचक्रमें निश्चय रोगादिक
नाश होजाय और साधकको कष्ट न हो ॥ ८३ ॥

मूलम्-रसनां तालुमूले यः स्थापयित्वा
विचक्षणः॥पिवेत्प्राणानिलं तस्य रोगाणां
संक्षयो भवेत् ॥ ८४ ॥

टीका-जिह्वाको तालुके मूलमें स्थितकरके बुद्धि-
मान साधक यदि प्राणवायुको पान करे तो उसके सर्व
रोगोंका नाश होजायगा ॥ ८४ ॥

मूलम्-काकचञ्च्वा पिवेद्वायुं शीतलं यो वि-
चक्षणः ॥ प्राणापानविधानज्ञः स भवे-
न्मुक्तिभाजनः ॥ ८५ ॥

(८०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जो बुद्धिमान साधक प्राण अपानके विधानका ज्ञाता काकचञ्चू अर्थात् अधरको काकके चोंचके समान लम्बा करके शीतल वायु पान करता है सो योगी मुक्तिभाजन है अर्थात् मुक्तिपात्र है ॥ ८५ ॥

मूलम्—सरसं यः पिवेद्वायुं प्रत्यहं विधिना
सुधीः ॥ नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह-
जरामयाः ॥ ८६ ॥

टीका—जो साधक नित्य विधानपूर्वक रससहित वायुपान करता है उसके सर्व रोग और श्रम दाह जरा अर्थात् वृद्धावस्थादि नाश होजाते हैं अर्थात् यह सब उसके समीप नहीं आते ॥ ८६ ॥

मूलम्—रसनामूर्ध्वगांकृत्वा यश्चन्द्रे सलिलं
पिवेत् ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युं ज-
यति निश्चितम् ॥ ८७ ॥

टीका—जो योगी जिह्वाको ऊपर करके चंद्रमासे विगलित सुधारसको पान करता है सो योगी एक मासमें निश्चय मृत्युको जीत लेता है इस जगहं जिह्वा ऊपर करनेसे तात्पर्य खेचरी मुद्रासे है सो खेचरीमुद्रा गुरु मुखसे जानना उचित है ॥ ८७ ॥

मूलम्—राजदंतत्रिलं गाढं संपीडय विधिना

पिबेत् ॥ ध्यात्वा कुण्डलिनीं देवीं पण्मा-
सेन कविर्भवेत् ॥ ८८ ॥

टीका—जो साधक राजदन्तको नीचेके दाँतसे द-
बायके उसके रन्ध्रद्वारा विधिसे वायुपान करे और उस
कालमें कुण्डलिनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छः
मासमें कवि होगा ॥ ८८ ॥

मूलम्—काकचञ्च्वा पिवेद्रायुं सन्ध्ययोरुभ-
योरपि ॥ कुण्डलिन्या मुखे ध्यात्वा
क्षयरोगस्य शान्तये ॥ ८९ ॥

टीका—पूर्वोक्त काकचञ्चूसे विधिसे दोनों सन्ध्यामें
जो कुण्डलिनीकी मुखका ध्यान करके वायुपान करे-
गा उसका क्षयरोग नाश होजायगा ॥ ८९ ॥

मूलम्—अहर्निशं पिवेद्योगी काकचञ्च्वा वि-
चक्षणः ॥ पिवेत्प्राणानिलं तस्य रोगाणां
संक्षयो भवेत् ॥ दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिस्तथा
स्याद्दर्शनं खलु ॥ ९० ॥

टीका—जो योगी बुद्धिमान् रात्रि दिवस काकच-
ञ्चूसे प्राणवायु पान करतेहैं उनके रोगोंका नाश हो-
जाताहै और दूरका शब्द श्रवण होताहै और दूरकी व-
स्तु देख पडती है तथा निश्चय सूक्ष्म दर्शन होताहै ॥ ९० ॥

(८२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-दन्तैर्दन्तान्समापीड्य पिवेद्रायुं
शनैः शनैः ॥ ऊर्ध्वजिह्वः सुमेधावी मृत्युं
जयति सोचिरात् ॥ ९१ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् दांतसे दांतको पीडित करके
धीरे धीरे वायुपान करेगा और जिह्वा ऊपर करके अ-
मृतपान करेगा सो शीघ्र मृत्युको जीतलेगा ॥ ९१ ॥

मूलम्-षण्मासमात्रमभ्यासं यः करोति दि-
नेदिने ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो रोगान्नाश-
यते हि सः ॥ ९२ ॥ संवत्सरकृताभ्या-
सान्मृत्युं जयति निश्चितम् ॥ तस्मादति-
प्रयत्नेन साधयेद्योगसाधकः ॥ ९३ ॥ वर्ष-
त्रयकृताऽभ्यासाद्भैरवो भवति ध्रुवम् ॥
अणिमादिगुणाल्लब्ध्वा जितभूतगणः
स्वयम् ॥ ९४ ॥

टीका—जो पहिले कहेहुए अभ्यासको नित्य छः
मास करे तो सब रोगोंका नाश होजायगा और सब
पापसे मुक्त होजाय और उसी अभ्यासको एकवर्ष करे
तो मृत्युको निश्चय जीतले इस हेतुसे साधक इस क्रि-
याका यत्न करके अवश्य साधन करे और यदि इसका
अभ्यास तीनवर्ष करे तो निश्चय भैरव होजाय और

अष्टसिद्धिका लाभ होय और सर्व भूतगण आपही वश में होजाय ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

मूलम्-रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति ॥ क्षणेन मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥ ९५ ॥

टीका-योगीकी जिह्वा यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर होजाय तो उसी क्षणसे सर्वव्याधि और वृद्धावस्था और मृत्युका नाश होजाय. तात्पर्य यह है कि, खेचरीमुद्रासे किञ्चित्मात्र भी अमृतपान करलेगा तो उसकी मृत्यु न होगी ॥ ९५ ॥

मूलम्-रसनां प्राणसंयुक्तां पीडयमानां विचिंतयेत् ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥ ९६ ॥

टीका-जिह्वाको प्राणसहित पीडित करके जो पुरुष ब्रह्मरन्ध्रमें ध्यानसंयुक्त स्थिर करेगा. हेदेवी ! हम बार-बार कहतेहैं कि, निश्चय उसकी मृत्यु न होगी ॥ ९६ ॥

मूलम्-एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव मूर्च्छा प्रजायते ॥ ९७ ॥

टीका-इस योगअभ्याससे जो पहिले कहाहै वह

पुरुष दूसरा कामदेव होजायगा अर्थात् कामदेवके समान शोभितहोगा और उसको क्षुधा तृषा निद्रा मूर्च्छा कभी न उत्पन्न होगी ॥ ९७ ॥

मूलम्—अनेनैव विधानेन योगीन्द्रोऽवनिम-
ण्डले ॥ भवेत्स्वच्छन्दचारी च सर्वाप-
त्परिवर्जितः ॥ ९८ ॥ न तस्य पुनरावृत्ति-
मौदते ससुरैरपि ॥ पुण्यपापैर्न लिप्येत
एतदाचरणेन सः ॥ ९९ ॥

टीका—इस विधानसे योगी संसारमें सर्व दुःखसे रहित होके स्वच्छाचारी होजायगा और इस आचरणसे योगी पुण्यपापमें लिप्त नहीं होगा न फिर संसारमें उसका जन्म होगा और देवतोंके साथ आनन्दपूर्वक विचरेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

मूलम्—चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानावि-
धानि च ॥ १०० ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय
मयोक्तानि ब्रवीम्यहम् ॥ सिद्धासनं ततः
पद्मासनञ्चोग्रं च स्वस्तिकम् ॥ १०१ ॥

टीका—बहुत प्रकारके चौन्याशी आसनहैं उनमें उत्तम जो चार आसन हैं उनको हम कहतेहैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन. तात्पर्य यह है कि, और

आसन करनेसे नाडी शुद्ध होतीहै परन्तु यह चार आसनसे वायु धारण करके बैठनेमें कष्ट नहीं होता और प्रधान नाडी शीघ्र वश होजाती है ॥ १०० ॥ १०१ ॥

मूलम्—योनिं संपीड्य यत्नेन पादमूलेन साधकः ॥ मेढ्रोपरि पादमूलं विन्यसेद्योगवित्सदा ॥ १०२ ॥ ऊर्ध्वं निरीक्ष्य भ्रूमध्यं निश्चलः संयतेन्द्रियः ॥ विशेषोऽवक्रकायश्च रहस्युद्वेगवर्जितः ॥ एतत्सिद्धासनं ज्ञेयं सिद्धानां सिद्धिदायकम् ॥ १०३ ॥

टीका—योगवेत्ता साधक पादमूल अर्थात् एडीसे योनिस्थानको पीडित करे और दूसरे पादके एडीको मेढ्र अर्थात् लिंगके मूलस्थानपर रखे और ऊपर भ्रुके मध्यमें निश्चल दृष्टि रखे जितेन्द्रियपुरुष विशेष सीधा शरीर करके विधानपूर्वक वेगवर्जित सावधान होके बैठे इसको सिद्धासन कहते हैं यह आसन सिद्धोंको सिद्धि देनेवालाहै ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

मूलम्—येनाभ्यासवशाच्छीघ्रं योगनिष्पत्तिमाप्नुयात् ॥ सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाभ्यासिना परम् ॥ १०४ ॥

टीका—इस अभ्याससे जो पहिले कहाहै शीघ्र योग-

का ज्ञान होताहै इस हेतुसे यह सिद्धासन पवनाभ्या-
सीको सदा सेवनेके योग्यहै ॥ १०४ ॥

मूलम्—येन संसारमुत्सृज्य लभते परमां
गतिम् ॥ १०५ ॥ नातः परतरं गुह्यमासनं
विद्यते भुवि ॥ येनानुध्यानभात्रेण योगी
पापाद्विमुच्यते ॥ १०६ ॥

टीका—इस सिद्धासनके प्रभावसे साधक संसारको
छोडके परमगतिको पाताहै और इससे उत्तम वा गोप्य
संसारमें दूसरा आसन नहीं है जिसके ध्यानमात्रसे यो-
गी सर्व पापसे मुक्त होजाताहै ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

मूलम्—उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ
प्रयत्नतः ॥ ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी
कृत्वा तु तादृशौ ॥ १०७ ॥ नासाग्रे वि-
न्यसेद्दृष्टिं दन्तमूलञ्च जिह्वया ॥ उत्तोल्य
चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनैः ॥ १०८ ॥
यथाशक्त्या समाकृष्य पूरयेदुदरं शनैः ॥
यथा शक्त्यैव पश्चात्तु रेचयेदविरोधतः
॥ १०९ ॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधि-
विनाशनम् ॥ दुर्लभं येन केनापि धीमता
लभ्यते परम् ॥ ११० ॥

टीका—दोनों चरणोंको उत्तान करके यत्रसे ऊहू अर्थात् जंघापर रखे उसीप्रकार दोनों हाथको सीधा करके ऊहूके मध्यमें रखे और नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि और दांतके मूलमें जिह्वा स्थितकरे और वक्ष अर्थात् हृदयस्थानपर चिबुक अर्थात् ठोडी स्थापन करे और अपानवायुको उठाके प्राणको शनैःशनैः यथाशक्ति पूरक करके धारणाकरे पश्चात् धीरे धीरे रेचक अर्थात् वायुको त्यागदे इसको पद्मासन कहतेहैं यह सर्व व्याधिका नाशक है यह आसन बहुत दुर्लभहै परंतु कोई बुद्धिमान् साधकको प्राप्त होताहै ॥१०७॥१०८॥१०९॥११०॥

मूलम्—अनुष्ठाने कृते प्राणः समश्चलति तत्क्षणात् ॥ भवेदभ्यासने सम्यक्साधकस्य न संशयः ॥ १११ ॥

टीका—पूर्वोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण सम होके सुपुष्णामें प्रवेश करेगा अभ्याससे साधकका वायु सम होजायगा इसमें संशय नहीं ॥ १११ ॥

मूलम्—पद्मासने स्थितो योगी प्राणापानविधानतः ॥ पूरयेत्स विमुक्तः स्यात्सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ११२ ॥

टीका—ईश्वर श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं कि पद्मासन-

स्थित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण करेगा
तो संसारबन्धसे मुक्तहोजायगा इसमें संशय नहीं है
हम सत्य कहते हैं ॥ ११२ ॥

मूलम्-प्रसार्य चरणद्वन्द्वं परस्परमसंयुतां
स्वपाणिभ्यां दृढं धृत्वा जानूपरि शिरो
न्यसेत् ॥ ११३ ॥ आसनोग्रमिदं प्रोक्तं
भवेदनिलदीपनम् ॥ देहावसानहरणं प-
श्चिमोत्तानसंज्ञकम् ॥ ११४ ॥ यएतदासनं
श्रेष्ठं प्रत्यहं साधयेत्सुधीः ॥ वायुः पश्चि-
ममार्गेण तस्य सञ्चरति ध्रुवम् ॥ ११५ ॥

टीका—दोनों चरणोंको संग परस्पर लम्बाकरके
दोनों हाथोंसे बलसे धरे और जानुपर शिरको स्थिरकरे
उसको उग्रासन कहतेहैं, और पश्चिमतान भी संज्ञा है
इससे वायुदीपन होताहै और मृत्युका नाशकरता है
यह सब आसनोंमें श्रेष्ठ है और बुद्धिमान् इसको नित्य
साधन करे तो उसका वायु पश्चिम मार्गसे अवश्य
सञ्चार करेगा ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

मूलम्—एतदभ्यासशीलानां सर्वसिद्धिः प्र-
जायते ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन साधये-
त्सिद्धमात्मनः ॥ ११६ ॥

टीका—ऐसे पूर्वोक्त अभ्यासमें जो लोग तत्परहैं उनको सर्व सिद्धि उत्पन्न होती है. इस हेतुसे यत्न करके योगी आत्माके सिद्धहोनेकी साधना करे ॥ ११६ ॥

मूलम्-गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्यकस्य
चित् ॥ येन शीघ्रं मरुत्सिद्धिर्भवेद्दुःखौ-
घनाशिनी ॥ ११७ ॥

टीका—यह आसन जो पहिले कहा है यत्नसे गोपनीयहै सबको देना उचित नहीं है परंतु अधिकारीको देना योग्यहै इससे बहुत शीघ्र वायु सिद्ध होजाताहै और यह सिद्धि दुःखके समूहको नाश करनेवाली है ॥ ११७ ॥

मूलम्-जानूर्वोरन्तरे सम्यग्धृत्वा पादतले
उभे ॥ समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं
तत्प्रचक्षते ॥ ११८ ॥ अनेन विधिना यो-
गी मारुतं साधयेत्सुधीः ॥ देहे न क्रमते
व्याधिस्तस्य वायुश्च सिध्यति ॥ ११९ ॥
सुखासनमिदं प्रोक्तं सर्वदुःखप्रणाशनम् ॥
स्वस्तिकं योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरण-
मुत्तमम् ॥ १२० ॥

टीका—जानु और ऊरुके मध्यमें बराबर पादको

ऊपर नीचे धरे और समकाय अर्थात् बराबर शरीर करके सुखपूर्वक बैठे उसको स्वस्तिकासन कहते हैं। इस विधानसे बुद्धिमान् योगी वायुका साधनकरे तो उसके शरीरमें व्याधी प्रवेश नहीं करती और उसको वायु सिद्धिहो जाती है इसको सुखासन कहते हैं यह सर्वदुःखका नाशक है यह स्वस्तिकासन योगी लोगोंको गोप्य रखना उचित है इसकारणसे की उत्तम कल्याणका कारक है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगाभ्यासतत्त्व-
कथनं नाम तृतीयः पटलः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थपटलः ।

मूलम्—आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरये-
न्मनः ॥ गुदमेढ्रान्तरे योनिस्तामाकुञ्च्य
प्रवर्तते ॥ १ ॥

टीका—पहिले पूरक योगविधानसे आधारपद्ममें वायुको मन सहित पूरक करके स्थित करे और गुदामे-
ढ्रके मध्यमें जो योनिस्थान है उसको यत्नसे आकुञ्चन करनेमें प्रवृत्त होय ॥ १ ॥

मूलम्—ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुक-
सन्निभम् ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटि-

सुशीतलम् ॥२॥ तस्योर्ध्वं तु शिखामूक्ष्मा
चिद्रूपा परमाकला ॥ तथा सहितमात्मा-
नमेकीभूतं विचिन्तयेत् ॥ ३ ॥

टीका—ब्रह्मयोनिके मध्यमें कामपुष्प अर्थात् काम-
वाणके समान कोटिसूर्यके सदृश प्रकाश और कोटि
चन्द्रमाके समान शीतल कामदेवका ध्यान करे और
उसके ऊर्ध्व भागमें सूक्ष्म ज्योति शिखा चैतन्यस्वरू-
पा परमाशक्तिसहित एक परमात्माका चिन्तन
करे ॥ २ ॥ ३ ॥

मूलम्—गच्छति ब्रह्ममार्गेण लिंगत्रयक्रमेण
॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशी-
तलम् ॥४॥ अमृतं तद्धि स्वर्गस्थं परमान-
न्दलक्षणम् ॥ श्वेतरक्तं तेजसाढ्यं सुधाधा-
राप्रवर्षिणम् ॥ ५ ॥ पीत्वा कुलामृतं दि-
व्यं पुनरेव विशेत्कुलम् ॥

टीका—उसी ब्रह्मयोनिसे जीव सुपुष्पा रन्ध्रद्वारा
क्रमसे तीन लिङ्ग अर्थात् स्थूल सूक्ष्म कारणस्वरूपसे
प्रस्थान करताहै और स्वर्गस्थ अमृत परम आनन्द-
का लक्षण श्वेत रक्त वर्ण कोटि सूर्यके सदृश तेज
प्रकाश और कोटि चन्द्रमाके समान शीतल ५

वर्षी दिव्यकुलामृतको पान करके फिर योनिमंडल-
में स्थित होजाताहै ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूलम्-पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन ना-
न्यथा ॥ सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मि-
स्तन्त्रे मयोदिता ॥ ६ ॥

टीका-फिर ब्रह्मयोनिसे प्राणायामयोग करके प्राण
कुलमंडलमें जाताहै इस तंत्रमें जो हमने कहाहै हे देवी !
उस ब्रह्मयोनिको प्राणके समान कहते हैं ॥ ६ ॥

मूलम्-पुनःप्रलीयते तस्यां कालाग्न्यादि-
शिवात्मकम् ॥ ७ ॥ योनिमुद्रा पराह्येषा
बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ॥ तस्यास्तु
बन्धमात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत् ॥ ८ ॥

टीका- फिर तीसरे बार काल अग्नि आदि शिवा-
त्मक जीव प्रस्थानपूर्वक चंद्रमण्डलमें दिव्य अमृत-
पान करके फिर ब्रह्मयोनिमें लय होजाता है हे देवी !
इस बन्धको योनिमुद्रा कहते हैं केवल बन्धमात्रसे
संसारमें असाध्य कोई वस्तु नहीं है अर्थात् सब सिद्ध
होसक्ताहै ॥ ७ ॥ ८ ॥

मूलम्-छिन्नरूपास्तु ये मन्त्राः कीलिताः
स्तंभिताश्च ये ॥ दग्धा मन्त्राः शिरोहीना

मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ९ ॥ मन्दा वा-
लास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगर्विताः ॥ भे-
दिना भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मूर्च्छिताश्च
ये ॥ १० ॥ अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वी-
र्याः सत्त्ववर्जिताः ॥ तथा सत्त्वेन हीनाश्च
खण्डिताः शतधाकृताः ॥ ११ ॥
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण
तु ॥ सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा वि-
नियोजिताः ॥ १२ ॥ यद्यदुच्चरते योगी
मंत्ररूपं शुभाशुभम् ॥ तत्सिद्धिं समवाप्नो-
ति योनिमुद्रानिबन्धनात् ॥ १३ ॥ दीक्ष-
यित्वा विधानेन अभिषिच्य सहस्रधा ॥
ततो मंत्राधिकारार्थमेवा मुद्रा प्रकी-
र्तिता ॥ १४ ॥

दीक्षा-जो मन्त्र छिन्नरूप हैं और कीलित हैं स्तम्भि-
त हैं और जो मन्त्र दग्ध हैं शिरहीन हैं मलीन हैं और
जिनका अनादर है और मन्द हैं बाल हैं वृद्ध हैं प्रौढ हैं
और जो यौवनगर्वित हैं और भेदित हैं भ्रमसंयुक्त हैं
सप्ताहसे मूर्च्छित हैं और जो शत्रुके पक्षमें हैं निर्वीर्य हैं

सत्वरहित हैं खण्डित हैं सौ खण्ड होगए हैं इस विधिसे युक्त होके साधन करनेसे शीघ्र प्रकर्ष करके सिद्ध होजायगा गुरुशिक्षासे सब सिद्ध और मोक्षप्रद होजाताहै योगीसे जो मन्त्र शुभ वा अशुभरूप उच्चारण होताहै सो सब योनिमुद्राके बन्धनमात्रसे सिद्ध होजाताहै विधानपूर्वक मंत्रके अधिकारार्थ गुरुको उचितहै कि इस योनिमुद्राके दीक्षाका अभिषेक सहस्रधा शिष्यको करे ॥९॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

मूलम्—ब्रह्महत्यासहस्राणि त्रैलोक्यमपि
घातयेत् ॥ नासौ लिप्यति पापेन योनि-
मुद्रानिवन्धनात् ॥ १५ ॥

टीका—यदि एक सहस्र ब्रह्महत्याकरके और त्रैलोक्यकाभी घात करदे अर्थात् प्राणिमात्रका नाश करदे तो भी वह इस योनिमुद्राके बन्धनमात्रसे पापमें लिप्त न होगा अर्थात् उसको पाप नलगेगा ॥ १५ ॥

मूलम्—गुरुहा च सुरापी च स्तैयी च गुरुत-
ल्पगः ॥ एतैः पापैर्न बध्येत योनिमुद्रा-
निवन्धनात् ॥ १६ ॥

टीका—गुरुघातक मद्यपाई चोर गुरुकी शय्यामें रमण करनेवाला ऐसे अनेक पातकसेभी साधक योनिमुद्राके बन्धनप्रभावसे बन्धावमान नहोगा ॥ १६ ॥

मूलम्—तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्ष-
कांक्षिभिः ॥ अभ्यासाज्जायते सिद्धिर-
भ्यासान्मोक्षमाप्नुयात् ॥ १७ ॥

टीका—इस हेतुसे मोक्षकांक्षीको उचित है कि, नित्य अभ्यास करे अभ्याससे सिद्धि होती है और अभ्यासही-
से मुक्ति प्राप्त होती है ॥ १७ ॥

मूलम्—संविदंलभतेऽभ्यासाद्योगोभ्यासात्प्र-
वर्तते ॥ मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासा-
द्वायुसाधनम् ॥ १८ ॥ कालवञ्चनमभ्या-
सात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत् ॥ वाक्सिद्धिः
कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ॥ १९ ॥

टीका—अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्याससे योगमें प्रवृत्ति होती है और अभ्याससे मुद्रा सिद्ध होती हैं और अभ्याससे वायुका साधन होता है और अभ्याससे मनुष्य कालसे बचता है और अभ्याससे मृत्युञ्जय होजाता है और अभ्यासयोगसे वाक्यसिद्धि और मनुष्य इच्छाचारी होजाता है. तात्पर्य यह है कि, सब वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यास है. इस हेतुसे आ-
लस्यको छोडके जिस वस्तुमें मनुष्य अभ्यास करेगा वह अवश्य सिद्ध होजायगा ॥ १८ ॥ १९ ॥

मूलम्--योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य
कस्यचित् ॥ सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः
कण्ठगतैरपि ॥ २० ॥

टीका—यह योनिमुद्रा परमगोपनीय है अनधिका-
रीको कदापि न दे यह सर्वथा देनेके योग्य नहीं है यदि
कण्ठगत प्राण होजायँ तो भी देना उचित नहीं है ॥२०॥

मूलम्--अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धि-
करं परम् ॥ गोपनीयं सुसिद्धानां योगं
परमदुर्लभम् ॥ २१ ॥

टीका—हे देवी । अब जो योग कहेंगे वह परमसिद्धिका
देनेवाला है सिद्ध लोगोंको इस परम दुर्लभ योगको
गोप्य रखना उचित है ॥ २१ ॥

मूलम्--सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कु-
ण्डली ॥ तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते
ग्रन्थयोपि च ॥ २२ ॥

टीका—गुरुके प्रसादसे निद्रिता कुण्डलिनी देवी जब
जागृत होती है तब सर्व पद्म और सर्व ग्रंथी वेधित हो
जाती हैं अर्थात् सुषुम्णा रन्ध्रद्वारा प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र-
पर्यन्त संचार करने लगजाता है ॥ २२ ॥

मूलम्--तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्व-

रीम् ॥ ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं स
माचरेत् ॥ २३ ॥

टीका—इसकारणसे यत्नपूर्वक ब्रह्मरन्ध्रके मुखमें जो
ईश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उठानेके
अर्थ मुद्राका अभ्यास उचित है ॥ २३ ॥

मूलम्—महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खे-
चरी ॥ जालंधरो मूलबंधो विपरीतकृति-
स्तथा ॥ २४ ॥ उद्धानं चैव वज्रोली दशमे
शक्तिचालनम् ॥ इदं हि मुद्रादशकं मुद्रा
णामुत्तमोत्तमम् ॥ २५ ॥

टीका—अब उत्तम मुद्राबन्ध वेध कहते हैं महामुद्रा,
महाबन्ध, महावेध, खेचरीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, मूल-
बन्ध, विपरीतकरणीमुद्रा, उद्धानबन्ध, वज्रोलीमुद्रा
और दशवीं शक्तिचालनमुद्रा, यह दशों मुद्रा सबमें
अतिउत्तम हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

अथ महामुद्राकथनम् ।

मूलम्—महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन्म-
मवल्लभे ॥ यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च
कपिलाद्याः पुरा गताः ॥ २६ ॥

(१८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—हे प्रिये पार्वती ! इस तन्त्रमें महामुद्रा जो हम कहतेहैं इसको लाभ करके पूर्व कपिलआदिक सिद्ध-वरको सिद्धि प्राप्त भई ॥ २६ ॥

मूलम्—अपसव्येन संपीड्य पादमूलेन सा-
दरम् ॥ गुरूपदेशतो योनिं गुदमेढ्रान्तरा-
लगाम् ॥ २७ ॥ सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा
पाणियुगेन वै ॥ नवद्वाराणि संयम्य चि-
बुकं हृदयोपरि ॥ २८ ॥ चित्तं चित्तपथे
दत्त्वा प्रभवेद्वायुसाधनम् ॥ महामुद्रा भ-
वेदेषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ २९ ॥ वामाङ्गे-
न समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्पुनः ॥ प्रा-
णायामं समं कृत्वा योगी नियतमा-
नसः ॥ ३० ॥

टीका—वामपादके एडीसे गुदा और मेढ्रके मध्यमें जो योनि है उसको आदरसहित गुरुके उपदेशपूर्वक पीडितकरे अर्थात् दबावे और दक्षिणपाद प्रसारके अ-
र्थात् लम्बा करके दोनों हाथोंसे धरे और नवद्वारोंको रोक करके चिबुक अर्थात् ठोड़ीको हृदयपरस्थित करे और चित्तवृत्तिको चैतन्यमें स्थिर करके वायुका साधन कर-
ना उचित है यह महामुद्रा सर्वतन्त्रोंके प्रमाणसे गो-

प्यहै पहिले वामांगसे अभ्यास करके फिर दक्षिण अंगसे अभ्यास करे योगी स्थिरबुद्धिको उचित है कि, इस प्रकारसे प्राणायामको समकरे ॥२७॥२८॥२९॥३०॥

मूलम्—अनेन विधिना योगी मन्दभाग्यो-
पि सिध्यति॥ सर्वासामेव नाडीनां चालनं
बिन्दुमारणम् ॥३१॥जीवनन्तु कषायस्य
पातकानां विनाशनम् ॥ कुण्डलितापनं
वायोर्ब्रह्मरन्ध्रप्रवेशनम् ॥ ३२ ॥ सर्वरो-
गोपशमनं जठराग्निविवर्धनम् ॥ वपुषा
कान्तिममलांजरामृत्युविनाशनम्॥३३॥
वाञ्छितार्थफलं सौख्यमिन्द्रियाणाञ्च मा-
रणम् ॥एतदुक्तानि सर्वाणि योगारूढस्य
योगिनः ॥ ३४ ॥ भवेदभ्यासतोऽवश्यं
नात्र कार्या विचारणा ॥

टीका—इस विधानसे मन्दभाग्य योगीभी सिद्ध होजा-
यगा और इस महासुद्राके प्रभावसे सर्व नाडीका च-
लन सिद्ध होजायगा और बिन्दु स्थिर होगा और जी-
वनको आकर्षित रखेगा और सर्व पातकका नाश हो-
जायगा और कुण्डलिनीको हठात् उठाय वायुको ब्रह्मर-
न्ध्रमें प्रवेश करेगा और जठराग्नि प्रज्वलित होके सर्वरो-

(१००) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

गोंका नाश करदेगा और शरीरमें सुन्दर कान्ति होगी और वृद्धावस्थासहित मृत्युका नाश होजायगा और सुखसहित वाञ्छित फल लाभ होगा और इन्द्रियोंका निग्रह रहेगा यह सब जो कहा है सो योगारूढ योगीको अभ्याससे वश होजाताहै इसमें संशय नहीं है निश्चय है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मूलम्—गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ यां तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥

टीका—हेसुरपूजिते देवी ! यह मुद्रा यत्न करके गोपनीय है योगीलोग इसको लाभ करके संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हैं ॥ ३५ ॥

मूलम्—मुद्रा कामदुघा ह्येषा साधकानां मयोदिता ॥ गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित् ॥ ३६ ॥

टीका—हेदेवी ! यह मुद्रा जो हमने कही है साधकोंको कामधेनुरूप है अर्थात् वाञ्छितफलकी दाता है इसको गुप्त करके अभ्यास करना उचित है और सबको अर्थात् अनधिकारीको देना उचित नहीं है ॥ ३६ ॥

अथ महाबन्धकथनम् ।

मूलम्—ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुख-

परि ॥ ३७ ॥ गुदयोनिं समाकुञ्च्य कृत्वा
 चापानमूर्ध्वगम् ॥ योजयित्वा समानेन
 कृत्वा प्राणमधोमुखम् ॥ ३८ ॥ बन्धयेदूर्ध्व-
 गत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः ॥ कथि-
 तोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ॥
 ॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं
 याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प-
 द्भ्यामेकैकं सुप्रयत्नतः ॥ ४० ॥

टीका-तदनन्तर पादको प्रसारके अर्थात् फैलाके दक्षिणचरणको वाम ऊरूपर स्थित करके और गुदा और योनिको आकुञ्चन करके अपानको ऊर्ध्व करके समानवायुके साथ सम्बन्ध करके और प्राणवायुको अधोमुख करे यह बन्ध प्राण अपानके ऊर्ध्वगतिके हेतु बुद्धिमान् साधकके प्रति कहाहै और यह महाबन्ध सिद्धिमार्गका दाता है और योगीलोंके नाडियोंका रससमूह इस बन्धसे ऊपरको गमन करताहै यह दोनों मुद्रा और बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके करना उचितहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

मूलम्-भवेद्भ्यासतो वायुः सुपुष्पामध्य-
 सङ्गतः॥अनेन वपुषः पुष्टिर्दृढबन्धोऽस्ति



(१०२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

पञ्जरे ॥ ४१ ॥ संपूर्णहृदयो योगी भव-
न्त्येतानि योगिनः ॥ बन्धेनानेन योगी-
न्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम् ॥ ४२ ॥

टीका-अभ्याससे प्राणवायु सुषुम्णाके मध्यमें स्थित होगा और इस महाबंधके प्रभावसे शरीर पुष्ट रहैगा और अस्थिपंजर और शरीरका सब बन्ध दृढ अर्थात् बलिष्ठ होजायगा और योगीका हृदय सन्तोषसे पूर्ण और आनन्दित रहेगा. यह सब योगीको इस महा-बन्धके प्रभावसे स्वयं लाभ होजायगा और इसी बन्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसार सब सिद्ध करलेगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अथ महावेधकथनम् ।

मूलम्-अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवने-
श्वरि॥महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य
वायुना ॥ स्फिचौ संताडयेद्धीमान्वेधो-
ऽयं कीर्तितो भया ॥ ४३ ॥

टीका-हे त्रिभुवनेश्वरी ! अपान और प्राणको एक करके महावेधस्थित योगी उदरको वायुसे पूर्ण करके बुद्धिमान् दोनों स्फिच अर्थात् पार्श्वको ताडन करे इसको हमने वेध कहा है ॥ ४३ ॥

मूलम्-वेधेनानेन संविध्य वायुनायोगिपुंग-
वः ॥ ग्रंथि सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रंथि भि-
नत्यसौ ॥ ४४ ॥

टीका-बुद्धिमान् योगी इस वेधद्वारा वायुसे सर्व
ग्रन्थीको वेधन करके सुषुम्णारन्ध्रद्वारा ब्रह्मग्रन्थीको
भेदन करताहै ॥ ४४ ॥

मूलम्-यःकरोति सदाभ्यासं महावेधं सुगो-
पितम् ॥ वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य जरामरण
नाशिनी ॥ ४५ ॥

टीका-जो मनुष्य इस उत्तम महावेधको गोपित
करके सर्वदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि-
नी वायुसिद्धि होजायगी ॥ ४५ ॥

मूलम्-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति
वायुताडनात् ॥ कुण्डल्यपि महामाया
कैलासे सा विलीयते ॥ ४६ ॥

टीका-शरीरस्थ चक्रमें जो देवता हैं वह वायुके
ताडनसे कम्पायमान होते हैं और महामाया कुण्डलि-
नी देवी कैलास अर्थात् ब्रह्मस्थानमें लय होती है तात्प-
र्य यह है कि, चक्रस्थित देवता अर्थात् गणेशजी, ब्रह्मा,
विष्णु, महादेवजी, मायाधीश ज्योतिस्वरूप ईश्वर क्रमसे

(१०४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाच-
क्रमें जो स्थित हैं वायुके वेगसे चक्ररन्ध्रको छोड़देते हैं
तब वायुका प्रवेश होताहै इसहेतुसे यह महावेध अवश्य
करना उचित है ॥ ४६ ॥

मूलम्—महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधव-
र्जितौ ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति
त्रितयं क्रमात् ॥ ४७ ॥

टीका—महामुद्रा और महाबन्ध विना वेधके निष्फ-
ल हैं अर्थात् वेध न करनेसे मुद्रा और बन्धका कुछ फल
नहोगा इसहेतुसे योगीको उचित है कि, यत्नपूर्वक क्रम-
से मुद्रा, बन्ध, वेध तीनोंका अभ्यास करे ॥ ४७ ॥

मूलम्—एतत्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति
यः ॥ षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव
न संशयः ॥ ४८ ॥

टीका—जो यह मुद्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्यास
यत्न करके रात्रि दिवसमें चारवार करेगा सो छःमास-
में निश्चय मृत्युको जीतलेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ४८ ॥

मूलम्—एतन्नयस्य माहात्म्यं सिद्धो जाना-
ति नेतरः ॥ यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे
सिद्धिं सम्यगलभन्ति वै ॥ ४९ ॥

टीका—यह तीनोंके माहात्म्यको सिद्धलोक जानते हैं इतरलोग अर्थात् सांसारिक मनुष्य नहीं जानते इसके जानलेनेसे साधकलोगोंको सर्वासिद्धिलाभ होती है ॥४९॥

मूलम्—गोपनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धि-
मीप्सुभिः ॥ अन्यथा च न सिद्धिः
स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ॥ ५० ॥

टीका—सिद्धिकांक्षी साधकको उचित है कि, यह सब मुद्राको यत्नपूर्वक गोप्य रखे इनको प्रकाश करनेसे कदापि सिद्धि नहोगी यह निश्चय है ॥ ५० ॥

अथ खेचरीमुद्राकथनम् ।

मूलम्—भ्रुवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढां
सुधीः ॥ ५१ ॥ उपविश्यासने वज्रे नानो-
पद्रववर्जितः ॥ लम्बिकोर्ध्वं स्थिते गर्ते
रसनां विपरीतगाम् ॥ ५२ ॥ संयोजये-
त्प्रयत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः ॥ मुद्रैपा
खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥ ५३ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक दोनों भ्रू अर्थात् भ्रुकुटी-
के मध्यमें दृढ करके दृष्टिको स्थिर करके और नाना
उपद्रवरहित होके वज्रासन अर्थात् सिद्धासनसे स्थित
होयके जिह्वाको विपरीत अर्थात् ऊपर सुधाकूप स्वरूप

(१०६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

तालूविवरमें यत्नसे बुद्धिमान् साधक संयोजित करे
अर्थात् संबन्धकरे हेपार्वती ! भक्तोंके प्रति हमने प्रकाश
करके यह खेचरीमुद्रा कही है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

मूलम्-सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणा-
धिकप्रिया ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्पी-
यूपं प्रत्यहं पिबेत् ॥ तेन विग्रहसिद्धिः
स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ५४ ॥

टीका-यह खेचरीमुद्रा सर्वसिद्धिकी माता है और
हेदेवी ! हमको प्राणसेभी अधिक प्रिय है जो निरन्तर इ-
सके अभ्यासे नित्य अमृतपान करताहै उस कारणसे
शरीर सिद्ध होजाताहै अर्थात् नाश नहीं होता और
मृत्युरूप हस्तीको यह खेचरीरूपी सिंह हन्ताहै ॥ ५४ ॥

मूलम्-अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां
गतोऽपि वा ॥ खेचरी यस्य शुद्धा तु स
शुद्धो नात्र संशयः ॥ ५५ ॥

टीका-अपवित्र होय वा पवित्र होय अथवा किसी
अवस्थामें होय जिसको यह खेचरीमुद्रा सिद्ध है वह
सर्वदा शुद्ध है इसमें संशय नहीं है ॥ ५५ ॥

मूलम्-क्षणार्थं कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापम-
हार्णवम् ॥ दिव्यभोगान्प्रमुक्त्वा च
सत्कुले स प्रजायते ॥ ५६ ॥

टीका—जो इस खेचरीमुद्राको क्षणार्धभी करेगा वह महापापसागरके पार होके सुखपूर्वक स्वर्गका भोग भोगेगा पश्चात् उत्तमकुलमें उसका जन्म होगा ॥६६॥

मूलम्—सुद्रेषा खेचरी यस्तु स्वस्थचित्तो
ह्यतन्द्रितः ॥ शतब्रह्मगतेनापि क्षणार्धं
मन्यते हि सः ॥ ५७ ॥

टीका—जो मनुष्य इस खेचरीमुद्राको स्वस्थचित्त ब्रह्मपरायणहोके करेगा उसको यदि शतब्रह्माभी गत भावको प्राप्तहों क्षणार्धं प्रतीत होगा ॥ ५७ ॥

मूलम्—गुरूपदेशतो मुद्रां यो वेत्ति खेचरी-
मिमाम् ॥ नानापापरतो धीमान्स याति
परमां गतिम् ॥ ५८ ॥

टीका—गुरूपदेशसे जिसको यह खेचरीमुद्रा लाभ होगी वह यदि नानापापरत होगा तो भी बुद्धिमान् साधक परमगतिको प्राप्तहोगा अर्थात् मोक्ष होजा-
यगा ॥ ५८ ॥

मूलम्—सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्क-
स्मिन्न दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन
मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ५९ ॥

टीका—हे सुरपूजिते पार्वती ! यह खेचरीमुद्रा प्राणके

(१०८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

बराबर है सामान्य मनुष्यको देना उचित नहीं है इस मुद्राको यत्न करके गोपित रखनेमें कल्याण है ॥ ५९ ॥

अथ जालन्धरबन्ध ।

मूलम्—बद्धागलशिराजालं हृदये चिबुकं
न्यसेत् ॥ बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवाना-
मपि दुर्लभः ॥ ६० ॥ नाभिस्थवह्निर्जन्तूनां
सहस्रकमलच्युतम् ॥ पिवेत्पीयूषविस्तारं
तदर्थं बन्धयेदिमम् ॥ ६१ ॥

टीका—गुरूपदेशद्वारा गलशिराजालको बांधके चिबुक अर्थात् ठोड़ीको हृदयमें स्थित करे इसको जालन्धरबन्ध कहते हैं यह देवतोंकोभी दुर्लभ है नाभिस्थित जीव जठरानल सहस्रदल कमलसे जो अमृत स्रवताहै उसको पान करजाताहै इस हेतुसे यह जालन्धरबन्ध करना उचित है तात्पर्य यह है कि, नाभिस्थित सूर्य अमृतको पान करजाते हैं इसीकारणसे मृत्यु होतीहै इस जालन्धरबन्धके करनेसे चंद्रमण्डलच्युत अमृत सूर्यमण्डलमें नहीं जाता योगी आपही पान करके चिरंजीव रहताहै ॥ ६० ॥ ६१ ॥

मूलम्—बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिवति बु-
द्धिमान् ॥ अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते
भुवनत्रये ॥ ६२ ॥

टीका—इस जालन्धरबन्धके प्रभावसे बुद्धिमान् योगी स्वयं अमृत पान करताहै और अमरत्वको पायके तीनोंलोकमें आनन्दपूर्वक विचरता है ॥ ६२ ॥

मूलम्—जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३ ॥

टीका—यह जालन्धरबन्ध सिद्धोंको सिद्धिदेनेवाला है इस कारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इसका नित्य अभ्यास करना उचित है ॥ ॥ ६३ ॥

अथ मूलबन्धः ।

मूलम्—पादमूलेन संपीडय गुदमार्गेषु यन्त्रितम् ॥६४ ॥ बलादपानमाकृष्य क्रमादूर्ध्वं सुचारयेत् ॥ कल्पितोऽयं मूलबन्धो जरामरणनाशनः ॥ ६५ ॥

टीका—पादमूल अर्थात् एडीसे गुदामार्गको आकुञ्चन करके पीडितकरे और बलसे अपानवायुको आकर्षण करके ऊर्ध्वको लेजाय अर्थात् प्राणके साथ सम्बन्धकरे इसको मूलबन्ध कहतेहैं यहबन्ध जरा मरणका नाश करनेवालाह ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

मूलम्—अपानप्राणयोरैक्यं प्रकरोत्यधि-

(११०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कल्पितम् ॥ बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा
प्रसिद्धयति ॥ ६६ ॥

टीका—इस कल्पितबन्धसे अपान और प्राणको एक करे और इसी मूलबन्धके प्रभावसे योनिमुद्रा आपही सिद्ध होजायगी ॥ ६६ ॥

मूलम्—सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्य-
ति भूतले ॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने
विजितानिलः ॥ पद्मासने स्थितो योगी
भुवमुत्सृज्य वर्तते ॥ ६७ ॥

टीका—योनिमुद्राके सिद्ध होनेसे सिद्धलोगोंको इस संसारमें सब सिद्ध होसकताहै इस मूलबन्धके प्रसा-
दसे वायुको योगी जीतके पद्मासनस्थित होके भूमिके त्याग देगा और आकाशमें गमन करेगा ॥ ६७ ॥

मूलम्—सुगुप्ते निर्जने देशे बन्धमेनं सम-
भ्यसेत् ॥ संसारसागरं तर्तुं यदीच्छेद्यो-
गिपुंगवः ॥ ६८ ॥

टीका—पवित्र योगी यदि संसारसागरसे पार होने-
की इच्छा करे तो निर्जनदेश और गुप्तस्थानमें इस मूलबन्धका अभ्यास करना उचित है ॥ ६८ ॥

अथ विपरीतकरणी मुद्रा ।

मूलम्—भूतले स्वशिरोदत्त्वा स्वे नयेच्चरणद्व

यम् ॥ विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गो-
पिता ॥ ६९ ॥

टीका-साधक अपने शिरको भूमिपर धरे और दोनों चरणोंको ऊपर आकाशमें निरालम्ब स्थिर करे यह विपरीतकरणी मुद्रा सर्वतन्त्रोंकरके गोपित है अर्थात् प्रकाश करने योग्य नहीं है ॥ ६९ ॥

मूलम्-एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याम-
मात्रतः ॥ मृत्युं जयति योगीशः प्रलये
नापि सीदति ॥ ७० ॥

टीका-इसप्रकारसे इस मुद्राका अभ्यास नित्य एक प्रहर करे तो योगी निश्चय मृत्युको जीतलेगा और प्रलयमेंभी उसको कुछ कष्ट न होगा ॥ ७० ॥

मूलम्-कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां सम-
तामियात् ॥ स सेव्यः सर्वलोकानां बन्ध-
मेनं करोति यः ॥ ७१ ॥

टीका-जो पुरुष शरीरस्थ अमृतपान करता है उसको सिद्धोंकी समता प्राप्त होती है और इस मुद्राबन्धको जो करता है वह सर्वलोकमें पूजनीय है ॥ ७१ ॥

मूलम्-नाभेरूर्ध्वमधश्चापि तानं पश्चिम-
माचरेत् ॥ उड्ड्यानबंध एष स्यात्सर्वदुः-

तौ न गतः ॥ ७२ ॥ उदरे पश्चिमं तानं
नाभेरुर्ध्वं तु कारयेत् ॥ उड्ड्यानाख्यो-
ऽत्र बन्धोयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७३ ॥

टीका-नाभिसे ऊपर और नीचेको आकुञ्चन करे इसको उड्ड्यानबन्ध कहते हैं यह दुःखके समूहको नाशकरनेवाला है उदरको पीछे आकर्षण करे और नाभिसे ऊपर भागमें आकुञ्चन करे यह उड्ड्यानबन्ध है और मृत्युरूपी मातङ्गका नाशकरनेवाला यह बन्धरूपी सिंह है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

मूलम्-नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं
दिने दिने ॥ तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन
सिद्धो भवेन्मरुत् ॥ ७४ ॥

टीका-जो योगी नित्य इस बन्धको चारवार अभ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद्ध होजायगा ॥ ७४ ॥

मूलम्-षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति
निश्चितम् ॥ तस्योदराग्निर्ज्वलति रसवृ-
द्धिः प्रजायते ॥ ७५ ॥

टीका-योगी यदि छः मास इस बन्धका अभ्यास करे तो निश्चय मृत्युको जीतलेगा और उसका जठरा-

नल विशेष प्रज्वलित होगा और रसकी वृद्धि उत्पन्न होगी ॥ ७५ ॥

मूलम्—अनेन सुतरां सिद्धिर्विग्रहस्य प्रजायते ॥ रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति ध्रुवम् ॥ ७६ ॥

टीका—इस उड्डयानबन्धके प्रभावसे योगीका शरीर आपही सिद्ध हो जायगा अर्थात् अमर होजायगा और सर्व रोगोंका निश्चय क्षय होजायगा ॥ ७६ ॥

मूलम्—गुरोर्लब्ध्वा प्रयत्नेन साधयेत्तु विचक्षणः ॥ निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम् ॥ ७७ ॥

टीका—गुरुसे यत्नपूर्वक इस परमदुर्लभ बन्धको लाभ करके बुद्धिमान् साधक एकांतस्थानमें स्वस्थचित्त होके साधन करे ॥ ७७ ॥

अथ वज्रोलीमुद्रा ।

मूलम्—वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम् ॥ स्वभक्तेभ्यः समासेन गृह्याद्गृह्यतमामपि ॥ ७८ ॥

टीका—हे देवी ! संसारतमनाशिनी परमगोपनीय वज्रोली मुद्रा भक्तलोगोंके प्रति हम कहते हैं ॥ ७८ ॥

मूलम्-विन्दुर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमय-
स्तथा ॥ उभयोर्मेलनं कार्यं स्वशरीरे प्र-
वेशयेत् ॥ ८६ ॥

टीका-विन्दुरूपी चन्द्र और रजरूपी सूर्य यह
जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरमें प्रवेश
करना उचित है ॥ ८६ ॥

मूलम्-अहं विन्दू रजः शक्तिरुभयोर्मेलनं
यदा ॥ योगिनां साधनावस्था भवेदिव्यं
वपुस्तदा ॥ ८७ ॥

टीका-यदि शिवरूपी विन्दु और रजरूपी शक्ति
यह दोनोंका सम्बन्ध होगा तब योगीका साधनसे
दिव्य शरीर अर्थात् देवताके समान शरीर होगा तात्पर्य
यह है कि शिवशक्ति अर्थात् माया ईश्वरके सम्बन्ध वा
मायाको ईश्वरमें लय करनेसे जिसको अघ्यारोप अप-
वाद कहते हैं योगी मोक्ष होता है अभिप्राय यह है कि,
रजविन्दुका सम्बन्ध जिस साधकको सिद्ध होजाताहै
वह मुक्त है ॥ ८७ ॥

मूलम्-मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधा-
रणे ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते विन्दुधा-
रणम् ॥ ८८ ॥

टीका-विन्दुपात होनेसे मृत्यु होती है और विन्दु-
के धारणसे प्राणी जीवताहै इस कारणसे यत्नसे विन्दु-
को धारण रखना उचित है ॥ ८८ ॥

मूलम्-जायते म्रियते लोके विन्दुना नात्र
संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी विन्दु-
धारणमाचरेत् ॥ ८९ ॥

टीका-प्राणीका जन्म मरण विन्दुसे होताहै इसमें
संशय नहीं है. इस हेतुसे इसको विचारके योगीको उ-
चित है कि, विन्दुको सर्वदा धारण रखे ॥ ८९ ॥

मूलम्-सिद्धे विन्दौ महायत्ने किं न सिध्य-
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्महिमा ममा-
प्येतादृशो भवेत् ॥ ९० ॥

टीका-हे पार्वती ! यत्नपूर्वक विन्दुके सिद्ध होनेसे
संसारमें क्या नहीं सिद्ध होसक्ता अर्थात् सब सिद्ध हो
सक्ताहै इसीके प्रसादसे हमारी ऐसी महिमा है ॥ ९० ॥

मूलम्-विन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दुःखञ्च
संस्थितः ॥ संसारिणां विमूढानां जरामर-
णशालिनाम् ॥ ९१ ॥ अयंच शांकरो
योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ९२ ॥

टीका-विन्दु संसारी मनुष्योंके सुख और दुःखका

(११८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कारण है और मूढ लोगोंके मूढताका और जरामरण शील लोगोंका अर्थात् सबका यही बिन्दु हेतु है योगी लोगोंके प्रति यह हमारा उत्तम योग है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

मूलम्-अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति भोगयु-
क्तोऽपि मानवः ॥ सकलः साधितार्थोऽपि
सिद्धो भवति भूतले ॥ ९३ ॥

टीका-भोगयुक्त मनुष्योंकोभी अभ्याससे सिद्धि प्राप्त होती है और सकल वाञ्छितफल संसारमें सिद्ध होजाते हैं ॥ ९३ ॥

मूलम्-भुक्त्वा भोगानशेषान् वै योगेनानेन
निश्चितम् ॥ अनेन सकला सिद्धिर्योगिनां
भवति ध्रुवम् ॥ सुखभोगेन महता तस्मा-
देनं समभ्यसेत् ॥ ९४ ॥

टीका—वज्रोलीके भेदसे सहजोली और अमरोली मुद्राकी संज्ञा है योगीको उचित है कि सबप्रकारसे विन्दुको धारण करे ॥ ९५ ॥

मूलम्—दैवाञ्चलति चेद्वेगे मेलनं चन्द्रसूर्य-
योः ॥ अमरोलिरियं प्रोक्ता लिंगनालेन
शोपयेत् ॥ ९६ ॥

टीका—यदि हठात् वेगवश विन्दु चले और रजविन्दु-
का सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरोली कहते हैं परन्तु
लिङ्गनालद्वारा रजविन्दु दोनोंको शोपण करे ॥ ९६ ॥

मूलम्—गतं विन्दुं स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमु-
द्रया ॥ सहजोलिरियं प्रोक्ता सर्वतन्त्रेषु
गोपिता ॥ ९७ ॥

टीका—निजविन्दु चलायमान होय तो योगी योनि-
मुद्राके बन्धसे अवरोध करे इसको सहजोली कहते हैं
यह सर्वतन्त्रों करके गोपनीय है ॥ ९७ ॥

मूलम्—संज्ञाभेदाद्भवेद्भेदः कार्यं तुल्यग-
तिर्यादि ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साध्यते
योगिभिः सदा ॥ ९८ ॥

टीका—यदि कार्य एक समान है परन्तु संज्ञासे
अमरोली और सहजोली दो भेद भया है इस हेतुसे

(१२०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

योगीको उचित है कि, यह दोनों अमरोली और सहजो-
लीका यत्नपूर्वक सर्वदा साधन करे ॥ ९८ ॥

मूलम्-अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां
स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयत्नेन न
देयो यस्य कस्यचित् ॥ ९९ ॥

टीका-हेप्रिये पार्वती! हम भक्तोंपर प्रेम करके यह
योग जो कहा है यत्नपूर्वक गोपनीय है सामान्य मनुष्य-
को कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥

मूलम्- एतद्ब्रह्मत्तमं गुह्यं न भूतं न भविष्य
ति ॥ तस्मादेतत्प्रयत्नेन गोपनीयं सदा
बुधैः ॥ १०० ॥

टीका-इस बज्रोलीमुद्रासे अधिक गोपनीय न कुछ
भया है न होगा. इसकारणसे बुद्धिमान साधकको
यत्नपूर्वक इसको गोप्य रखना उचित है ॥ १०० ॥

मूलम्-स्वमूत्रोत्सर्गकाले यो बलांदाकृ-
ष्य वाशुना ॥ स्तोकं स्तोकं त्यजेन्मूत्रमू-
र्द्धमाकृष्य तत्पुनः ॥ १०१ ॥ गुरूपदिष्टमा-
र्गेण प्रत्यहं यः समाचरेत् ॥ बिन्दुसिद्धि-
र्भवेत्तस्य महासिद्धिप्रदायिका ॥ १०२ ॥

टीका-गुरुके उपदेशपूर्वक सर्वदा मूत्रत्यागनेके समय बलकरके वायुसे आकर्षणपूर्वक थोडा थोडा मूत्र त्यागकरे फिर ऊपरको आकर्षण करे तो उसका बिन्दु सिद्ध होजायगा यह बिन्दुकी सिद्धी महासिद्धीकी दाता है अर्थात् परमपदको प्राप्त करती है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

मूलम्-षण्मासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरु-
शिक्षया ॥ शतांगनेपि भोगेपि तस्य बि-
न्दुर्न नश्यति ॥ १०३ ॥

टीका-गुरुके शिक्षापूर्वक योगी यदि छः मास नि-
त्य इसका अभ्यासकरे तो शत स्त्रीसे भोगकरेगा तो
भी उसका बिन्दुपात नहोगा ॥ १०३ ॥

मूलम्-सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिद्धय-
ति पार्वति ॥ ईशत्वं यत्प्रसादेन ममापि
दुर्लभं भवेत् ॥ १०४ ॥

टीका-हेपार्वती ! जब महायत्नसे बिन्दु सिद्ध होजा-
यगा तब क्या नहीं सिद्धहोगा अर्थात् सब सिद्ध हो-
जायगा इसके प्रसादसे यह दुर्लभ ईशत्व हमको प्राप्त
भयाहै ॥ १०४ ॥

अथ शक्तिचालनमुद्रा ।

मूलम्-आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्ड-

(१२२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

लीं दृढाम् ॥ अपानवायुमारुह्य वलादाकृ-
प्य बुद्धिमान् ॥ १०५ ॥ शक्तिचालनमु-
द्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥

टीका—आधारकमलमें घोर निद्रित कुण्डलिनीको बुद्धिमान् अपानवायुपर आरूढहोके आकर्षणपूर्वक हठात् चलावे अर्थात् भ्रमावे यह शक्तिचालनमुद्रा सर्वशक्तिकी दाता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

मूलम्—शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः स-
माचरेत् ॥ आयुर्वृद्धिर्भवेत्तस्य रोगाणां
च विनाशनम् ॥ १०७ ॥

टीका—यह शक्तिचालनमुद्रा जो प्रतिदिन करे तो उसके आयुकी वृद्धी होगी और सर्वरोगोंका इस मुद्राके प्रभावसे नाश होजायगा ॥ १०७ ॥

मूलम्—विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूर्ध्वं
भवेत्खलु ॥ तस्मादभ्यासनं कार्यं योगि-
ना सिद्धिमिच्छता ॥ १०८ ॥

टीका—इस शक्तिचालनके साधनसे कुण्डलिनी निद्राको त्यागके आपही ऊर्ध्वगामी होजायगी यह निश्चय है. इस हेतुसे सिद्धिकी इच्छा करनेवाले योगीको उचित है कि, इसका अभ्यास करे ॥ १०८ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम् ॥ येन विग्रहसिद्धिः स्यादणिमादिगुणप्रदा ॥ गुरुपदेशविधिना तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ १०९ ॥

टीका—यदि इस उत्तमशक्तिचालनमुद्राका सदा अभ्यासकरे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात् अमर हो-जायगा और यह मुद्रा अणिमादिक सिद्धिकी दाता है. गुरुके उपदेशपूर्वक विधानसे जो इसका अभ्यास करे तो उसको मृत्युका भय नहीं है ॥ १०९ ॥

मूलम्—मुहूर्तद्वयपर्यन्तं विधिना शक्तिचालनम् ॥११०॥ यः करोति प्रयत्नेन तस्य सिद्धिरदूरतः ॥ युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभिः शक्तिचालनम् ॥ १११ ॥

टीका—जो विधानपूर्वक यत्नसे यदि दोमुहूर्तपर्यन्त शक्तिचालन करे तो उसको सर्वसिद्धिकी प्राप्ति होगी. योगीको उचित है कि, गुरुके उपदेशानुसार योगासनसे युक्त होके शक्तिचालनका अभ्यास करे ॥११०॥१११॥

मूलम्—एतत्समुद्रादशकं न भूतं न भविष्यति ॥ एकैकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ११२ ॥

(१२४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—हे पार्वती! यह दशमुद्रा जो हमने कहा है इसके समान न कुछ भया है न होगा इसके एक एकके अभ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध होजायगा ॥ ११२ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे मुद्राकथनं
नाम चतुर्थपटलः समाप्तः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमः पटलः ।

मूलम्—श्रीदेव्युवाच ॥ ब्रूहि मे वाक्यमी-
शान परमार्थधियं प्रति ॥ ये विघ्नाः सन्ति
लोकानां वद् मे प्रिय शङ्कर ॥ १ ॥

टीका—श्रीपार्वतीजी कहती है कि, हे ईश्वर! हे प्रिय शङ्कर! योगाभ्यासी लोगोंके प्रति जो विघ्न संसारमें हैं सो भक्तोंपर कृपा करके हमको कहे ॥ १ ॥

मूलम्—ईश्वर उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्या-
मि यथा विघ्नाः स्थिताः सदा ॥ मुक्तिं प्र-
ति नराणाञ्च भोगः परमबन्धनः ॥ २ ॥

टीका—श्रीईश्वर कहते हैं कि, हे देवी! योगसाधनमें जो विघ्न हैं सो हम कहते हैं सुनो मनुष्योंके मुक्तिके प्रति भोग परमबन्धन है ॥ २ ॥

अथ भोगरूपयोगविघ्नविद्याकथनम् ॥

मूलम्—नारी शय्यासनं वस्त्रं धनमस्य विड-

म्बनम् ॥ ताम्बूलभक्षयानानि राज्यैश्वर्य-
विभूतयः ॥ ३ ॥ हैमं रौप्यं तथा ताम्रं रत्न-
श्चागुरुधेनवः ॥ पाण्डित्यं वेदशास्त्राणि नृ-
त्यं गीतं विभूषणम् ॥ ४ ॥ वंशी वीणा मृद-
ङ्गाश्च गजेन्द्रश्चाश्ववाहनम् ॥ दारापत्यानि
विषया विघ्ना एते प्रकीर्तिताः ॥ भोगरूपा
इमे विघ्ना धर्मरूपानिमाञ्छृणु ॥ ५ ॥

टीका—नारीसंसर्ग शय्या उत्तमआसन वस्त्र धनं
यह सब मोक्षके प्रति विडम्बना हैं ताम्बूलसेवन रथ
शिबिका आदि सवारी राजऐश्वर्य भोग स्वर्ण रजत
ताम्र अनेकप्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पा-
ण्डित्य करना वेदशास्त्रमें तर्क करना नृत्य गीत भूषण
वंशी वीणा मृदङ्गादिक वाद्य वजाना गज अश्व आदि
वाहन स्त्री पुत्र केवल गुरुकी सेवा छोडके हे पार्वती
यह जो कहा है सो भोगरूप विघ्न है अब धर्मरूप विघ्न
कहतेहैं श्रवण करो ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ धर्मरूपयोगविघ्नकथनम् ।

मूलम्—स्नानं पूजाविधिर्होमं तथा मोक्ष-
मयी स्थितिः ॥ व्रतोपवासनियममौ-

(१२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

नमिन्द्रियनिग्रहः॥६॥ध्येयो ध्यानं तथा
मन्त्रो दानं ख्यातिर्दिशासुच ॥ वापीकूप-
तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यज्ञं
चान्द्रायणं कृच्छ्रं तीर्थानि विविधानि च॥
दृश्यन्ते च इमे विघ्ना धर्मरूपेण सं-
स्थिताः ॥ ८ ॥

टीका—स्नानविधि पूजा होम और सुखपूर्वक स्थिति
व्रत उपवास नियम मौन इन्द्रियनिग्रह ध्येय किसीका
ध्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्धहोना वावडी
कूप तालाव मंदिर बगीचाआदिक बनवाना यज्ञ
करना पापक्षयके हेतु चांद्रायण कृच्छ्र व्रत करना तीर्थों
में भ्रमण करना यह सब धर्मरूप विघ्न हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

अथ ज्ञानरूपविघ्नकथनम् ।

मूलम्—यत्तु विघ्नं भवेज्ज्ञानं कथयामि वरा-
नने ॥ ९ ॥ गोमुखं स्वासनं कृत्वा धौति-
प्रक्षालनं च तत् ॥ नाडीसञ्चारविज्ञानं
प्रत्याहारनिरोधनम् ॥ १० ॥ कुक्षिसंचालनं
क्षिप्रं प्रवेश इन्द्रियाध्वना ॥ नाडीकर्मा-
णि कल्याणि भोजनं श्रूयतांमम ॥ ११ ॥

टीका—हे देवी ! हे वरानने ! अब ज्ञानरूप विघ्न कहते हैं

सुनो—अन्तःशुद्धिके अर्थ गोमुखके सदृश वस्त्र भक्षण करके तब धौति प्रक्षालन करना अर्थात् धौतियोग करना नाडीचालनका ज्ञान वायुका प्रत्याहार निरोध करना कुण्डलिनीके बोधार्थ उदरको भ्रमावना इन्द्रिय-द्वारा शीघ्र प्रवेश नाडीकर्म अर्थात् नाडीशुद्धिके हेतु आहारीय विचार यह सब ज्ञानरूप विघ्न हैं हे देवी कल्याणी ! नाडीशुद्धिके अर्थ जो भोजनविधि है सो हम कहतेहैं सुनो ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

मूलम्—नवधातुरसं छिन्धि शुण्ठिकास्ता-
डयेत्पुनः ॥ एककालं समाधिः स्याल्लि-
गभूतमिदं शृणु ॥ १२ ॥

टीका—नवीन रससहित भोजन वस्तु और शुण्ठी-चूर्ण भोजनकरे इससे शीघ्र समाधि होजायगी. हे देवी ! अब उसका चिह्न कहतेहैं सुनो ॥ १२ ॥

मूलम्—सङ्गमं गच्छ साधूनां सङ्कोचं भज
दुर्जनात् ॥ प्रवेशनिर्गमे वायोर्गुरुलक्षं
विलोकयेत् ॥ १३ ॥

टीका—साधुके सङ्गकी अभिलाषा और दुर्जनसे अलग रहनेका विचार रखना और वायुके प्रवेश निर्गममें और वायुके निरोध समय मात्रासे गुरुलघुके विचारार्थ संख्या करना ॥ १३ ॥

(१२८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-पिण्डस्थं रूपसंस्थञ्च रूपस्थं रूप-
वर्जितम् ॥ ब्रह्मैतस्मिन्मतावस्था हृदयञ्च
प्रशाम्यति ॥ इत्येते कथिता विघ्ना ज्ञान-
रूपे व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥

टीका-शरीरस्थरूपका विचार रचना और रूप कु-
रूपका निर्णय करना और यह जगत् ब्रह्म है ऐसे वि-
चारसे हृदयमें स्थिरता रचना. हेपार्वती ! यह जो कहा
है सो सब ज्ञानरूप विघ्न हैं ॥ १४ ॥

अथ चतुर्विधयोगकथनम् ।

मूलम्-मन्त्रयोगोहठश्चैवलययोगस्तृतीय-
कः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विधा
भाववर्जितः ॥ १५ ॥

टीका-योग चार प्रकारका है-मन्त्रयोग, हठयोग,
और तीसरा लययोग और चौथा राजयोग है. यह राज-
योग द्वैतभावसे रहित है अर्थात् राजयोग सिद्धहो
जानेसे जीव ईश्वरमें लयहोजाता है और कुछ बोध नहीं
होता ॥ १५ ॥

मूलम्-चतुर्था साधको ज्ञेयो मृदुमध्याधि-
मात्रकाः ॥ अधिमात्रतमः श्रेष्ठो भव्य-
व्यौ लघनक्षमः ॥ १६ ॥

टीका—यह योगचतुष्टयके साधकभी चार प्रकारके होते हैं अर्थात् मृदु मध्यम अधिमात्र और अधिमात्रतम यह अधिमात्रतम साधक सर्वमें श्रेष्ठ है एही साधक संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें समर्थ होता है ॥ १६ ॥

अथ मृदुसाधकलक्षणम् ।

मूलम्—मन्दोत्साही सुसंमूढो व्याधिस्थो गुरु-
रूपकः ॥ लोभी पापमतिश्चैव बह्वाशी
वनिताश्रयः ॥ १७ ॥ चपलः कातरो रोगी
पराधीनोऽतिनिष्ठुरः ॥ मन्दाचारो मन्द-
वीर्यो ज्ञातव्यो मृदुमानवः ॥ १८ ॥ द्वाद-
शाब्दे भवेत्सिद्धिरेतस्य यत्नतः परम् ॥
मन्त्रयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणा
ध्रुवम् ॥ १९ ॥

टीका—अब मृदुसाधकलक्षण कहते हैं मन्द उत्सा-
ही मूढचित्त व्याधिग्रस्त गुरुनिन्दक लोभी जिसकी
सर्वदा पापबुद्धि रहै बहुत भोजन करनेवाला स्त्रीके
वशमें हो चञ्चल हो कातर हो रोगी हो पराधीन हो कठोर
बोलनेवाला हो जिसके मन्द कर्म हों मन्दवीर्यवाला हो
ऐसे पुरुषको मृदु मानव कहते हैं यह मन्त्रयोगका
अधिकारी है यत्नकरनेसे और गुरुकी कृपासे इसकोभी

(१३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वारह वर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥
मूलम्—समबुद्धिः क्षमायुक्तः पुण्यकांक्षी
प्रियंवदः॥ मध्यस्थः सर्वकार्येषु सामा-
न्यः स्यान्न संशयः ॥ २० ॥ एतज्ज्ञात्वैव
गुरुभिर्दीयते मुक्तितो लयः ॥ २१ ॥

टीका—अब मध्यसाधकलक्षण कहतेहैं—सामान्य
बुद्धि हो क्षमावानहो पुण्यकर्म करनेमें इच्छा रखताहो
प्रिय बोलताहो सर्वकार्यमें मध्यस्थ रहताहो अर्थात् न
हर्ष न विपाद इसको मध्यसाधक कहतेहैं यह निश्च-
य है गुरु इसको विचारके मुक्तिमार्ग जो लययोग है
उसका उपदेश करे ॥ २० ॥ २१ ॥

अथ अधिमात्रसाधकलक्षणम् ।

मूलम्—स्थिरबुद्धिर्लये युक्तः स्वाधीनो वी-
र्यवानपि ॥ महाशयो दयायुक्तः क्षमावा-
न् सत्यवानपि ॥ २२ ॥ शूरो वयःस्थः श्र-
द्धावान् गुरुपादाब्जपूजकः ॥ योगाभ्या-
सरतश्चैव ज्ञातव्यश्चाधिमात्रकः ॥ २३ ॥
एतस्य सिद्धिः षड्वर्षेभवेदभ्यासयोग-
तः ॥ एतस्मै दीयते धीरो हठयोगश्च
साङ्गन्तः ॥ २४ ॥

टीका—अब अधिमात्र साधक लक्षण कहतेहैं स्थिर

बुद्धि हो लययोगमें समर्थ हो स्वतन्त्र हो अर्थात् किसीके आधीन न हो वीर्यवान हो महाशय हो दयावान हो क्षमावान हो सत्यवादी हो शूर हो समाधियोगमें श्रद्धा हो गुरुपादपद्मपूजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे गुणवाले पुरुषको अधिमात्र कहतेहैं योगाभ्याससे ऐसे पुरुषको छःवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी. गुरुको उचित है कि, ऐसे धीर पुरुषको अङ्गसहित हठयोगका उपदेश करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

अथ अधिमात्रतमसाधकलक्षणम् ।

मूलम्—महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः शौर्यवानपि॥ शास्त्रज्ञोऽभ्यासशीलश्च निर्मोहश्च निराकुलः ॥ २५ ॥ नवयौवनसम्पन्नो मिताहारी जितेंद्रियः ॥ निर्भयश्च शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रयः ॥ २६ ॥ अधिकारी स्थिरो धीमान् यथेच्छावस्थितः क्षमी॥ सुशीलो धर्मचारी च गुप्तचेष्टः प्रियंवदः ॥ २७ ॥ शास्त्रविश्वाससम्पन्नो देवतागुरुपूजकः ॥ जनसंगविरक्तश्च महाव्याधिविवर्जितः ॥ २८ ॥ अधिमात्रतमो ज्ञेयः सर्वयोगस्य साधकः ॥ त्रिभिः

सँव्वत्सरैः सिद्धिरेतस्य नात्र संशयः ॥
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कार्या विचा-
रणा ॥ २९ ॥

टीका—महावीर्यवान् उत्साहयुक्त स्वरूपवान् शू-
तासम्पन्न शास्त्रज्ञ अभ्यासशील अर्थात् श्रुतिधर मो-
हसे हीन आकुलतारहित अर्थात् सावधान नवीन
यौवनसम्पन्न अर्थात् तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय
निर्भय पवित्रआचार सर्वकर्ममें निपुण दानशील
शरणागतपालक स्थिरचित्त बुद्धिमान् सन्तोषयुक्त
क्षमावान् शीलवान् धार्मिक कर्माँको गोप्य रखनेवाला
प्रियसत्यवादी शास्त्रमें विश्वास देवता और गुरुपूजक
जनसङ्गरहित महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिसमें हो
वह अधिमात्रतम है और सर्व योगका साधक है इसको
तीनवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है. यह
सर्वयोगका अधिकारी है ऐसे पुरुषको गुरु समस्त
योगका उपदेश करदें इसमें विचारका कुछ प्रयोजन
नहीं है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

अथ प्रतीकोपासनम् ।

मूलम्—प्रतीकोपासना कार्या दृष्टादृष्टफल-
प्रदा ॥ पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या
विचारणा ॥ ३० ॥

टीका—अब प्रतीकउपासना कहतेहैं प्रतीकउपासनासे दृष्टादृष्टफल लाभ होताहै और उसके दर्शनसे मनुष्य पवित्र होताहै इसमें संशय नहीं है ॥ ३० ॥

मूलम्—गाढातपे स्वप्रतिविम्बितेश्वरं निरीक्ष्य विस्फारितलोचनद्वयम् ॥ यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकं नभोङ्गणे तत्क्षणमेव पश्यति ॥ ३१ ॥

टीका—गाढआतपमें अर्थात् गहरेधूपमें स्वईश्वरका प्रतिविम्ब नेत्रस्थिरकरके देखे जब अपने छायाका प्रतिविम्ब शून्यमें देखपडे तब ऊपर आकाशमें अपना प्रतिविम्ब अवश्य देखेगा ॥ ३१ ॥

मूलम्—प्रत्यहं पश्यते यो वै स्वप्रतीकं नभोङ्गणे ॥ आयुर्वृद्धिर्भवेत्तस्य न मृत्युः स्यात्कदाचन ॥ ३२ ॥

टीका—जो नित्य आकाशमें स्वप्रतीक अर्थात् अपना प्रतिविम्ब देखेगा उसके आयुकी वृद्धि होगी और उसकी मृत्यु कभी न होगी अर्थात् चिरंजीवी हो जायगा ॥ ३२ ॥

मूलम्—यदा पश्यति सम्पूर्णं स्वप्रतीकं नभो-

सँवत्सरैः सिद्धिरेतस्य नात्र संशयः ॥
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कार्या विचा-
रणा ॥ २९ ॥

टीका—महावीर्यवान् उत्साहयुक्त स्वरूपवान् शूर-
तासम्पन्न शास्त्रज्ञ अभ्यासशील अर्थात् श्रुतिधर मो-
हसे हीन आकुलतारहित अर्थात् सावधान नवीन
यौवनसम्पन्न अर्थात् तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय
निर्भय पवित्रआचार सर्वकर्ममें निपुण दानशील
शरणागतपालक स्थिरचित्त बुद्धिमान् सन्तोषयुक्त
क्षमावान् शीलवान् धार्मिक कर्माँको गोप्य रखनेवाला
प्रियसत्यवादी शास्त्रमें विश्वास देवता और गुरुपूजक
जनसङ्गरहित महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिसमें हो
वंह अधिमात्रतम है और सर्व योगका साधक है इसको
तीनवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है. यह
सर्वयोगका अधिकारी है ऐसे पुरुषको गुरु समस्त
योगका उपदेश करदे इसमें विचारका कुछ प्रयोजन
नहीं है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

अथ प्रतीकोपासनम् ।

मूलम्—प्रतीकोपासना कार्या दृष्टादृष्टफल-
प्रदा ॥ पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या
विचारणा ॥ ३० ॥

टीका-अब प्रतीकउपासना कहतेहैं प्रतीकउपासनासे दृष्टादृष्टफल लाभ होताहै और उसके दर्शनसे मनुष्य पवित्र होताहै इसमें संशय नहीं है ॥ ३० ॥

मूलम्-गाढातपे स्वप्रतिविम्बितेश्वरं निरीक्ष्य विस्फारितलोचनद्वयम् ॥ यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकं नभोज्जणे तत्क्षणमेव पश्यति ॥ ३१ ॥

टीका-गाढआतपमें अर्थात् गहरेधूपमें स्वईश्वरका प्रतिविम्ब नेत्रस्थिरकरके देखे जब अपने छायाका प्रतिविम्ब शून्यमें देखपडे तब ऊपर आकाशमें अपना प्रतिविम्ब अवश्य देखेगा ॥ ३१ ॥

मूलम्-प्रत्यहं पश्यते यो वै स्वप्रतीकं नभोज्जणे ॥ आयुर्वृद्धिर्भवेत्तस्य न मृत्युः स्यात्कदाचन ॥ ३२ ॥

टीका-जो नित्य आकाशमें स्वप्रतीक अर्थात् अपना प्रतिविम्ब देखेगा उसके आयुकी वृद्धि होगी और उसकी मृत्यु कभी न होगी अर्थात् चिरंजीवी हो जायगा ॥ ३२ ॥

मूलम्-यदापश्यतिसम्पूर्णस्वप्रतीकं नभो-

(१३४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

द्गणे ॥ तदा जयं सभायाञ्च युद्धे निर्जित्य
सञ्चरेत् ॥ ३३ ॥

टीका—जब सम्पूर्ण अपना प्रतिबिम्ब आकाशमें देखे तब सभामें उसकी जय होय और युद्धमें शत्रुको जीतलेगा ॥ ३३ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं चात्मानं
वन्दते परम् ॥ पूर्णानन्दैकपुरुषं स्वप्रती-
कप्रसादतः ॥ ३४ ॥

टीका—जो सर्वदा स्वप्रतीक उपासनाका अभ्यास करे तो उसको आत्माकी प्राप्ति होगी और उसी स्वप्रतीकके प्रसादसे पूर्णानन्द स्वरूप अर्थात् आत्माका दर्शन होगा. तात्पर्य यह है कि, जब हृदयाकाशमें अपने स्वरूपका अनुभव होगा तब आत्माकी परम ज्योतिका प्रकाश होगा ॥ ३४ ॥

मूलम्—यात्राकाले विवाहे च शुभे कर्मणि
सङ्कटे ॥ पापक्षये पुण्यवृद्धौ प्रतीकोपा-
सनञ्चरेत् ॥ ३५ ॥

टीका—यात्राकालमें और विवाहके समयमें और शुभकर्ममें और पापक्षयमें और पुण्यवृद्धिके अर्थ स्वप्रतीक अर्थात् अपने प्रतिबिम्बका दर्शन करे तो सर्वदा कल्याण होगा ॥ ३५ ॥

मूलम्-निरन्तरकृताभ्यासादन्तरे पश्यति
ध्रुवम् ॥ तदा मुक्तिमवाप्नोति योगी नि-
यतमानसः ॥ ३६ ॥

टीका-सर्वदा प्रतीकोपासनाके अभ्यास करनेसे
निश्चय हृदयाकाशमें अपना प्रतिबिम्ब भान होगा तब
निश्चयआत्मा योगीको मुक्ति प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥

मूलम्-अंगुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां
द्विलोचने ॥ नासारन्ध्रे च मध्याभ्याम-
नामाभ्यां मुखं दृढम् ॥ ३७ ॥ निरुध्य
मारुतं योगी यदैव कुरुते भृशम् ॥ तदा
तत्क्षणमात्मानं ज्योतीरूपं स पश्यति ३८

टीका-दोनों अंगुष्ठसे दोनों कर्ण बंद करे और दो-
नों तर्जनीसे दोनों नेत्रोंको बंद करे और दोनों मध्य-
मा अंगुलीसे दोनों नासारंध्रको बंद करे और दोनों
अनामिका अंगुली और कनिष्ठासे मुखको बंद करे
यदि इसप्रकार योगी वायुको निरोध करके इसका
बारंबार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वरूपका
हृदयाकाशमें भान होगा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मूलम्-तत्तेजो दृश्यते येन क्षणमात्रं निरा-
कुलम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति
परमां गतिम् ॥ ३९ ॥

(१३६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—आत्माका यह परमतेज जो पुरुष स्थिरचित्त होके क्षणमात्रभी देखेगा वह सर्वपापसे मुक्त होके परमगतिको प्राप्तहोगा ॥ ३९ ॥

मूलम्—निरन्तरकृताभ्यासाद्योगीविगतकल्मषः ॥ सर्वदेहादि विस्मृत्य तदभिन्नः स्वयं गतः ॥ ४० ॥

टीका—निरन्तर जो योगी शुद्धचित्त होके यह प्रतीकोपासनाका अभ्यास करेगा वह सर्व देहादिकर्मसे रहित होके आत्मासे अभिन्न होजायगा अर्थात् आत्मास्वरूप होजायगा ॥ ४० ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण मानवः ॥ स वै ब्रह्मविलीनः स्यात्पापकर्मरतो यदि ॥ ४१ ॥

टीका—जो मनुष्य गुप्ताचारसे इसका सर्वदा अभ्यास करताहै सो यदि पापकर्मरतभी हो तथापि उसका मोक्ष होगा ॥ ४१ ॥

मूलम्—गोपनीयः प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययकारकः ॥ निर्वाणदायको लोके योगोयं मम बल्लभः ॥ नादः संजायते तस्य क्रमेणाभ्यासतश्च यः ॥ ४२ ॥

टीका—जो इसका अभ्यास करेगा उसको क्रमसे नाद उत्पन्न होगा. हे देवी! यह प्रतीकोपासना निर्वाण योगका दाता है इसे हेतुसे हमको अतिप्रिय है यह शीघ्र फलदाता है इसको यत्नसे गोप्य रखना उचित है ॥ ४२ ॥

मूलम्—मत्तभृङ्गवेणुवीणासदृशः प्रथमो ध्वनिः ॥ ४३ ॥ एवमभ्यासतः पश्चात् संसारध्वान्तनाशनम् ॥ घण्टानादसमः पश्चात् ध्वनिर्मेघरवोपमः ॥ ४४ ॥ ध्वनौ तस्मिन्मनो दत्त्वा यदा तिष्ठति निर्भरः ॥ तदा संजायते तस्य लयस्य मम बलुभे ॥ ४५ ॥

टीका—योगअभ्यासद्वारा प्रथम मत्त भ्रमरकी नाई शब्द और वेणु और वीणाके समान शब्द उत्पन्न होगा इसी तरह संसारतम नाशक योगअभ्याससे फिर घण्टानाद समान शब्द होगा. फिर मेघ गर्जनके समान ध्वनि होगी. हे प्रिये पार्वती! उस ध्वनिमें यदि मन निश्चल स्थित हो जाय तब मोक्षका दाता लय उत्पन्न होगा ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

मूलम्—तत्र नादे यदा चित्तं रमते योगिनो भृशम् ॥ विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादेन सह शाम्भति ॥ ४६ ॥

(१३८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका-जब योगीका चित्त उस नादमें निरंतर रमणकरेगा तब सकल विषयसे स्मरणरहित होके चित्त समाधिमें लय होजायगा ॥ ४६ ॥

मूलम्-एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्यग्गुणान्वहून् ॥ सर्वारम्भपरित्यागी चिदाकाशे विलीयते ॥ ४७ ॥

टीका-इसीप्रकार योगअभ्यासद्वारा सर्व गुणोंको जीतके और सब कार्योंके आरंभको त्यागके योगी आनंदपूर्वक चैतन्यस्वरूप हृदयाकाशमें लय होजायगा ॥ ४७ ॥

मूलम्-नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भसदृशं बलम् ॥ न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः ॥ ४८ ॥

टीका-हेदेवी ! सिद्धासनके समान कोई और आसन नहीं है और न कुम्भकके समान कोई बल है और न खेचरीके समान कोई मुद्रा है और न नादके समान कोई दूसरा लय है ॥ ४८ ॥

अथ मूलाधारपद्मविवरणम् ।

मूलम्-इदानीं कथयिष्यामि मुक्तस्यानुभवं

प्रिये ॥ यज्ज्ञात्वा लभते मुक्तिं पापयुक्तो-
पि साधकः ॥ ४९ ॥

टीका-हेप्रिये पार्वती ! अब मुक्तिका अनुभव तुमसे कहते हैं जिसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी मुक्तिलाभ करता है ॥ ४९ ॥

मूलम्-समभ्यर्च्येश्वरं सम्यक्कृत्वा च
योगमुत्तमम् ॥ गृह्णीयात्सुस्थितो भूत्वा
गुरुं सन्तोष्य बुद्धिमान् ॥ ५० ॥

टीका-योगाकांक्षी साधक सम्यक्प्रकारसे ईश्वरकी पूजा करके स्वस्थचित्तसे योगासनपर बैठके बुद्धिमान् गुरुको सर्वप्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग ग्रहण करे ॥ ५० ॥

मूलम्-जीवादि सकलं वस्तु दत्त्वा योग-
विद् गुरुम् ॥ सन्तोष्यादिप्रयत्नेन योगीयं
गृह्यते बुधैः ॥ ५१ ॥

टीका-बुद्धिमान् साधक जीवादि सकल पदार्थ योगविद् गुरुके अर्पण करके उनके प्रसन्नतापूर्वक यत्न करके यह योग ग्रहण करते हैं ॥ ५१ ॥

मूलम्-विप्रान्सन्तोष्य मेधावी नानामं-
गलसंयुतः ॥ ममालये शुचिर्भूत्वा गृह्णी-
याच्छुभमात्मनः ॥ ५२ ॥

(१४०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—योगग्रहणके समय बुद्धिमान् साधक ब्राह्मणको सन्तोष करके अर्थात् द्रव्यादिक प्रदानपूर्वक प्रसन्न करके अनेक आशीर्वाद श्रवण करके पवित्रता से शिवमंदिरमें बैठके आत्माके अर्थ जो यह शुभयोग है इसको ग्रहणकरे ॥ ५२ ॥

मूलम्—संन्यस्यानेन विधिना प्राक्तनं
विग्रहादिकम् ॥ भूत्वा दिव्यवपुर्योगां
गृह्णीयाद्दृश्यमाणकम् ॥ ५३ ॥

टीका—साधक इस विधानसे पूर्व शरीर गुरुको कृपासे त्यागके दिव्य शरीर होके जा आगे कहेंगे वह योग ग्रहण करे. तात्पर्य यह है कि, योगग्रहणके समयसे साधकका शरीर दिव्य होजाताहै व्याधि और अज्ञानका शरीर नहीं रहजाता इस हेतुसे योगग्रहणके समय साधक यह चिंतनकरे कि, पूर्व शरीरको हमने त्यागके दिव्यशरीर धारण किया ॥ ५३ ॥

मूलम्—पद्मासनस्थितो योगी जनसंगविव-
र्जितः ॥ विज्ञाननाडीद्वितयमङ्गुलीभ्यां
निरोधयेत् ॥ ५४ ॥

टीका—योगी संगरहित पद्मासनमें स्थित होके दोनों विज्ञाननाडी अर्थात् इडा और पिंगलाको दो अंगुलीसे निरोध करे ॥ ५४ ॥

मूलम्—सिद्धेस्तदाविर्भवति सुखरूपी निर-
ञ्जनः ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यो येन सि-
द्धो भवेत्खलु ॥ ५५ ॥

टीका—यह योग सिद्ध होनेसे साधकके हृदयमें सुखरूपी निरञ्जन परब्रह्म चैतन्यस्वरूपका प्रकाशहोगा इसहेतुसे यह योगमें साधकको परिश्रम कर्तव्य है, इससे निश्चय यह योग सिद्ध होजायगा ॥ ५५ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं तस्य सिद्धि-
र्न दूरतः ॥ वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य क्रमादेव
न संशयः ॥ ५६ ॥

टीका—जो मनुष्य इस योगका सर्वदा अभ्यास करे-
गा उसको सर्वसिद्धि प्राप्त होगी और निश्चय आपही
क्रमसे वायु सिद्ध होजायगा ॥ ५६ ॥

मूलम्—सकृद्यः कुरुते योगी पापौघं नाशये-
द्भुवम् ॥ तस्य स्यान्मध्यमे वायोः प्रवेशो
नात्र संशयः ॥ ५७ ॥

टीका—जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास
करे तो उसके सर्व पापोंका नाश होजायगा और उसका
प्राणवायु निश्चय सुषुम्णामें प्रवेश करेगा ॥ ५७ ॥

मूलम्—एतदभ्यासशीलो यः स योगी देव-

(१४२) शिवसंहिता भाषाटकासमता ।

पूजितः ॥ अणिमादिगुणाल्लुब्ध्वा विचरे-
द्वनत्रये ॥ ५८ ॥

टीका—यह अभ्यासशील योगी देवतोंसे पूजित है और अणिमादिक सिद्धि लाभ करके तीनों लोकमें इच्छापूर्वक विचरेगा ॥ ५८ ॥

मूलम्—यो यथास्यानिलाभ्यासात्तद्भवेत्त-
स्य विग्रहः ॥ तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः
क्रीडते भृशम् ॥ ५९ ॥

टीका—जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उसी तरह साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा और बुद्धिमान पुरुष आत्मामें स्थितहोके सर्वदा क्रीडा करेगा ॥ ५९ ॥

मूलम्—एतद्योगं परं गोप्यं न देयं यस्य
कस्यचित् ॥ यःप्रमाणैः समायुक्तस्तमेव
कथ्यते ध्रुवम् ॥ ६० ॥

टीका—यह योग परमगोपनीयहै अनधिकारीको कदापि देनेके योग्य नहीं है परन्तु प्रमाणयुक्त अर्थात् पूर्वोक्त लक्षणयुक्त साधकको अवश्य देना उचितहै ॥ ६० ॥

मूलम्—योगी पद्मासने तिष्ठेत्कण्ठकूपे य-
दा स्मरन् ॥ जिह्वां कृत्वा तालुमूले क्षुत्पि-
पांसा निवर्तते ॥ ६१ ॥

टीका-पद्मासनस्थित योगी जब कण्ठकूपका स्मरण अर्थात् उस स्थानमें मनको लय करके जिह्वाको तालुमूलमें स्थित करेगा तब क्षुधा और पिपासासे रहित हो जायगा ॥ ६१ ॥

मूलम्-कण्ठकूपाद्धः स्थाने कूर्मनाड्य-
स्ति शोभना ॥ तस्मिन् योगी मनो दत्त्वा
चित्तस्थैर्यं लभेद्भ्रूशम् ॥ ६२ ॥

टीका-कंठकूपके नीचे कूर्मनाडी शोभित है उस नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी स्थिरता पावेगा ॥ ६२ ॥

मूलम्-शिरःकपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तये-
द्यदा ॥ तदा ज्योतिःप्रकाशः स्याद्विद्युत्पु-
ञ्जसमप्रभः ॥ ६३ ॥ एतच्चिन्तनमात्रेण पा-
पानां संक्षयो भवेत् ॥ दुराचारोऽपि पुरुषो
लभते परमं पदम् ॥ ६४ ॥

टीका-शिर कपालमें जो रुद्राक्ष विवर है उसमें यदि चिंतना करे तो विद्युत्पुञ्जके समान आत्मज्यो-
तिका प्रकाश होगा और इसके चिन्तनमात्रसे योगीका सर्व पाप नष्ट होजायगा. यदि दुराचारमेंभी जो पुरुष
आसक्त है वहभी परमगतिको प्राप्त होगा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

(१४६) शिवसंहिता आषाढीकासमेता ।

टीका—बुद्धिमान् योगी भूमिमें उत्तानशयन करके निरन्तर ध्यान करे तो तत्काल आपही श्रमका नाश होजायगा और शिरके पृष्ठभागका ध्यान करनेसे योगी मृत्युका जीतनेवाला होजायगा और भ्रूके मध्यमें जो दृष्टिमात्रसे फल होताहै सो हेदेवि ! हम पहले कह चुके हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

मूलम्—चतुर्विधस्य चात्रस्य रसस्त्रेधा वि-
भज्यते ॥ तत्र सारतमो लिंगदेहस्य परि-
पोषकः ॥ ७३ ॥ सप्तधातुमयं पिण्डमे-
ति पुष्पाति मध्यगः ॥ याति विण्मूत्र-
रूपेण तृतीयः सप्ततो वहिः ॥ ७४ ॥ आ-
द्यभागद्वयं नाड्यः प्रोक्तास्ताः सकला
अपि ॥ पोषयन्ति वपुर्वायुमापादतल-
मस्तकम् ॥ ७५ ॥

टीका—चार विधि अन्नभोजन करनेसे तीनप्रकार-
का रस उत्पन्नहोताहै उसमें जो प्रथम सारभूत रस है
वह लिङ्गशरीरको पोषण करता है और जो दूसरा
रस है वह सप्तधातुमय पिण्डको पोषण करताहै और
तीसरा रस सप्तधातुके बाहर मल मूत्ररूप है पादिले
जो दोभाग रस कहाहै वही सकल नाडीरूप है और

पादसे लेकर मस्तकपर्यंत शरीरके वायुका पोषणकरते हैं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

मूलम्-नाडीभिराभिः सर्वाभिर्वायुः सञ्चरते यदा ॥ तदैवान्नरसो देहे साम्येनेह प्रवर्तते ॥ ७६ ॥

टीका-जब सब नाडीके साथ वायु चलताहै तब अन्नका रस शरीरमें समभावेसे प्रवृत्त होता है ॥ ७६ ॥

मूलम्-चतुर्दशानां तत्रेह व्यापारे मुख्यभागतः ॥ ता अनुग्रत्वहीनाश्च प्राणसञ्चारनाडिकाः ॥ ७७ ॥

टीका-सर्व नाडियोंमें पूर्वोक्त चौदह नाडी शरीरके मुख्य व्यापारको करतीहैं यह प्राण सञ्चार करनेवाली चौदह नाडीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून अधिक नहीं है ॥ ७७ ॥

मूलम्-गुदाद्वयंगुलतश्चोर्ध्वं मेढ्रकांगुलतस्त्वधः ॥ एवञ्चास्ति समं कन्दं समता चतुरंगुलम् ॥ ७८ ॥

टीका-गुदासे दो अङ्गुल ऊपर और मेढ्र अर्थात् लिङ्गमूलसे एक अंगुल नीचे चार अंगुल विस्तारकन्दका प्रमाण है ॥ ७८ ॥

(१४८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-पश्चिमाभिमुखी योनिर्गुदमेढ्रान्त-
रालगा ॥ तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति
कुण्डली सदा ॥ ७९ ॥ संवेष्ट्य सकला
नाडीः सार्द्धत्रिकुटिलाकृतिः ॥ मुखे निवे-
श्य सा पुच्छं सुपुम्णाविवरे स्थिता ॥ ८० ॥

टीका-गुदा और मेढ्रके मध्यमें जो योनि है वह
पश्चिमाभिमुखी अर्थात् पीछेको मुख है उसी स्थानमें
कन्दहै और उसी स्थानमें सर्वदा कुण्डलीकी स्थिति है
यह कुण्डली सकल नाडीको घेरके साठे तीन फेर
कुटिल आकृतिसे अपने मुखमें पुच्छको लेके सुपुम्णा
विवरमें स्थित है ॥ ७९ ॥ ८० ॥

मूलम्-सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती
प्रभया स्वया ॥ अहिवत्सन्धिसंस्थाना
वाग्देवी बीजसंज्ञिका ॥ ८१ ॥

टीका-यह कुण्डलिनी सर्पके समान निद्रिता
प्रभासे प्रकाशमान है और सर्पके सदृश सन्धि-
स्थित है और वाग्देवी है अर्थात् कुण्डलिनीहीसे
उच्चारण होता है और बीज संज्ञक है अर्थात् सं-
बीज है ॥ ८१ ॥

मूलम्-ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्मला स्वर्ण

भास्वरा॥सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयप्र-
सूतिका ॥ ८२ ॥

टीका—यह कुण्डलिनी देवी ईश्वरकी शक्तिमें तप्त स्वर्णके समान निर्मल तेजप्रभा है और सत्त्व, रज, तम, यह तीनों गुणकी माता है ॥ ८२ ॥

मूलम्—तत्र बन्धूकपुष्पाभं कामबीजं प्रकी-
र्तितम् ॥ कलहेमसमं योगे प्रयुक्ताक्षररू-
पिणम् ॥ ८३ ॥

टीका—जिस स्थानमें कुण्डलिनी है उसी स्थानमें बन्धूकपुष्पके समान रक्तवर्ण कामबीजकी स्थिति कही गई है वह कामबीज तप्तस्वर्णके समान स्वरूप-योगयुक्तद्वारा चिंतनीय है ॥ ८३ ॥

मूलम्—सुपुम्णापि च संश्लिष्टा बीजं तत्र वरं
स्थितम् ॥ शरच्चंद्रनिभं तेजस्स्वयमेतत्स्फु-
रत्स्थितम् ॥ ८४ ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं च-
न्द्रकोटिसुशीतलम् ॥ एतन्नयं मिलित्वैव
देवी त्रिपुरभैरवी ॥ बीजसंज्ञं परं तेजस्तदे-
व परिकीर्तितम् ॥ ८५ ॥

टीका—जिस स्थानमें कुण्डलिनी स्थित है सुपुम्णा उसी स्थानमें कामबीजके साथ स्थित है और वह बीज

(१५०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

शरच्चन्द्रके समान प्रकाशमान तेज है और वह आप-
ही कोटि सूर्यके समान प्रकाश और कोटिचन्द्रके समान
शीतल है यह तीनों मिलके अर्थात् कुण्डलिनी सुषुम्णा,
बीजकुण्डलिनीका नाम त्रिपुरभैरवी देवी है यह कुण्ड-
लिनी परमतेजमान है और उसकी बीजसंज्ञा है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

मूलम्—क्रियाविज्ञानशक्तिभ्यां युतं यत्प-
रितो भ्रमत् ॥ ८६ ॥ उत्तिष्ठद्विशतस्त्वम्भः
सूक्ष्मं शोणशिखायुतम् ॥ योनिस्थं तत्परं
तेजः स्वयंभूर्लिंगसंज्ञितम् ॥ ८७ ॥

टीका—वह बीज क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्तिसे युक्त
होके शरीरमें भ्रमण करता है और कभी ऊर्ध्वगामी हो-
ता है और कभी जलमें प्रवेश करता है और सूक्ष्म प्रज्व-
लित अग्निके समान शिखायुत परमतेजवीर्यकी स्थिति
योनिस्थानमें है और स्वयम्भू लिङ्गसंज्ञा है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

मूलम्—आधारपद्ममेतद्धि योनिर्यस्यास्ति
कन्दूतः ॥ परिस्फुरद्वादिसान्तचतुर्वर्णं
चतुर्दलम् ॥ ८८ ॥

टीका—यह जो कहा है इसको आधारपद्म कहते हैं
और इस पद्मके मूलमें योनिकी स्थिति है यह पद्म परम
प्रकाशमान-व-से स-तक अर्थात् व-श-प-स चारवर्ण
और चारदल करके शोभित है ॥ ८८ ॥

मूलम्-कुलाभिधं सुवर्णाभं स्वयम्भूलि-
ङ्गसंगतम् ॥ द्विरण्डो यत्र सिद्धोस्ति
डाकिनी यत्र देवता ॥८९॥ तत्पद्ममध्य-
गा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता ॥ त-
स्याऊर्ध्वे स्फुरत्तेजः कामबीजं भ्रमन्मत-
म् ॥ ९० ॥ यः करोति सदा ध्यानं मूला-
धारे विचक्षणः ॥ तस्य स्यादादुरी सिद्धि-
र्भूमित्यागक्रमेण वै ॥ ९१ ॥

टीका-वह कमल कुलाभिध है अर्थात् कुलनाम है
और स्वर्णके समान कांतिहै और स्वयंभूलिङ्गसे युक्त
है और उस पद्ममें द्विरण्डनामक सिद्ध और डाकिनी
देवता अधिष्ठात्री है और गणेश देवता है और उस
पद्मके मध्यमें योनि है उस योनिमें कुण्डलिनीकी स्थि-
तिहै और उस कुण्डलिनीके ऊपर दीप्तिमान् तेजस्व-
रूप कामबीज भ्रमण करताहै जो बुद्धिमान् पुरुष इस
मूलाधार पद्मका सर्वदा ध्यान करते हैं उनको दादुरी
वृत्ति सिद्ध होती है और क्रमसे भूमिको त्यागके आ-
काशगमन करते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥

मूलम्-वपुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराग्निविव-

(१५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

धनम् ॥ आरोग्यञ्च पटुत्वञ्च सर्वज्ञत्वञ्च
जायते ॥ ९२ ॥

टीका—यह ध्यान करनेसे शरीरमें उत्तम कांति होती है और जठराग्नि वर्धित होता है और शरीर आरोग्य रहता है और पटुता और सर्वज्ञता अर्थात् सर्व वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२ ॥

मूलम्—भूतं भव्यं भविष्यञ्च वेत्ति सर्वं सका-
रणम् ॥ अश्रुतान्यपि शास्त्राणि सरहस्यं
वदेद्भुवम् ॥ ९३ ॥

टीका—फिर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकाल और सर्व वस्तुके कारणका ज्ञान होता है और जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किया है उसको रहस्यसहित व्याख्या करनेकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती है ॥ ९३ ॥

मूलम्—वक्त्रे सरस्वती देवी सदा नृत्यति नि-
र्भरम् ॥ मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य जपादेव न
संशयः ॥ ९४ ॥

टीका—योगीके मुखमें सर्वदा निरंतर सरस्वती देवी नृत्य करती है और योगीकी जपमात्रसे मन्त्रादिकी सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं है ॥ ९४ ॥

मूलम्—जरामरणदुःखौघान्नाशयति गुरोर्व-

चः ॥ इदं ध्यानं सदा कार्यं पवनाभ्यासि-
ना परम् ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मु-
च्यते सर्वकिल्बिपात् ॥ ९५ ॥

टीका—गुरुका वचन जरा मृत्यु आदि जो दुःखका समूह है उसको नाश करदेताहै पवनाभ्यासी साधकको यह परमध्यान सर्वदा करनेके योग्य है ध्यानमात्रसे योगीन्द्र सर्वपापसे मुक्त होजाताहै ॥ ९५ ॥

मूलम्—मूलपद्मं यदा ध्यायेद्योगी स्वायं-
म्भुलिङ्गकम् ॥ तदा तत्क्षणमात्रेण पापौ-
घं नाशयेद्भुवम् ॥ ९६ ॥

टीका—योगी जब मूलाधार पद्म स्वयम्भूलिङ्गसंयु-
क्तका ध्यानकरे तो उसीक्षण निश्चय पापके समूहका नाश करदेगा ॥ ९६ ॥

मूलम्—यं यं कामयते चित्ते तं तं फलमवा-
प्नुयात् ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्तं पश्यति
विमुक्तिदम् ॥ ९७ ॥ बहिरभ्यन्तरे श्रेष्ठं पू-
जनीयं प्रयत्नतः ॥ ततः श्रेष्ठतमं हेतव्ना-
न्यदस्ति मतं मम ॥ ९८ ॥

टीका—जो साधक मूलाधार पद्मका ध्यान करते हैं वह अपने चित्तमें जो जो वस्तुकी इच्छा करते हैं सो सो

(१५४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

सर्व वस्तु उनको प्राप्त होती हैं और सर्वदा यत्नपूर्वक यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्तिदायी परमात्माको देखते हैं हे पार्वति ! इससे श्रेष्ठतम दूसरा योग नहीं है यह हमारा मत है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

मूलम्—आत्मसंस्थं शिवं त्यक्त्वा बहिःस्थं
यः समर्चयेत् ॥ हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य
भ्रमते जीविताशया ॥ ९९ ॥

टीका—मनुष्य शरीरस्थ शिवको त्यागके बाहरके देवताको पूजते हैं जैसे हाथके पिण्डको त्यागके जीवके रक्षार्थ अन्य पिण्डके हेतु लोग भ्रमण करते हैं ॥ ९९ ॥

मूलम्—आत्मलिंगार्चनं कुर्यादनालस्यं दि-
ने दिने ॥ तस्य स्यात्सकलसिद्धिर्नात्र
कार्या विचारणा ॥ १०० ॥ निरन्तरकृता-
भ्यासात्पण्मासैः सिद्धिमाप्नुयात् ॥ तस्य
वायुप्रवेशोपि सुपुम्णायाम्भवेद्भ्रुवम् ॥
॥ १०१ ॥ मनोजयञ्च लभते वायुविन्दु-
विधारणात् ॥ ऐहिकामुष्मिकीसिद्धिर्भ-
वेन्नैवात्र संशयः ॥ १०२ ॥

टीका—जो आलस्यको त्यागके शरीरस्थ परमात्माका नित्य पूजन करेगा उसको सकलसिद्धि प्राप्त-

होगी इसमें संशय नहीं है यदि इसका अभ्यास निरन्तर करे तो छःमासमें सिद्धि प्राप्त होगी और उसके सुषुम्णानाडीमें निश्चय वायु प्रवेश करेगा और मनको जीतलेगा और वायु बिन्दुका धारण सिद्ध होगा और इसलोक और परलोककी सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

अथ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणम् ।

मूलम्—द्वितीयन्तु सरोजञ्च लिंगमूले व्यवस्थितम् ॥ वादिलान्तं च षड्वर्णं परिभास्वरपद्दलम् ॥ १०३ ॥ स्वाधिष्ठानाभिधं तत्तु पंकजं शोणरूपकम् ॥ वाणाख्यो यत्रासिद्धोऽस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी १०४

टीका—दूसरा पद्म जो लिङ्गमूलमें स्थित है वह व से लतक- अर्थात् व-भ-म-य-र-ल-यह छः वर्णोंकरके युक्त है और छः दलसे शोभित है यह रक्तवर्णपद्मका नाम स्वाधिष्ठान है और इस स्थानमें वाणनामक सिद्ध और राकिणी देवी अधिष्ठात्री है और ब्रह्मा देवता हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

मूलम्—यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविन्दकम् ॥ तस्य कामाङ्गनाः सर्वाभजन्ते काममोहिताः ॥ १०५ ॥

(१५६) शिवसंहिताभाषाटीकासमेता ।

टीका—जो पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्ठानपद्मका सर्वदा ध्यान करते हैं उनको कामरूपिणी स्त्री कामसे मोहित होके भजतीहैं अर्थात् सेवा करती हैं ॥ १०५ ॥

मूलम्—विविधश्चाश्रुतं शास्त्रं निःशङ्को वै व-
देद्भुवम् ॥ सर्वरोगविनिर्मुक्तो लोके चरति
निर्भयः ॥ १०६ ॥

टीका—विविधशास्त्र जो कभी श्रवण नहीं किय हो उसकोभी इस पद्मके ध्यानके प्रभावसे निःशंक कहेगा और सर्वरोगसे मुक्तहोके आनन्दपूर्वक संसारमें विचरेगा ॥ १०६ ॥

मूलम्—मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खा-
द्यते ॥ तस्य स्यात्परमा सिद्धिरणिमादि-
गुणप्रदा ॥ १०७ ॥ वायुः सञ्चरते देहे रस-
वृद्धिर्भवेद्भुवम् ॥ आकाशपङ्कजगलर्पायू-
षमपि वर्द्धते ॥ १०८ ॥

टीका—यह साधक मृत्युको नाश करदेताहै और वह किसीसे नष्ट नहीं होता और उस साधकको गुण देनेवाली अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं और उसके शरीरमें वायु संचार करताहै अर्थात् सुषुम्णामें प्रवेश करताहै और निश्चय रसकी वृद्धि होतीहै और सह-

स्रदलकमलसे जो अमृत स्रवताहै उसकी वृद्धि होती है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

अथ मणिपूरचक्रविवरणम् ।

मूलम्-तृतीयं पङ्कजं नाभौ मणिपूरकसंज्ञ-
कम् ॥ दशारंढादिफान्तार्णं शोभितं हेमवर्ण
कम् ॥ १०९ ॥ रुद्राख्यो यत्र सिद्धोऽस्ति
सर्वमङ्गलदायकः ॥ तत्रस्था लाकिनी-
नाम्नी देवी परमधार्मिका ॥ ११० ॥

टीका-मणिपूरनामक तीसरा पद्म जो नाभिस्थलमें है वह हेमवर्ण दशदलकरके शोभितहै और-ड-से फ-तक अर्थात् ड-ढ-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ-यह दश-वर्णसे युक्त है और उस स्थानमें सर्वमंगलदाता रु-द्रनामक सिद्ध और लाकिनी देवी अधिष्ठात्री और विष्णुदेवता हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥

मूलम्-तस्मिन् ध्यानं सदा योगी करोति
मणिपूरके ॥ तस्य पातालसिद्धिः स्यान्नि-
रन्तरसुखावहा ॥ १११ ॥ ईप्सितञ्च भवे-
ल्लोके दुःखरोगविनाशनम् ॥ कालस्य व-
ञ्चनञ्चापि परदेहप्रवेशनम् ॥ ११२ ॥

टीका-जो साधक इस मणिपूरचक्रको सर्वदा ध्या-

(१५८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

न करतेहैं सो सर्वसिद्धिदात्री जो पातालसिद्धि है उसको लाभ करतेहैं और उनका दुःख रोगविनाश होके सकल मनोरथ सिद्ध होतेहैं और कालको निरादर कर देतेहैं और परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १११ ॥ ११२ ॥

मूलम्—जाम्बूनदादिकरणं सिद्धानां दर्शनं भवेत् ॥ ओषधीदर्शनञ्चापि निधीनां दर्शनं भवेत् ॥ ११३ ॥

टीका—यह साधकको स्वर्णआदि रचना करनेकी शक्ति होतीहै और देवतोंका दर्शन और निधि और ओषधीका दर्शन होताहै ॥ ११३ ॥

मूलम्—हृदयेऽनाहतनाम चतुर्थं पङ्कजं भवेत् ॥ ११४ ॥ कादिठान्तार्णसंस्थानं द्वादशारसमन्वितम् ॥ अतिशोणं वायुबीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥ ११५ ॥

टीका—हृदयस्थानमें जो अनाहतनामक चतुर्थ पद्म है वह क-से-ठ-तक अर्थात् क-ख-ग-घ-ङ-च-छ-ज-झ-झ-ट-ठ-यह चारह वर्ण और चारहदलसे युक्त है और अति उज्ज्वल रक्तवर्णसे शोभायमान है और

वह प्रसन्नस्थान वायुका बीज अर्थात् प्राणवायुका आधार है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

मूलम्-पद्मस्थं तत्परं तेजो वाणलिंगं
प्रकीर्तितम् ॥ यस्य स्मरणमात्रेण दृष्टा-
दृष्टफलं लभेत् ॥ ११६ ॥

टीका-उस हृदयकमलमें जो परमतेज है उसीको वाणलिङ्ग कहते हैं जिसके ध्यानमात्रसे साधक इस लोक और परलोकका उत्तमफल आनंदपूर्वक लाभ करते हैं ॥ ११६ ॥

मूलम्-सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी
यत्र देवता ॥ एतस्मिन्सततं ध्यानं ह-
त्पाथोजे करोति यः ॥ क्षुभ्यन्ते तस्य
कान्ता वै कामार्ता दिव्ययोपितः ॥११७॥

टीका-जिस पद्ममें पिनाकी सिद्ध और काकिनी देवी अधिष्ठात्री हैं उस हृदयस्थपद्ममें जो साधक सर्वदा ध्यान करताहै उसके समीप कामार्ता सुन्दर स्त्री अप्सरा आदि मोहित होजाती हैं ॥ ११७ ॥

मूलम्-ज्ञानश्चाप्रतिमं तस्य त्रिकालवि-
पयम्भवेत् ॥ दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिः स्वेच्छया
खगतां व्रजेत् ॥ ११८ ॥

(१६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वशो भवेत् ॥ तदा समस्तं त्रैलोक्यं कम्प-
ते नात्र संशयः ॥ १२५ ॥

टीका—यह विशुद्धपद्ममें जब योगी मन और प्राणको स्थित करके यदि क्रोध करे तो अवश्य चराचर त्रैलोक्य कम्पायमान होजाय इसमें सन्देह नहीं ॥ १२५ ॥

मूलम्—इह स्थाने मनो यस्य दैवाद्याति
लयं यदा ॥ तदा बाह्यं परित्यज्य स्वा-
न्तरे रमते ध्रुवम् ॥ १२६ ॥

टीका—यह कमलमें साधकका मन दैवात् जब लय होताहै तब सकल बाह्यविषयको त्यागके योगीका मन और प्राण शरीरके अंतरहीमें निश्चय रमण करताहै ॥ १२६ ॥

मूलम्—तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य
शक्तिः ॥ संवत्सरसहस्रेऽपि वज्रातिक-
ठिनस्य वै ॥ १२७ ॥ यदा त्यजति त-
द्व्यानं योगीन्द्रोऽवनिमण्डले ॥ तदा वर्ष-
सहस्राणि मन्यते तत्क्षणं कृती ॥ १२८ ॥

टीका—उस योगीका शरीर वज्रसेभी कठोर होजाताहै और उसके स्वशरीरकी शक्तिसे किसीप्रकारकी हानि नहीं होतीहै और सहस्रवर्ष समाधिके पीछे जब

उस ध्यानको छोड़के योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें आवेगी तब उस सहस्रवर्षके योगी एकक्षण व्यतीत भया मानेगा ॥ १२७ ॥ १२८ ॥

अथ आज्ञाचक्रविवरणम् ।

मूलम्—आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हक्षोपेतं द्विपत्रकम् ॥ शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥ १२९ ॥

टीका—भ्रूके मध्यमें जो आज्ञापद्म है उसमें हं-सं-दो बीज हैं और सुंदर श्वेतवर्ण दो पत्र हैं और उस स्थानमें महाकाल सिद्ध है और हाकिनीदेवी अधिष्ठात्री और परमात्मा देवता है ॥ १२९ ॥

मूलम्—शरच्चंद्रनिभं तत्राक्षरबीजं विजृम्भितं ॥ पुमान् परमहंसोऽयं यज्ज्ञात्वा नावसीदति ॥ १३० ॥ तत्र देवः परन्तेजः सर्वतन्त्रेषु मन्त्रिणः ॥ चिन्तयित्वा परां सिद्धिं लभते नात्र संशयः ॥ १३१ ॥

टीका—उस आज्ञापद्मके मध्यमें शरच्चंद्रके समान परमतेज चंद्रबीज अर्थात् ठं बीज विराजमान है इसके ज्ञान होनेसे परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नहीं होता यह परमतेजका प्रकाश सर्वतंत्रोंकरके गो-

(१६४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

पित है इसके चितनमात्रसे अवश्य परम सिद्धिलाभ होताहै ॥ १३० ॥ १३१ ॥

मूलम्—तुरीयं त्रितयं लिंगं तदाहं मुक्तिदा-
यकः ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो
भवति ध्रुवम् ॥ १३२ ॥

टीका—हे पार्वती ! उस स्थानमें तुरीया तृतीयलिंग हमीं मुक्तिके दाता हैं इसके ध्यानमात्रसे योगीन्द्र निश्चय हमारे तुल्य होजायगा ॥ १३२ ॥

मूलम्—इडा हि पिंगला ख्याता वरणासीति
होच्यते ॥ वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वना-
थोत्र भाषितः ॥ १३३ ॥

टीका—इस शरीरमें जो दो इडा और पिंगला ना-
डी हैं उनको वरणा और असी कहते हैं यह वरणा और
असिके मध्यमें स्वयं विश्वनाथजी विराजमान हैं. ता-
त्पर्य यह है कि , यह इडा और पिंगलाके मध्यमें जो
स्थानहै उसीको शिवजीने वाराणसी कहाहै ॥ १३३ ॥

मूलम्—एतत्क्षेत्रस्य माहात्म्यमृपिभिस्त-
त्त्वदर्शिभिः ॥ शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्तं परं
तत्त्वं सुभाषितम् ॥ १३४ ॥

टीका—यह वाराणसी क्षेत्रके माहात्म्यको तत्त्वद-

शीं ऋषिलोगोंने अनेक शास्त्रोंमें बहुत प्रकारसे परम-
तत्त्व कहाहै ॥ १३४ ॥

मूलम्-सुपुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्ध्रं य-
तोऽस्ति वै ॥ ततश्चैषा परावृत्त्य तदाज्ञा-
पद्मदक्षिणे ॥ १३५ ॥ वामनासापुटं या-
ति गंगेति परिगीयते ॥ १३६ ॥

टीका-सुपुम्णानाडी मेरुदंडद्वारा जहां ब्रह्मरन्ध्र है
उस स्थानमें गई है और इडानाडी मेरुतक जायके
लौटीहै और आज्ञाचक्रके दक्षिणभाग होके वामनासापु-
टको गई है इसको गङ्गा कहतेहैं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

मूलम्--ब्रह्मरन्ध्रे हि यत्पद्मं सहस्रारं व्यव-
स्थितम् ॥ तत्र कन्देहि या योनिस्तस्यां च-
न्द्रो व्यवस्थितः ॥ १३७ ॥ त्रिकोणाकार-
तस्तस्याः सुधा क्षरति सन्ततम् ॥ इडायाम-
मृतं तत्र समं स्रवति चन्द्रमाः ॥ १३८ ॥
अमृतं वहति द्वारा धारारूपं निरन्तरम् ॥
वामनासापुटं याति गंगेत्युक्ता हि यो-
निभिः ॥ १३९ ॥

टीका-ब्रह्मरन्ध्रमें जो सहस्रदल पद्म है उस पद्मके
कन्दमें योनि है उस योनिमें चन्द्रमा विराजमान है

(१६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

और वही त्रिकोणाकार योनीसे चन्द्रविगलित अमृत सर्वदा स्रवता है सो अमृत चंद्रमासे इडानाडीद्वारा समभावसे निरन्तर धारारूप गमन करता है और उस इडानाडीकी गति वामनासापुटमें है उस हेतुसे योगी लोग इस नाडीको गंगा कहतेहैं ॥१३७॥१३८॥१३९॥

मूलम्—आज्ञापङ्कजदक्षांसाद्रामनासापुटंग-
ता ॥ उदग्वाहेति तत्रेडा गंगेति समुदा-
हता ॥ १४० ॥

टीका—वह इडानाडी आज्ञापङ्कके दक्षिणभागसे वामनासापुटको गमन करती है इसीको उदग्वाहिनी गंगा कहते हैं ॥ १४० ॥

मूलम्—ततो द्वयोर्हि मध्ये तु वाराणसी वि-
चिन्तयेत् ॥ तदाकारा पिङ्गलापि तदाज्ञा-
कमलोत्तरे ॥ दक्षनासापुटे याति प्रोक्ता-
स्माभिरसीति वै ॥ १४१ ॥

टीका—यह इडा और पिङ्गलाके मध्यस्थानको वाराणसी चिन्तनाकरे और इडानाडीके समान पिङ्गलाभी उस आज्ञाकमलके वामभागसे दक्ष नासापुटको गई है इस हेतुसे देवदेवी ! इस पिङ्गलाको हमने असी कहा है ॥ १४१ ॥

मूलम्-मूलाधारे हि यत्पद्मं चतुष्पत्रं व्यव-
स्थितम्॥तत्र कन्देस्ति या योनिस्तस्यां
सूर्यो व्यवस्थितः ॥ १४२ ॥

टीका-जो मूलाधारपद्म चारदलसे युक्तहै उस कमल-
के कन्दमें जो योनिहै इस योनिमें सूर्य स्थितहै ॥१४२॥

मूलम्-तत्सूर्यमण्डलद्वाराद्विपं क्षरति
सन्ततम्॥१४३॥पिंगलायां विपं तत्र सम-
र्पयति तापनः ॥ विपं तत्र वहन्ती या धा-
रारूपं निरन्तरम् ॥ दक्षिणासापुटे याति
कल्पितेयन्तु पूर्ववत् ॥ १४४ ॥

टीका-वही सूर्यमण्डलसे निरन्तर विप स्रवताहै
और पिङ्गलाद्वारा गमन करताहै और वह विप सर्वदा
धारारूप पिङ्गलानाडीसे प्रवाहित रहताहै और यह
पिङ्गलानाडी दक्षिणासापुटमें गईहै ॥ १४३ ॥१४४ ॥

मूलम्-आज्ञापङ्कजवामास्यादक्षिणासापुटं
गता ॥ उदग्गवहांपिंगलापि पुरासीति
प्रकीर्तिता ॥ १४५ ॥

टीका-यह नाडी आज्ञाकमलके वामभागसे दक्षिण
नासिकापुटको गईहै इस हेतुसे यह पिङ्गलानाडीको
असी कहते हैं ॥ १४५ ॥

(१६८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—आज्ञापद्ममिदं प्रोक्तं यत्र देवो महेश्वरः ॥ १४६ ॥ पीठत्रयं ततश्चोर्ध्वं निरुक्तं योगचिन्तकैः ॥ तद्विन्दुनादशक्त्याख्यं भालपद्मे व्यवस्थितम् ॥ १४७ ॥

टीका—इस स्थानमें महेश्वर देवताहै इसको आज्ञापद्म कहते हैं और योगचिन्तक लोग कहते हैं कि, इस पद्मके ऊपर पीठत्रयकी स्थिति है अर्थात् नाद, विंदु, शक्ति, यह तीनों इस भालपद्ममें विराजमान हैं ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

मूलम्—यः करोति सदा ध्यानमाज्ञापद्मस्य गोपितम् ॥ पूर्वजन्मकृतं कर्म विनश्यदविरोधतः ॥ १४८ ॥ ॥

टीका—जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञाकमलका ध्यान करते हैं उनका पूर्वजन्मकृत कर्मफल सकल निर्विघ्न नाश होजाताहै ॥ १४८ ॥

मूलम्—इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यान्निरन्तरम् ॥ तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापमनर्थवत् ॥ १४९ ॥

टीका—जब योगी यह ध्यान सर्वदा निरन्तर करे

तो उसका प्रतिमापूजन करना वा जप करना सर्वथा अनर्थवत् है ॥ १४९ ॥

मूलम्—यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नराः ॥ सेवन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य वशानुगाः ॥ १५० ॥

टीका—यक्ष और राक्षस और गन्धर्व और अप्सरा और किन्नर आदि सब इस ध्यानयुक्त योगीके वशमें होजाते हैं और उसके चरणकी सेवा करते हैं ॥ १५० ॥

मूलम्—करोति रसनां योगी प्रविष्टां विपरीतगाम् ॥ लम्बिकोर्ध्वेषु गर्तेषु धृत्वा ध्यानं भयापहम् ॥ १५१ ॥ अस्मिन् स्थाने मनो यस्य क्षणार्धं वर्ततेऽचलम् ॥ तस्य सर्वाणि पापानि संक्षयं यान्ति तत्क्षणात् ॥ १५२ ॥

टीका—जो योगी विपरीतगामी जिह्वाको ऊपर तालुमूलमें प्रवेश करके यह भयनाशक आज्ञाकमलका ध्यान अर्धक्षणभी मन अचल स्थिरतापूर्वक करते हैं उनका सकल पातक उसीक्षण नाश होजाताहै ॥ १५१ ॥ १५२ ॥

मूलम्—यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्मे फ-

(१७०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

लानि वै ॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञा-
नाद्भवन्ति हि ॥ १५३ ॥

टीका—पंच पद्मका जो जो फल पहिले कहाहे सो
सबका समस्त फल आपही इस आज्ञाकमलके ध्यान-
सेही प्राप्त होजायगा ॥ १५३ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासमाज्ञापद्मे वि-
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्धं तिरस्कृ-
त्य प्रमोदते ॥ १५४ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् सर्वदा मन स्थिर करके यह
आज्ञापद्मका अभ्यास करते हैं वह वासनारूपी महा-
बन्धको निरादर करके आनन्द लाभ करते हैं ॥ १५४ ॥

मूलम्—प्राणप्रयाणसमये तत्पद्मं यः स्मर-
न्सुधीः ॥ त्यजेत्प्राणं स धर्मात्मा परमा-
त्मनि लीयते ॥ १५५ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् मृत्युके समय उस आज्ञापद्म-
का ध्यान करेगा सो धर्मात्मा प्राणको त्यागके परमा-
त्ममें लय होजायगा ॥ १५५ ॥

मूलम्—तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् जाग्रत् यो-
ध्यानं कुरुते नरः ॥ पापकर्म विकुर्वाणो
नहि मज्जति किलिबषे ॥ १५६ ॥

टीका—जो मनुष्य बैठे चलते जाग्रतमें स्वप्नमें सर्वदा इस कमलका ध्यान करते हैं सो यदि पापकर्म रतभी हों तोभी मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥

मूलम्—राजयोगाधिकारी स्यादेतच्चिन्तन-
तो ध्रुवम्॥योगी बन्धाद्भिनिर्मुक्तः स्वीयया
प्रभया स्वयम् ॥१५७॥ द्विदलध्यानमा-
हात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ॥ ब्रह्मादिदे-
वताश्चैव किञ्चिन्मत्तो विदन्ति ते ॥१५८॥

टीका—जो इस कमलका ध्यान करता है वह निश्चय राजयोगका अधिकारी है योगी स्वयं अपने प्रभासे सकलबन्धसे मुक्त होजाता है हे देवि ! इस द्विदलपद्मके माहात्म्यको कोई कहनेमें समर्थ नहीं है ब्रह्मा आदि देवता इस पद्मके माहात्म्यको किञ्चित् हमारे द्वारा जानते हैं ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

मूलम्—अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरु-
हम् ॥ अस्ति यत्र सुपुम्णाया मूलं सविव-
रं स्थितम् ॥ १५९ ॥

टीका—इस आज्ञापद्मके ऊपर तालुमूलमें सहस्र-
दल कमल शोभायमान है उसी स्थानमें ब्रह्मरन्ध्रके
विवरमूलमें सुपुम्णा स्थित है ॥ १५९ ॥

(१७२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-तालुमूले सुपुम्णास्य अधोवक्त्रा प्रव-
र्तते ॥ मूलाधारेण योन्यस्ताः सर्वनाड्यः
समाश्रिताः ॥ ता वीजभूतास्तत्त्वस्य ब्र-
ह्ममार्गप्रदायिकाः ॥ १६० ॥

टीका-वह सुपुम्णाका मुख तालुमूल अर्थात् ब्र-
ह्मरन्ध्रमें नीचेको वर्तमान है और मूलाधारसे योनि
पर्यंत जो सकल नाडी हैं वह इस तत्त्वज्ञानवीजस्वरूप
ब्रह्ममार्गकी दाता सुपुम्णाके अधोवदनके अवलम्बसे
स्थित हैं ॥ १६० ॥

मूलम्-तालुस्थाने च यत्पद्मं सहस्रारं पुरो-
दितम् ॥ तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमा-
भिमुखी मता ॥ १६१ ॥ तस्य मध्ये सुपु-
म्णाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥ ब्रह्मरन्ध्रं
तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम् ॥ १६२ ॥

टीका-तालुस्थानमें जो सहस्रदल कमल कहाग-
या है उसके कन्दमें एक योनि पश्चिमाभिमुखी है अर्थात्
पीछेको मुख है उस योनिके मध्यमें जो मूलविवर है उसमें
सुपुम्णा ज्ञाननाडी स्थित है हे देवी ! इसको ब्रह्मरन्ध्र और
इसीको मूलाधारपद्मभी कहते हैं ॥ १६१ ॥ १६२ ॥

मूलम्-तत्रांतरन्ध्रे चिच्छक्तिः सुपुम्णा कु-

ण्डली सदा ॥१६३॥ सुषुम्णायां स्थिता
नाडी चित्रास्यान्मम वल्लभे ॥ तस्यां म-
म मते कार्या ब्रह्मरन्ध्रादिकल्पना ॥१६४॥

टीका—यह सुषुम्णानाडीके रन्ध्रमें कुण्डलिनी शक्ति सर्वदा विराजमान है वह सुषुम्णा अन्तर्गता शक्तिको चित्रानाडी कहते हैं हे प्रिये पार्वति ! हमारे मतमें इसी चित्रासे ब्रह्मरन्ध्र आदि कल्पना भई है ॥१६३॥१६४॥

मूलम्—यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्र-
जायते ॥ पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरु-
षो भवेत् ॥ १६५ ॥

टीका—यह चित्रानाडीके ध्यानमात्रसे ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है और पाप क्षय होजाता है और फिर संसाररूपी बन्धमें योगी नहीं पडता अर्थात् मोक्ष होजाता है ॥ १६५ ॥

मूलम्—प्रवेशितं चलाङ्गुष्ठं मुखे स्वस्य निवे-
शयेत् ॥ तेनात्र न वहत्येव देहचारी स-
मीरणः ॥ १६६ ॥

टीका—दक्षिणहाथके अङ्गुष्ठको मुखमें प्रवेश कर-
के मुखको बन्द करलेनेसे देहचारी जो प्राणवायु है वह निश्चय स्थिर होजाता है ॥ १६६ ॥

(१७४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—तेन संसारचक्रेस्मिन्न भ्रमन्ते च सर्वदा ॥ तदर्थं ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे ॥ १६७ ॥ तत एवाखिला नाडी निरुद्धा चाष्टवेष्टनम् ॥ इयं कुण्डलिनी शक्ति रन्ध्रं त्यजति नान्यथा ॥ १६८ ॥

टीका—यह प्राणवायुके स्थिर होजानेसे इस संसार चक्रमें सर्वदा भ्रमण करना छूटजाता है अर्थात् मोक्ष होजाता है इसहेतुसे योगी प्राणवायुके धारण करनेमें प्रवृत्त होते हैं और इसधारणसे सकलनाडी जो मल और काम क्रोधादि आठप्रकारसे बन्धनमें हैं वह खुल जाती हैं तब यह कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मरन्ध्रको निश्चय त्याग देती है इसके त्यागदेनेसे जीव ब्रह्मका सम्बन्ध होजाता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

मूलम्—यदा पूर्णासु नाडीषु सन्निरुद्धानिलास्तदा ॥ बन्धत्यागेन कुण्डल्या मुखं रन्ध्राद्बहिर्भवेत् ॥ सुपुम्णायां सदैवायं बन्धेत्प्राणसमीरणः ॥ १६९ ॥

टीका—जब वायु निरोध होके सकलनाडीमें पूर्ण होजायगा तब कुण्डलिनी अपने बन्धको त्यागके ब्रह्मरन्ध्रके मुखको त्यागदेगी तब प्राणवायुका

प्रवाह सदैव सुषुम्णामें होजायगा ॥ १६९ ॥

मूलम्-मूलपद्मस्थिता योनिर्वामदक्षिण-
कोणतः॥इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा यो-
निमध्यगा ॥ १७० ॥ ब्रह्मरन्ध्रन्तु तत्रैव
सुषुम्णाधारमण्डले ॥ यो जानाति स
मुक्तः स्यात्कर्मबन्धाद्विचक्षणः ॥१७१॥

टीका-मूलाधारपद्मस्थित जो योनि है उस योनिके
वाम दक्षिण भागमें इडा और पिंगला नाडी स्थित हैं
और दोनों नाडीके बीचमें अर्थात् योनिके मध्यमें
सुषुम्णाकी स्थिति है उसी सुषुम्णाके आधारमंडलमें
अर्थात् उसके मध्यमें ब्रह्मरन्ध्र है जो इसको जानता है
सो बुद्धिमान् कर्मबन्धसे मुक्त है ॥ १७० ॥ १७१ ॥

मूलम्-ब्रह्मरन्ध्रमुखे तासां संगमः स्याद-
संशयः॥ तस्मिन्स्नाने स्नातकानां मुक्तिः
स्यादविरोधतः ॥ १७२ ॥

टीका-ब्रह्मरन्ध्रके मुखमें इन तीनों नाडीका नि-
श्चय सम्बन्ध है इसमें स्नान करनेसे ज्ञानीलोगोंको
मुक्तिलाभ होगी ॥ १७२ ॥

मूलम्-गंगायमुनयोर्मध्ये वहत्येपा सरस्व-
ती ॥तासां तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति .
परांगतिम् ॥ १७३ ॥

(१७६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—गंगा यमुनाके मध्यमें सरस्वतीका प्रवाह है यह त्रिवेणीसंगममें स्नान करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥

मूलम्—इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्कपु-
त्रिका ॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां
संगोऽतिदुर्लभः ॥ १७४ ॥

टीका—इडा गंगा है और पिंगला यमुना है और मध्यमें सुषुम्णा सरस्वती है यह त्रिवेणी संगम कहा गया है इसका स्नान अतिदुर्लभ है ॥ १७४ ॥

मूलम्—सितासिते संगमे यो मनसा स्ना-
नमाचरेत् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो याति
ब्रह्मसनातनम् ॥ १७५ ॥

टीका—यह इडा और पिंगलाके संगममें मानसिक स्नान करनेसे साधक सर्व पापसे मुक्त होके सनातन ब्रह्ममें लय होजाता है ॥ १७५ ॥

मूलम्—त्रिवेण्यां संगमे यो वै पितृकर्म स-
माचरेत् ॥ तारयित्वा पितृन्सर्वान्स याति
परमां गतिम् ॥ १७६ ॥

टीका—जो पुरुष इस त्रिवेणीसंगममें पितृकर्मका

अनुष्ठान करते हैं वह सर्व पितृकुलको तारके परम गतिको लाभ करते हैं ॥ १७६ ॥

मूलम्-नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यः
समाचरेत् ॥ मनसा चिन्तयित्वा तु सोऽक्ष-
यं फलमाप्नुयात् ॥ १७७ ॥

टीका-उसी संगमस्थानमें जो साधक नित्य और नै-
मित्तिक और काम्य कर्मका अनुष्ठान सर्वदा मनसे चिन्त-
नपूर्वक करते हैं सो अक्षय फललाभ करते हैं ॥ १७७ ॥

मूलम्-सकृद्यः कुरुते स्नानं स्वर्गं सौख्यं भु-
नक्ति सः ॥ दग्ध्वा पापानशेषान् वै योगी
शुद्धमतिः स्वयम् ॥ १७८ ॥ अपवित्रः पवि-
त्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ॥ स्नानाचर-
णमात्रेण पूतो भवति नान्यथा ॥ १७९ ॥

टीका-जो पवित्रमति योगी एकवार इस संगममें
स्नान करते हैं वह सर्व पापको दग्धकरके स्वर्गका दिव्य
भोग भोगते हैं और यह साधक पवित्र हो वा अपवित्र
हो वा किसी अवस्थामें हो यह संगमके ध्यानरूपी
स्नानमात्रसे निश्चय पवित्र होजायगा ॥ १७८ ॥ १७९ ॥

मूलम्-मृत्युकाले प्लुतं देहं त्रिवेण्याःसलि-

(१७८) शिवसंहिता त्रिषाटीकासमेता ।

ले यदा ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्प्राणान्स
तदा मोक्षमाप्नुयात् ॥ १८० ॥

टीका—मृत्युके समयमें साधक जो यह चिंतन करे कि हमारा शरीर त्रिवेणीके सलिलमें मग्न है तो उसी क्षण प्राणको त्यागके मोक्षगतिको प्राप्त होगा ॥१८०॥

मूलम्—नातः परतरं गुह्यं त्रिषु लोकेषु विद्य-
ते ॥ गोप्तव्यं तत्प्रयत्नेन न व्याख्येयं
कदाचन ॥ १८१ ॥

टीका—इस तीर्थसे परे त्रिभुवनमें दूसरा गुप्त तीर्थ नहीं है इसको यत्नसे गोपित रखना उचित है यह कदा-
पि प्रकाश करनेके योग्य नहीं है ॥ १८१ ॥

मूलम्—ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्त्वा क्षणार्धं यदि
तिष्ठति ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति
परमां गतिम् ॥ १८२ ॥

टीका—ब्रह्मरन्ध्रमें मन देकरके यदि क्षणार्धभी स्थिर रक्खे तो सर्वपापसे मुक्त होके साधक परमगतिको अर्थात् मोक्षको प्राप्त होजाय ॥ १८२ ॥

मूलम्—अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी
मयि लीयते ॥ अणिमादिगुणान्भुक्त्वा स्वे-
च्छया पुरुषोत्तमः ॥ १८३ ॥

टीका—हे पार्वती ! इस ब्रह्मरन्ध्रमें जिसका मन लीन होय सो पुरुषोत्तम योगी अणिमादिगुणोंको भोगके इच्छापूर्वक हमारेमें लय होजायगा ॥ १८३ ॥

मूलम्—एतद्रन्ध्रध्यानमात्रेण मर्त्यः संसारे
स्मिन्बलुभो मे भवेत्सः ॥ पापान् जि-
त्वा मुक्तिमार्गाधिकारी ज्ञानं दत्त्वा तार-
यत्यद्भुतं वै ॥ १८४ ॥

टीका—हे देवी ! इस ब्रह्मरन्ध्रके ध्यानमात्रसे यह सं-
सारमें प्राणी हमको प्रिय होजाता है और पापराशिको
जीतके यह साधक मुक्तिमार्गका अधिकारी होजाता
है और अनेक मनुष्योंको ज्ञान उपदेश करके संसार-
से परित्राण करदेता है ॥ १८४ ॥

मूलम्—चतुर्मुखादित्रिदशैरगम्यं योगिवल्लु-
भम् ॥ प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्ब्रह्मरन्ध्रं म-
योदितम् ॥ १८५ ॥

टीका—हे देवी ! यह ब्रह्मरन्ध्रका ध्यान जो हमने
कहा है इसको यत्न करके गोपित रखना उचित है
यह ज्ञान योगीलोंको अतिप्रिय है इसका मार्ग ब्रह्मा
आदि देवताओंकोभी अगम्य है ॥ १८५ ॥

मूलम्—पुरा मयोक्ता या योनिः सहस्रारे स-

(१८०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

रोरुहे ॥ तस्याऽधो वर्तते चन्द्रस्तद्ध्यानं
क्रियते बुधैः ॥ १८६ ॥

टीका—हे देवि ! पहिले जो सहस्रदलकमलके मध्यमें योनिमण्डल हमने कहा है उस योनिके अधोभागमें चन्द्रमा स्थित हैं यह चन्द्रमण्डलका बुद्धिमान् लोग सर्वदा ध्यान करते हैं ॥ १८६ ॥

मूलम्—यस्य स्मरणमात्रेण योगीन्द्रोऽव-
निमण्डले ॥ पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां
सम्मतो भवेत् ॥ १८७ ॥

टीका—इस चन्द्रमण्डलके ध्यानमात्रसे योगीन्द्र संसारमें पूजनीय होजाता है और देवता और सिद्ध-
लोगोंके तुल्य होजाता है ॥ १८७ ॥

मूलम्—शिरःकपालविवरे ध्यायेद्गुग्धमहो-
दधिम् ॥ तत्र स्थित्वा सहस्रारं पद्मे चन्द्रं
विचिन्तयेत् ॥ १८८ ॥

टीका—शिरस्थित जो कपालविवर है उसमें क्षीर समुद्रका ध्यान करे उसी स्थानमें स्थितिपूर्वक सहस्र-
दलकमलमें चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥

मूलम्—शिरःकपालविवरे द्विरष्टकलयायु-
तः ॥ पीयूषभानुहंसारख्यं भावयेत्तं निरं-

जनम् ॥ १८९ ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्रि-
दिने पश्यति ध्रुवम् ॥ दृष्टिमात्रेण पापौघं
दहत्येव स साधकः ॥ १९० ॥

टीका—यह शिरःस्थित कपालविवरमें सोलह कलासं-
युक्त अमृतकिरणसे युक्त हंससंज्ञक निरंजनका चिन्तन
करे निरन्तर तीन दिन यह अभ्यास करनेसे निरञ्जनका
साक्षात् साधकको अवश्य प्रकाश होगा सो साधकदृष्टिमा-
त्रसे सर्व पातकोंको दहन करडालेगा ॥ १८९ ॥ १९० ॥

मूलम्—अनागतञ्च स्फुरति चित्तशुद्धिर्भवे-
त्खलु ॥ सद्यः कृत्वापि दहति महापात-
कपञ्चकम् ॥ १९१ ॥

टीका—यह ध्यान करनेसे अनागतविषयकी स्फूर्-
ति होगी अर्थात् जो विषय कभी उत्पन्न नहीं भया है
उसकी स्फूर्ति होगी और चित्तकी शुद्धि होगी और सा-
धक ध्यानमात्रसे उसी क्षण पञ्चमहापातक दहन कर-
डालेगा ॥ १९१ ॥

मूलम्—आनुकूल्यं ग्रहा यान्ति सर्वे नश्य-
न्त्युपद्रवाः ॥ उपसर्गाः शमं यान्ति युद्धे
जयमवाप्नुयात् ॥ १९२ ॥ खेचरीभूचरी-
सिद्धिर्भवेत्क्षीरेन्दुदशनात् ॥ ध्यानादेव

(१८२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

भवेत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥ १९३ ॥
सन्तताभ्यासयोगेन सिद्धो भवति मा-
नवः ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्यो
भवेद्भुवम् ॥ योगशास्त्रं च परमं योगिनां
सिद्धिदायकम् ॥ १९४ ॥

टीका—शिरःस्थचन्द्रमाका ध्यान करनेसे सर्व ग्रह अनुकूल होजातेहैं और समस्त उपद्रवका नाश होजा-
ताहै और उपसर्ग प्रशमित होतेहैं और बुद्धमें जय
लाभ होता है और खेचरी भूचरीकी सिद्धि प्राप्त होती है
इसमें सन्देह नहीं है और निरन्तर यह योगाभ्यास
करनेसे अवश्य साधक सिद्ध होजाता है हे पार्वती ! हम
सत्य सत्य वारंवार कहते हैं कि हमारे तुल्य होजाय-
गा इसमें सन्देह नहीं है यह परमयोग योगीलोंके
सिद्धिका दाता है ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

अथ राजयोगकथनम् ।

मूलम्—अत ऊर्ध्वं दिव्यरूपं सहस्रारं सरोरु-
हम् ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्य देहस्य बाह्ये
तिष्ठति मुक्तिदम् ॥ १९५ ॥ कैलासो नाम
तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ अकुलाख्योऽ-
विनाशी च क्षयवृद्धिविवर्जितः ॥ १९६ ॥

टीका—तालुके ऊपरभागमें दिव्य सहस्रदल कमल है यह कमल मुक्तिदाता ब्रह्माण्डरूपी शरीरके बाहर स्थित है अर्थात् शरीरके ऊपर अंतमें है इसी कमलको कैलास कहते हैं इसी स्थानमें महेश्वरकी स्थिति है यह ईश्वर निराकुल अविनाशी और क्षयवृद्धिरहित है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥

मूलम्—स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां सं-
सारेऽस्मिन्सम्भवो नैव भूयः ॥ भूतग्रा-
मं सन्तताभ्यासयोगात्कर्तुं हर्तुं स्याच्च
शक्तिः समग्रा ॥ १९७ ॥

टीका—इस स्थानके ज्ञानमात्रसे जीवका यह सं-
सारमें फिर जन्म नहीं होता और सर्वदा यह ज्ञानयोग
अभ्यास करनेसे जीवमात्रके स्थिति संहार करनेकी
शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १९७ ॥

मूलम्—स्थाने परे हंसनिवासभूते कैलासना-
म्नीह निविष्टचेताः॥ योगी हतव्याधिरधः
कृताधिर्वायुश्चिरं जीवति मृत्युमुक्तः१९८॥

टीका—यह कैलासनामक स्थानमें परमहंसका
निवास है सो सहस्रदलकमलमें जो साधक मनको
स्थिर करता है उसकी सकल व्याधि नाश होजाती है
और मृत्युसे छूटके अमर होजाताहै ॥ १९८ ॥

(१८४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-चित्तवृत्तिर्यदा लीना कुलाख्ये पर-
मेश्वरे ॥ तदा समाधिसाम्येन योगी निश्च-
लतां व्रजेत् ॥ १९९ ॥

टीका-जब साधक यह कुलनामक ईश्वरमें चित्त-
को लीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चल सम
होजायगी ॥ १९९ ॥ .

मूलम्-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं
भवेत् ॥ तदा विचित्रसामर्थ्यं योगिनो
भवति ध्रुवम् ॥ २०० ॥

टीका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत् विस्मरण
होजायगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामर्थ्य हो-
जायगी ॥ २०० ॥

मूलम्-तस्माद्गलितपीयूषं पिवेद्योगी निर-
न्तरम् ॥ मृत्योर्मृत्युं विधायाशु कुलं जि-
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अत्र कुण्डलिनी,
शक्तिर्लयं याति कुलाभिधा ॥ तदा चतु-
र्विधा सृष्टिर्लीयते परमात्मनि ॥ २०२ ॥

टीका-सदस्रदलकमलसे जो अमृत स्रवता है उ-
सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपने मृ-
त्युका मृत्युविधानपूर्वक कुलसहित जय करके चिरं-

जीवी होजाता है और यही सहस्रदलकमलमें कुलरूपा कुण्डलिनी शक्तिका लय होजाता है तब यह चतुर्विध सृष्टिभी परमात्मामें लय होजाती है ॥ २०१ ॥ २०२ ॥

मूलम्—यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति-
विंशत्यते ॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करो-
ति निरपेक्षकः ॥ २०३ ॥

टीका—यह सहस्रदलकमलके ज्ञान होनेसे अर्थात् इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिको लय होजाता है इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थ निरपेक्षरूपसे योगी परिश्रम करे ॥ २०३ ॥

मूलम्—चित्तवृत्तिर्यदा लीना तस्मिन्योगी
भवेद्भ्रुवम् ॥ तदा विज्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपो
निरञ्जनः ॥ २०४ ॥

टीका—जब योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय होजायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरञ्जनका प्रकाश होगा अर्थात् ज्ञान होगा ॥ २०४ ॥

मूलम्—ब्रह्मांडबाह्ये संचिंत्य स्वप्रतीकं य-
थोदितम् ॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त-
येदविरोधतः ॥ २०५ ॥

टीका—ब्रह्माण्डके बाहर अर्थात् ब्रह्मांडरूप शरीरके

(१८४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-चित्तवृत्तिर्यदा लीना कुलाख्ये पर-
मेश्वरे ॥ तदा समाधिसाम्येन योगी निश्च-
लतां व्रजेत् ॥ १९९ ॥

टीका-जब साधक यह कुलनामक ईश्वरमें चित्त-
को लीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चल सम
होजायगी ॥ १९९ ॥

मूलम्-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं
भवेत् ॥ तदा विचित्रसामर्थ्यं योगिनो
भवति ध्रुवम् ॥ २०० ॥

टीका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत् विस्मरण
होजायगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामर्थ्य हो-
जायगी ॥ २०० ॥

मूलम्-तस्माद्गलितपीयूषं पिवेद्योगी निर-
न्तरम् ॥ मृत्योर्मृत्युं विधायाशु कुलं जि-
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अत्र कुण्डलिनी
शक्तिर्लयं याति कुलाभिधा ॥ तदा चतु-
र्विधा सृष्टिर्लीयते परमात्मनि ॥ २०२ ॥

टीका-सहस्रदलकमलसे जो अमृत स्रवता है उ-
सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपने मृ-
त्युका मृत्युविधानपूर्वक कुलसहित जय करके चिरं-

जीवी होजाता है और यही सहस्रदलकमलमें कुलरूपा कुण्डलिनी शक्तिका लय होजाता है तब यह चतुर्विध सृष्टिभी परमात्मामें लय होजाती है ॥ २०१ ॥ २०२ ॥

मूलम्—यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति-
विलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करो-
ति निरपेक्षकः ॥ २०३ ॥

टीका—यह सहस्रदलकमलके ज्ञान होनेसे अर्थात् इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिक्रा लय होजाता है इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थ निरपेक्षरूपसे योगी परिश्रम करे ॥ २०३ ॥

मूलम्—चित्तवृत्तिर्यदा लीना तस्मिन्योगी
भवेद्बुवम् ॥ तदा विज्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपो
निरञ्जनः ॥ २०४ ॥

टीका—जब योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय होजायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरञ्जनका प्रकाश होगा अर्थात् ज्ञान होगा ॥ २०४ ॥

मूलम्—ब्रह्मांडबाह्ये संचिंत्य स्वप्रतीकं य-
थोदितम् ॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त-
येदविरोधतः ॥ २०५ ॥

टीका—ब्रह्माण्डके बाहर अर्थात् ब्रह्मांडरूप शरीरके

(१८६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको स्थिर करके महत् शून्यका शुद्धवृत्तिसे चिन्तन करे २०६
मूलम्-आद्यन्तमध्यशून्यं तत्कोटिसूर्यस-
मप्रभम् ॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमभ्यस्य
सिद्धिमाप्नुयात् ॥ २०६ ॥

टीका-आदि अंत मध्य शून्य यह सर्वत्र शून्यमें कोटि सूर्यके समान प्रभा और कोटिचन्द्रके समान शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको परमसिद्धि लाभ होगी ॥ २०६ ॥

मूलम्-एतद्ध्यानं सदा कुर्यादनालस्यं
दिने दिने ॥ तस्य स्यात्सकला सिद्धिर्व-
त्सरान्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥

टीका-जो पुरुष आलस्यको त्यागके सर्वदा प्रति-दिन इस शून्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एकवर्ष में सकल सिद्धि लाभ होगी ॥ २०७ ॥

मूलम्-क्षणार्धं निश्चलं तत्र मनो यस्य भ-
वेद्भुवम् ॥ स एव योगी सद्भक्तः सर्वलोकेषु
पूजितः ॥ तस्य कल्मषसङ्घातस्तत्क्षणा-
देव नश्यति ॥ २०८ ॥

टीका-जो साधक इस शून्यमें अर्धक्षणभी मनको

निश्चल स्थिर रक्खेगा वही निश्चय यथार्थभक्त योगी है और वह सर्वलोकमें पूजित होता है और उसके पाप-का समूह उसी क्षण नष्ट होजाता है ॥ २०८ ॥

मूलम्—यं दृष्ट्वा न प्रवर्तते मृत्युसंसारव-
 त्मनि ॥ अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन
 वर्त्मना ॥ २०९ ॥

टीका—इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरूप जो सं-
 सारपथ है इसमें भ्रमण करना छूट जायगा अर्थात्
 जन्ममरणसे रहित होजायगा इसका अभ्यास स्वाधि-
 स्थानमार्गसे यत्न करके करना उचित है ॥ २०९ ॥

मूलम्—एतद्ध्यानस्य माहात्म्यं मया वक्तुं
 न शक्यते ॥ यः साधयति जानाति
 सोस्माकमपि सम्मतः ॥ २१० ॥

टीका—हे देवी ! इस शून्यके ध्यानके माहात्म्यको
 हम नहीं कहसकते अर्थात् बहुत विशेष है जो योगी
 इसका अभ्यास करते हैं सो जानते हैं और वह हमारे
 बराबर हैं ॥ २१० ॥

मूलम्—ध्यानादेव विजानाति विचित्रफल-
 सम्भवम् ॥ अणिमादिगुणोपेतो भवत्ये-
 व न संशयः ॥ २११ ॥

रता है सो मुक्त है इसमें संशय नहीं है और निश्चय वही योगी सद्भक्त है और सर्वलोकमें पूजनीय है २१७॥२१८॥

मूलम्-अहमस्मीति यन्मत्वा जीवात्मपर-
मात्मनोः॥अहं त्वमेतदुभयं त्यक्त्वाखण्डं
विचिन्तयेत् ॥२१९॥ अध्यारोपापवादा-
भ्यां यत्र सर्वं विलीयते ॥ तद्बीजमाश्रये-
द्योगी सर्वसंगविवर्जितः ॥ २२० ॥

टीका—योगी अपनेको और जीवात्मा और परमा-
त्माको तुल्य माने अर्थात् भेदरहित होजाय और हम
और तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड
ब्रह्मका चिन्तन करे अध्यारोपअपवादद्वारा जिसमें सर्व
वस्तुका लय होजाता है योगी सर्वसङ्गसे रहित
होके उसी बीजके आश्रय होजाय अर्थात् चित्तवृत्ति-
को आत्मामें लय करदे ॥ २१९ ॥ २२० ॥

मूलम्-अपरोक्षं चिदानन्दं पूर्णं त्यक्त्वा भ्र-
माकुलाः ॥ परोक्षं चापरोक्षं च कृत्वा
मूढा भ्रमन्ति वै ॥ २२१ ॥

टीका-मूढबुद्धिके मनुष्य अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष परि-
पूर्णब्रह्मको छोड़ करके भ्रममें पडके परोक्ष और अप-
रोक्षका रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते हैं ॥ २२१ ॥

मूलम्-चराचरमिदं विश्वं परोक्षं यः करो-
ति च ॥ अपरोक्षं परं ब्रह्म त्यक्तं तस्मिन्
प्रलीयते ॥ २२२ ॥

टीका-जो मनुष्य यह चराचरसंसारको शास्त्रसे
विवाद करके परोक्ष करते हैं और अपरोक्ष परब्रह्मको
त्यागदेते हैं अर्थात् ब्रह्मभी प्राप्त नहीं होता वह
अज्ञानी संसारमें लय होते हैं अर्थात् उनका मोक्ष
नहीं होता है ॥ २२२ ॥

मूलम्-ज्ञानकारणमज्ञानं यथा नोत्पद्यते
भृशम् ॥ अभ्यासं कुरुते योगी सदा
सद्गधिवर्जितम् ॥ २२३ ॥

टीका-जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान-
का नाश होता है इसी योगअभ्यासको योगी सर्वदा
सद्गुरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥

मूलम्-सर्वेन्द्रियाणि संयम्य विषयेभ्यो
विचक्षणः ॥ विषयेभ्यः सुषुप्त्यैव तिष्ठेत्संग-
विवर्जितः ॥ २२४ ॥

टीका-बुद्धिमान् योगी विषयोंसे इंद्रियोंको रोकके
सद्गुरहित होके विषयके त्यागमें सुषुप्तिके समान
स्थिर रहते हैं ॥ २२४ ॥

(१९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-एवमभ्यासतो नित्यं स्वप्रकाशं प्र-
काशते ॥ श्रोतुं बुद्धिसमर्थार्थं निवर्तन्ते
गुरोर्गिरः ॥ तदभ्यासवशादेकं स्वतो ज्ञा-
नं प्रवर्तते ॥ २२५ ॥

टीका-इसी प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे साधक-
को आपही ज्ञानका प्रकाश होगा तब गुरुके वचनकी
निवृत्ति होगी अर्थात् गुरुके उपदेशका अंत हो जा-
यगा जब इतरवाक्य श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त
हेजायगी तब यह योगअभ्यासद्वारा आपही एक
अद्वैतज्ञानमें प्रवृत्ति होगी ॥ २२५ ॥

मूलम्-यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन-
सा सह ॥ साधनादमलं ज्ञानं स्वयं स्फुरति
तद्भवम् ॥ २२६ ॥

टीका-यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता मन
वाक्यकाभी गमन नहीं है परन्तु यह योगसाधनसे आ-
पही निर्मल ज्ञान प्रकाश होता है ॥ २२६ ॥

मूलम्-हठं विना राजयोगो राजयोगं विना
हठः ॥ तस्मात्प्रवर्तते योगी हठे सहस्र-
मार्गतः ॥ २२७ ॥

टीका-हठयोगके विना राजयोग और राजयोगके विना हठयोग सिद्ध नहीं होता इस हेतुसे योगीको उचित है कि, योगवेत्ता सद्गुरुद्वारा हठयोगमें प्रवृत्त हो ॥ २२७ ॥

मूलम्-स्थिते देहे जीवति च योगं न श्रियते भृशम् ॥ इन्द्रियार्थोपभोगेषु स जीवति न संशयः ॥ २२८ ॥

टीका-जो मनुष्य इस शरीरसे योगका आसरा नहीं ग्रहण करते हैं वह केवल इंद्रियोंके भोग भोगनेके अर्थ संसारमें जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८ ॥

मूलम्-अभ्यासपाकपर्यन्तं मितान्नं स्मरणं भवेत् ॥ अन्यथा साधनं धीमान्कर्तुं पारयतीह न ॥ २२९ ॥

टीका-बुद्धिमान् साधक योग अभ्यासके आरंभसे अभ्याससिद्धिपर्यंत मिताहारी रहे अर्थात् प्रमाणका भोजन करे अन्यथा अर्थात् अप्रमाण भोजन करनेसे योग अभ्यासके पार न होगा अर्थात् सिद्ध न होगा ॥ २२९ ॥

मूलम्-अतीवसाधुसंलापं साधुसम्मति-बुद्धिमान् करोति पिण्डरक्षार्थं बह्वालाप-

(१९४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

विवर्जितः ॥२३०॥ त्याज्यते त्यज्यते स-
ङ्गं सर्वथा त्यज्यते भृशम् ॥ अन्यथा न ल-
भेन्मुक्तिं सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥२३१॥

टीका—बुद्धिमान् साधक सभामें साधुके समान थोडा और प्रमाण वाक्य बोले और शरीरके रक्षार्थ थोडा भोजन करे और संगको सर्व प्रकारसे तजदे कदापि किसीके संगमें लिप्त न होय हे पार्वति ! और दूसरे प्रकार कदापि मुक्ति नहीं पावेगा यह हम सर्वथा सत्य कहते हैं इसमें संशय नहीं है ॥२३०॥ २३१॥

मूलम्—गुह्यैव क्रियतेऽभ्यासः संगं त्यक्त्वा
तदन्तरे ॥ व्यवहाराय कर्तव्यो वाह्यसं-
गो न रागतः ॥ २३२ ॥ स्वे स्वे कर्मणि
वर्तन्ते सर्वे ते कर्मसम्भवाः ॥ निमित्तमात्रं
करणे न दोषोस्ति कदाचन ॥ २३३ ॥

टीका—साधक संगरहित होके एकान्त स्थानमें योगसाधन करे यदि संसारी मनुष्योंसे व्यवहार वर्तनेकी इच्छा करे तो अन्तरप्रीतिरहित होके वाह्यसंग करे और अपना आश्रम धर्म कर्मभी इसी प्रकार करता रहै इस हेतुसे कि, ज्ञानादि यावत् कर्म हैं सब कर्मानुसार होते हैं फलइच्छारहित होके केवल निमित्त

मात्र कर्म करनेसे कदापि दोष नहीं है ॥२३२॥२३३॥
 मूलम्—एवं निश्चित्य सुधिया गृहस्थोपि
 यदाचरेत् ॥ तदा सिद्धिमवाप्नोति नात्र
 कार्या विचारणा ॥ २३४ ॥

टीका—इसी प्रकार निश्चयबुद्धिसे यदि गृहस्थभी
 योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लाभ करेगा
 इसमें संशय नहीं है ॥ २३४ ॥

मूलम्—पापपुण्यविनिर्मुक्तः परित्यक्ताङ्गसा-
 धकः ॥ यो भवेत्स विमुक्तः स्याद्गृहे ति-
 ष्टन्सदा गृही ॥ २३५ ॥ न पापपुण्यैर्लि-
 प्येत योगयुक्तो यदा गृही ॥ कुर्वन्नपि
 तदा पापान्स्वकार्ये लोकसंग्रहे ॥ २३६ ॥

टीका—जो साधक पाप पुण्यसे निर्लित्त इन्द्रियसं-
 गत्यागी है सोई गृही साधक गृहमें रहके मुक्त है योग-
 युक्त गृही पाप पुण्यमें बद्ध नहीं होता यदि संसारके
 संग्रहमें पापभी करेगा तो वह पाप उसको स्पर्श न
 करेगा ॥ २३५ ॥ २३६ ॥

मूलम्—अधुना संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधन-
 मुत्तमम् ॥ ऐहिकामुष्मिकसुखं येन स्या-
 दविरोधतः ॥ २३७ ॥

टीका—हे देवि ! अब उत्तम मन्त्रसाधन हम कहते हैं जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थानमें साधक आनन्दपूर्वक सुख भोगेगा ॥ २३७ ॥

मूलम्—यस्मिन्मन्त्रे वरे ज्ञाते योगसिद्धिर्भवेत्खलु ॥ योगेन साधकेन्द्रस्य सर्वैश्वर्यसुखप्रदा ॥ २३८ ॥

टीका—यह उत्तम मन्त्रके ज्ञान होनेसे निश्चय योग सिद्ध होता है साधकेन्द्रको यह योग सर्व ऐश्वर्य सुखका दाता है ॥ २३८ ॥

मूलम्—मूलाधारेस्ति यत्पद्मं चतुर्दलसमन्वितम् ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फुरन्तं तडित्प्रभम् ॥ २३९ ॥ हृदये कामबीजं तु बन्धूककुसुमप्रभम् ॥ आज्ञारविन्दे शक्त्याख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ॥ २४० ॥ बीजत्रयमिदं गोप्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ एतन्मन्त्रत्रयं योगी साधयेत्सिद्धिसाधकः ॥ २४१ ॥

टीका—जो मूलाधार चतुर्दलसंयुक्त पद्म है उसमें विद्युत्के समान प्रभायुक्त वाग्बीजकी स्थिति है और हृदयकमलमें बन्धूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी-

जकी स्थिति है और आज्ञाकमलमें कोटिचन्द्रके समान प्रभायुक्त शक्तिबीजकी स्थिति है यह बीजत्रय परम गोपनीय भोग और मुक्तिके दाता हैं यह तीनों मन्त्रका साधक योगी अवश्यसाधन करे ॥ २३९ ॥ २४० ॥ २४१ ॥

मूलम्-एतन्मन्त्रं गुरोर्लब्ध्वा न द्रुतं न विलम्बितम् ॥ अक्षराक्षरसन्धानं निःसन्दिग्धमना जपेत् ॥ २४२ ॥

टीका-साधक गुरुसे यह मन्त्रका उपदेश लेके धीरे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूर्वक स्थिर मन होके जप करे ॥ २४२ ॥

मूलम्-तद्गतश्चैकचित्तश्च शास्त्रोक्तविधिना सुधीः ॥ देव्यास्तु पुरतो लक्षं हुत्वा लक्षत्रयं जपेत् ॥ २४३ ॥

टीका-बुद्धिमान् साधक एकाग्रचित्तसे शास्त्रविधिअनुसार देवीके समीपमें एक लक्ष होम करके तीनलक्ष जप करे ॥ २४३ ॥

मूलम्-करवीरप्रसूनन्तु गुडक्षीराज्यसंयुतम् ॥ कुण्डे योन्याकृते धीमाञ्जपान्ते जुहुयात्सुधीः ॥ २४४ ॥

टीका-बुद्धिमान् साधक जपके पीछे योन्याकार-

कुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड़ और दूध और घृत मिलायके होम करे ॥ २४४ ॥

मूलम्—अनुष्ठाने कृते धीमान्पूर्वसेवा कृता भवेत् ॥ ततो ददाति कामान्वै देवी त्रिपुरभैरवी ॥ २४५ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक इसीप्रकार अनुष्ठानपूर्वक आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो उसको इच्छापूर्वक देवी फल देती है ॥ २४५ ॥

मूलम्—गुरुं सन्तोष्य विधिवल्लुब्ध्वा मन्त्रवरोत्तमम् ॥ अनेन विधिना युक्तो मन्दभाग्योऽपि सिद्धयति ॥ २४६ ॥

टीका—साधक विधिपूर्वक गुरुको संतोष करके यह उत्तम मन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त ग्रहण करनेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हैं ॥ २४६ ॥

मूलम्—लक्ष्मेकं जपेद्यस्तु साधको विजितेन्द्रियः ॥ २४७ ॥ दर्शनात्तस्य क्षुभ्यन्ते योपितो मदनातुराः ॥ पतन्ति साधकस्याग्रे निर्लज्जा भयवर्जिताः ॥ २४८ ॥

टीका—योगी इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एक लक्ष जप करे तो उसके दर्शनमात्रसे कामातुर स्त्रियें मोहित

होयके साधकके आगे निर्लज्ज और भयरहित होके गिरती हैं ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

मूलम्-जप्तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये स्थिताः ॥ आगच्छन्ति यथातीर्थं विमुक्तकुलविग्रहाः ॥ ददति तस्य सर्वस्वं तस्यैव च वशं स्थिताः ॥ २४९ ॥

टीका-यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेसे कामिनी स्त्रियें साधकके समीप इसप्रकार आतीहैं कि, जैसे कुलीना तीर्थमें भय लज्जा रहित होके जाती हैं और साधकके वशमें होके अपना सर्वस्व उसको देती हैं ॥ २४९ ॥

मूलम्-त्रिभिर्लक्षैस्तथाजप्तैर्मण्डलीका समण्डलाः ॥ २५० ॥ वशमायान्ति ते सर्वे नात्र कार्या विचारणा ॥ पडिर्लक्षैर्महीपालं समृत्यवलवाहनम् ॥ २५१ ॥

टीका-तीन लक्ष जप करनेसे मंडलसहित मंडलपती राजा साधकके वशमें होजायगे इसमें संशय नहीं है और छः लक्ष जप करनेसे बल वाहन संयुक्त राजा साधकके वश होजायगा ॥ २५० ॥ २५१ ॥

मूलम्-लक्षैर्द्वादशभिर्जप्तैर्यक्षरक्षोरगेश्व-

कुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड और दूध और घृत मिलायके होम करे ॥ २४४ ॥

मूलम्—अनुष्ठाने कृते धीमान्पूर्वसेवा कृता भवेत् ॥ ततो ददाति कामान्वै देवी त्रिपुरभैरवी ॥ २४५ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक इसीप्रकार अनुष्ठानपूर्वक आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो उसको इच्छापूर्वक देवी फल देती है ॥ २४५ ॥

मूलम्—गुरुं सन्तोष्य विधिवल्लुब्ध्वा मन्त्रवरोत्तमम् ॥ अनेन विधिना युक्तो मन्दभाग्योऽपि सिद्धयति ॥ २४६ ॥

टीका—साधक विधिपूर्वक गुरुको संतोष करके यह उत्तम मन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त ग्रहण करनेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हैं ॥ २४६ ॥

मूलम्—लक्ष्मेकं जपेद्यस्तु साधको विजितेन्द्रियः ॥ २४७ ॥ दर्शनात्तस्य क्षुभ्यन्ते योऽपितो मदनातुराः ॥ पतन्ति साधकस्याग्रे निर्लज्जा भयवर्जिताः ॥ २४८ ॥

टीका—योगी इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एक लक्ष जप करे तो उसके दर्शनमात्रसे कामातुर द्वियें मोहित

होयके साधकके आगे निर्लज्ज और भयरहित होके गिरती हैं ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

मूलम्—जप्तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये स्थिताः ॥ आगच्छन्ति यथातीर्थं विमुक्तकुलविग्रहाः ॥ ददति तस्य सर्वस्वं तस्यैव च वशे स्थिताः ॥ २४९ ॥

टीका—यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेसे कामिनी स्त्रियें साधकके समीप इसप्रकार आतीहैं कि, जैसे कुलीना तीर्थमें भय लज्जा रहित होके जाती हैं और साधकके वशमें होके अपना सर्वस्व उसको देती हैं ॥ २४९ ॥

मूलम्—त्रिमिर्लक्षैस्तथाजप्तैर्मण्डलीका समण्डलाः ॥ २५० ॥ वशमायान्ति ते सर्वे नात्र कार्या विचारणा ॥ षड्विर्लक्षैर्महीपालं सभृत्यवलवाहनम् ॥ २५१ ॥

टीका—तीन लक्ष जप करनेसे मंडलसहित मंडलपती राजा साधकके वशमें होजायगे इसमें संशय नहीं है और छः लक्ष जप करनेसे बल वाहन संयुक्त राजा साधकके वश होजायगा ॥ २५० ॥ २५१ ॥

मूलम्—लक्षैर्द्वादशभिर्जप्तैर्यक्षरक्षोरगेश्व-

राः ॥ वशमायान्ति ते सव आज्ञां कुर्वन्ति
नित्यशः ॥ २५२ ॥

टीका—यह मन्त्र बारह लक्ष जप करनेसे यक्ष और राक्षस और पन्नग यह सब वशमें होके साधककी नित्य आज्ञा पालन करतेहैं ॥ २५२ ॥

मूलम्—त्रिपञ्चलक्षजप्तैस्तु साधकेन्द्रस्य
धीमतः ॥ सिद्धविद्याधराश्चैव गन्धर्वाप्सर-
सांगणाः ॥ २५३ ॥ वशमायान्ति ते सर्वे
नात्र कार्या विचारणा ॥ हठाच्छ्रवणवि-
ज्ञानं सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥ २५४ ॥

टीका—पन्द्रहलक्ष जप करनेसे सिद्ध और विद्याधर और गंधर्व और अप्सरा यह सब बुद्धिमान् साधकके वशमें होजातेहैं इसमें संदेह नहीं है और साधकको हठसे विशेष श्रवणशक्ति होगी और सर्ववस्तुका ज्ञान उत्पन्न होगा ॥ २५३ ॥ २५४ ॥

मूलम्—तथाष्टादशभिर्लक्षैर्देहेनानेन साध-
कः ॥ उत्तिष्ठेन्मेदिनीं त्यक्त्वा दिव्यदेह-
स्तु जायते ॥ भ्रमते स्वेच्छया लोकं छि-
द्रां पश्यति मेदिनीम् ॥ २५५ ॥

टीका—जो साधक अठारह लक्ष जप करेगा वह भू-

मिको त्यागके दिव्य देह होके आकाशमार्गसे संसारमें इच्छापूर्वक भ्रमण करेगा और पृथ्वीके छिद्रोंको देखेगा अर्थात् पृथ्वीमें प्रवेश करनेके मार्ग देखेगा ॥२५५॥

मूलम्—अष्टाविंशतिभिर्लक्षैर्विद्याधरपतिर्भवेत् ॥साधकस्तु भवेद्धीमान्कामरूपो महाबलः ॥ २५६ ॥ त्रिंशल्लक्षैस्तथाजप्तैर्ब्रह्मविष्णुसमो भवेत् ॥ रुद्रत्वं षष्टिभिर्लक्षैरमरत्वमशीतिभिः ॥ २५७ ॥ कोट्यैकया महारोगी लीयते परमे पदे ॥ साधकस्तु भवद्यागी त्रैलोक्ये सोऽतिदुर्लभः ॥२५८ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् साधक अट्ठाईस लक्ष जप करेगा वह महाबल कामरूपी और विद्याधरपति होजायगा और तीस लक्ष जप करनेसे साधक ब्रह्मा विष्णुके समान होजायगा और साठ लक्ष जप करनेसे रुद्रके समान होजायगा और अस्सी लक्ष जप करनेसे साधक सर्व भूतोंको प्रिय देव होजायगा और एककोटि जप करनेसे साधक महायोगी होयके परमपदमें लीन होजाताहै हे पार्वति ! इसप्रकार योगी त्रिभुवनमें दुर्लभहै ॥२५६॥२५७॥२५८॥

मूलम्—त्रिपुरे त्रिपुरन्त्वेकं शिवं परमकारणम् ॥ २५९ ॥ अक्षयं तत्पदं शान्तमप्र-

(२०२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मेयमनामयम् ॥ लभतेऽसौ नसन्देहोधी-
मान्सर्वमभीप्सितम् ॥ २६० ॥

टीका—हे पार्वति ! त्रिपुरस्थानमें एक शिवही परमका-
णर स्वरूप हैं उनका चरणकमल अक्षय शान्त अप्रमेय
अर्थात् प्रमाणरहित अनामय अर्थात् रोगरहित है उनका
पद बुद्धिमान् योगीलोगही इच्छापूर्वक लाभ करहते हैं
इसमें संदेह नहीं है ॥ २५९ ॥ २६० ॥

मूलम्—शिवविद्या महाविद्या गुप्ता चाग्रे महेश्वरी ॥
मद्भाषितमिदं शास्त्रं गोपनीयमतो
बुधैः ॥ २६१ ॥

टीका—हे महादेवि ! यह हमारी कहीहुई महाविद्या-
कोही शिवविद्या कहते हैं यह विद्या सर्वप्रकार गोपनीय
है इस योगशास्त्रको बुद्धिमान् लोग कदापि प्रकाश
नहीं करते हैं ॥ २६१ ॥

मूलम्—हठविद्या परंगोप्या योगिना सिद्धि-
मिच्छता ॥ भवेद्दीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या
च प्रकाशिता ॥ २६२ ॥

टीका—सिद्धिकांक्षी योगीलोग इस हठविद्याको
अतिगोपित रखें यह गोप्य रखनेसे वीर्यवती रहतीहै
और प्रकाश करनेसे निर्वीर्या होजातीहै ॥ २६२ ॥

मूलम्—य इदं पठते नित्यमाद्योपान्तं विचक्षणः ॥ योगसिद्धिर्भवेत्तस्य क्रमेणैव न संशयः ॥ स मोक्षं लभते धीमान्य इदं नित्यमर्चयेत् ॥ २६३ ॥

टीका—जो विद्वान् यह शिवसंहिताका नित्य आद्योपान्त पाठ करेगा उसको क्रमसे अवश्य योगसिद्धि होगी और जो बुद्धिमान् इस ग्रन्थका नित्य पूजन करेगा उसको मुक्ति लाभ होगी ॥ २६३ ॥

मूलम्—मोक्षार्थिभ्यश्च सर्वेभ्यः साधुभ्यः श्रावयेदपि ॥ २६४ ॥ क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथम्भवेत् ॥ तस्मात्क्रिया विधानेन कर्तव्या योगिपुंगवैः ॥ २६५ ॥ यदृच्छालाभसन्तुष्टः सन्त्यक्तान्तरसंगकः ॥ गृहस्थश्चाप्यनासक्तः स मुक्तो योगसाधनात् ॥ २६६ ॥

टीका—मोक्षार्थी और सर्व साधु मनुष्य उनको यह शिवसंहिताग्रन्थ सुनाना. जो क्रियासे युक्त होगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी क्रियाहीन मनुष्यको क्या होसकताहै अर्थात् सिद्धि लाभ नहीं होसकती विधानपूर्वक क्रियाका अनुष्ठान करे तो इच्छापूर्वक लाभसे सन्तुष्ट होगा और

(२०४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

जो गृहस्थ होगा और इन्द्रियोंमें आसक्त न होगा सो मनु-
ष्य योगसाधनसे मुक्तहोगा ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥

मूलम्—गृहस्थानां भवेत्सिद्धिरीश्वराणां
जपेन वै ॥ योगक्रियाभियुक्तानां तस्मा-
त्संयतते गृही ॥ २६७ ॥

टीका—योगक्रियावान् गृहस्थ लोगोंको जप करनेसे
सिद्धि प्राप्तहोगी इस हेतुसे योगसाधनमें गृहस्थ मनु-
ष्यको यत्न करना उचित है ॥ २६७ ॥

मूलम्—गेहे स्थित्वा पुत्रदारादिपूर्णः सङ्गं
त्यक्त्वा चान्तरे योगमार्गं ॥ सिद्धैश्चिह्नं वी-
क्ष्य पश्चाद् गृहस्थः क्रीडेतसो वै सम्मतं
साधयित्वा ॥ २६८ ॥

टीका—जो गृहस्थ गृहमें रहके स्त्रीपुत्रादिसे पूर्ण
होके अंतरीय सबसे त्यागपूर्वक योगसाधनसे प्रवृत्त
होय सो सिद्धिचिह्न अवलोकनपूर्वक साधना करके
सर्वदा आनन्दमें क्रीडा करेगा ॥ २६८ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगशास्त्रे

पंचमः पटलः समाप्तः ॥ ५ ॥ शुभम् ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

पुस्तक मिलनेका टिकाना—

खैमराज श्रीरुष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना, खेतवाड़ी—बंबई.

श्रीः ।

उमामहेश्वरमाहात्म्यम् ।

उमा भगवतयियं ब्रह्मविद्यति कीर्तिता ॥
रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र सा स्थि-
ता ॥१॥ नानाजातिवधूनां हि विवभूताम-
हेश्वरी ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं
मोक्षं च गच्छति ॥ इह लोके सुखं तद्रज्जं-
तुर्देवादिकोपि वा ॥ ३ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्त-
था रुद्रः शक्राद्याः सर्वदेवताः ॥ कटाक्षपा-
ततो यस्या भवंति न भवंति च ॥४॥ पीनो-
न्नतस्तनी प्रौढजघना च कृशोदरी ॥ चंद्रा-
नना मीननेत्रा केशभ्रमरमंडिता ॥ ५ ॥
सर्वांगसुंदरी देवी धैर्यपुंजविनाशिनी ॥
कांचीगुणेन चित्रेण वलयांगदनुपुरैः ॥६॥
हारैर्मुक्तादिसंजातैः कंठाद्याभरणैरपि ॥
मुकुटेनापि चित्रेण कुंडलाद्यैः सहस्र-
शः ॥ ७ ॥ विराजिता ह्यनौपम्यरूपा भूष-
णभूषणा ॥ जननी सर्वजगतो द्यष्टव-
र्षा चिरंतनी ॥८॥ तथा समेतं पुरुषं तत्प-

(२०६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

तिं तद्गुणाधिकम् ॥ ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना-
सर्वभूषणभूषितम् ॥ ९ ॥ द्वीपिचर्मावृतं
शश्वदथवापि दिगंबरम् ॥ भस्मोद्धूलितस-
र्वांगं ब्रह्ममूर्धोधमालिनम् ॥ १० ॥ तथैव चं-
द्रखंडेन विराजितजटातटम् ॥ गंगाधरं
स्मरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलम् ॥ ११ ॥
कंदर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥
सृष्टिस्थित्यंतकरणं सृष्टिस्थित्यंतवर्जि-
तम् ॥ १२ ॥ पूर्णेन्दुवदनांभोजं सूर्यसो-
माग्निवर्चसम् ॥ सर्वांगसुंदरं कंबुग्रीवं चा-
तिमनोहरम् ॥ १३ ॥ आजानुबाहुं पुरुषं
नागयज्ञोपवीतिनम् ॥ पद्मासनसमासी-
नं नासाग्रन्यस्तलोचनम् ॥ १४ ॥ वाम-
देवं महादेवं गुरुणां प्रथमं गुरुम् ॥ स्वयं-
ज्योतिःस्वरूपं तमानंदात्मानमद्वयम्
॥ १५ ॥ यतो हिरण्यगर्भेयं विराजो
जनकः पुमान् ॥ जातः समस्तदेवानाम-
न्येषां च नियामकः ॥ १६ ॥ नीलकंठम-
सुं देवं विश्वेशं पापनाशनम् ॥ हृदि पद्मे

थवा सूर्ये वह्नौ वा चंद्रमंडले ॥१७॥कैला
 सादिगिरौ वापि चिंतयेद्योगमाश्रितः ॥
 एवं चिंतयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थि-
 रम् ॥१८॥ यदा जातं तदा सर्वप्रपंचरहितं
 शिवम् ॥ प्रपंचकरणं देवमवाङ्मनसगो-
 चरम् ॥१९॥ प्रयाति स्वात्मना योगी पु-
 रुषं दिव्यमद्भुतम् ॥ तमसः स्वात्ममोहस्य
 परं तेन विवर्जितम् ॥२०॥ साक्षिणं सर्वबु-
 द्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् ॥ उमासहा-
 यो भगवान्सगुणः परिकीर्तितः ॥२१॥ नि-
 र्गुणश्च स एवायं न यतोन्योस्ति कश्चन ॥
 ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वि-
 तः ॥ २२॥ अग्निः सूर्यस्तथा चंद्रः कालः
 मृष्ट्यादिकारणम् ॥ एकादशेन्द्रियाण्यंतः
 करणं च चतुर्विधम् ॥२३॥ प्राणाः पंचम-
 हाभूतपंचकेन समन्विताः ॥ दिशश्च प्र-
 दिशस्तद्बुद्धुपरिष्ठादधोपि च ॥२४॥ स्वे-
 दजादीनि भूतानि ब्रह्मांडं च विराड्पुः ॥

(२०८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

विराड्हरिण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव
च ॥२५॥ मायातत्कार्यमखिलं वर्तते स-
दसच्च यत् ॥ यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं
स महेश्वरः ॥ २६ ॥

इति श्रीमदुमामहेश्वरमाहात्म्यं संपूर्णम् ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना.

खेमराज श्रीकृष्णदास,
श्रीवेङ्कटेश्वर छापखाना (मुंबई.)



क्रय्यपुस्तकैः—(योगशास्त्रग्रंथाः ।)



नाम.	की. रु. आ.
पातंजलयोगदर्शन-अत्युत्तम भाषानुवाद सहित	१-०
सांख्यदर्शन अत्युत्तम भाषानुवाद सहित ...	१-८
वैशेषिकदर्शन सुबोध भाषानुवाद समेत ...	०-१२
हठयोगप्रदीपिका उत्तम भाषाटीका सहित ...	१-४
शिवस्वरोदय भाषाटीका	०-८
शिवसंहिता भाषाटीका सह (योगशास्त्र) ...	१-०
गौरखपद्धति भाषाटीका (योगसाधनविधि)	०-१२
स्वरोदयसार चरणदासकृत	०-२
योगतत्त्वप्रकाशभाषा (योगाभ्यासकी प्रणाली परमोपयोगी है)	०-२
स्वरदर्पण सटीक १ स्वर प्रश्रवणित हैं ...	०-४

वेदान्तग्रन्थाः ।

ब्रह्मसूत्र (शारीरक) वेदान्ततत्त्वप्रकाश भाषा- भाष्य समेत श्रीमभुदयालुविरचित बहुत सरल सुबोध है	४-०
ब्रह्मसूत्र (शारीरक) भाषाटीका	१-८
वेदान्तपरिभाषा शिखामणि टीका और मणि- प्रभा टीकासमेत	२-८
वेदान्तपरिभाषा अर्थदीपिका टीकासमेत ...	१-०
वेदान्तपरिभाषा अत्युत्तम भाषाटीका समेत ...	१-४
वेदान्तसार संस्कृत मूल और संस्कृतटीका तथा भाषाटीकासहित	०-१२
पंचदशीसटीक (संस्कृत टीका)	२-०

पंचदशी पं० मिहिरचंद्रकृत अत्युत्तम भाषाटीका सहित	४-०
पंचदशी भाषा-आत्मस्वरूपजीकृत	३-०
शारीरक ब्रह्मसूत्रम्-मध्वभाष्यसमेतं तत्त्वप्रका- शिका टीकोपेतं च	५-०
गीता चिदृघनानंदस्वामिकृत गूढार्थदीपिका मूल अन्वय पदच्छेदके सहित भाषाटीका	७-०
गीता आनंदगिरिकृतभाषाटीका	२-८
श्रीमद्भगवद्गीता सान्वय ब्रजभाषा दोहा सहित	१-४
गीतामृततरंगिणी भाषाटीका (रघुनाथप्रसा- दकृत) अक्षरबड़ा	१-०
गीतामृततरंगिणी भाषाटीका पाकिटयुक्त	०-१२
श्रीरामगीता मूल	०-२
श्रीरामगीता भाषाटीका पदप्रकाशिका अनुवा- दसमुच्चय और विषमपदीके सहित	०-८
श्रीमद्भगवद्गीतापंचरत्न अक्षर मोटा गुटका रेशमी	१-०
” पंचरत्न अक्षरबड़ा खुलापत्रा छोटीसंची	१-८
” पंचरत्न अक्षरबड़ा लंबीसंची गुला	१-०
” पंचरत्न भाषाटीका	२-०
गीता श्रीधरीटीका सहित... ..	१-०
गीता बड़े अक्षरकी १६ पेजी गुटका	०-१२
गीता बड़े अक्षरकी खुली १२ पेजी	०-१०
गीता गुटका विष्णुसहस्रनाम सहित	०-८
गीता पंचरत्न और एकादशरत्न	०-१२
” पंचरत्न द्वादशरत्न	० १०

गीतापंचरत्न नवरत्न पाकिटबुक	०-७
गीता गुटका पाकिट बुक	०-५
अष्टावक्रगीता अत्युत्तम सान्धय भाषाटीका...	१-०
शिवगीता भाषाटीकासहित	०-१२
गणेशगीता भाषाटीकासहित	०-६
गीतापंचदश भाषाटीका [काश्यपगीता, शान- कगीता, अष्टावक्रगीता, नहुपगीता, सरस्व- तीगीता, युधिष्ठिरगीता, बकगीता, धर्मव्या- धगीता, श्रीकृष्णगीतादि]	०-१२
षाण्डवगीता भाषाटीका सह	०-३
तथा मूल ४ रत्न बड़ा अक्षर	०-२
देवीगीता भाषाटीका	०-८
अपरोक्षानुभूति संस्कृतटीका भाषाटीका सहित	०-१०
आत्मबोध भाषाटीका	०-३
तत्त्वबोध भाषाटीका	०-२
वेदांतप्रथमपंचकम् (वाक्यप्रदीपः, वाक्यसुधारसः, हस्तामलकः, निर्वाणपंचकं, मनीषापंचकं स०	०-८
वेदस्तुति भाषाटीका सह	०-८
गीता रामानुजभाष्य	२-०
भगवद्गीता भावमकाशटीकायाः	३-०
वैराग्यभास्कर भाषाटीका	०-८
सिद्धांतचंद्रिका सटीक (वेदांत)	०-८
द्वादशमहावाक्यविवरण	०-४
वेदांतरामायण भाषाटीका सह	१-८
वेदान्तसंज्ञा भाषाटीका	०-८
मशोत्तरमुक्तावली भाषाटीका (वेदान्त)	०-३

जीवन्मुक्तगीता भाषाटीका	०-१
भक्तिमीमांसा-शांडिल्यऋषिप्रणीता	...	आचार्य	
स्वप्नेश्वरविरचितेन भाष्येण संयुता	०-८
योगवासिष्ठ सटीक संस्कृत	२०-०
कंपिलगीता भाषाटीका	०-६
अवधूतगीता गुटका रेशमी...	०-६
नारदगीता मूल	०-१
प्रश्नोत्तरी भाषाटीका	०-२

वेदान्त भाषा ।

आत्मपुराण भाषा [चिद्धनानन्द स्वामिकृत]	१२-०
योगवासिष्ठभाषा बड़ा संपूर्ण	१२-०
योगवासिष्ठगुटका वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण वेदान्त	
उत्तम कागज अक्षर बड़ा...	०-१२
वासिष्ठसार भाषा वेदान्त ६ प्रकरण...	२-०
मोक्षगीता (सवालक्ष) रामनाम	१-०
वृत्तिप्रभाकर स्वामी निश्चलदासकृत (वेदान्तका	
ग्रंथ शुद्धकर नया छपा है)	३-०
विचारसागर सटीक निश्चलदासजीकृत	२-०
एकादशस्कंध भाषा चतुरदासकृत	०-१२
अमृतधारा वेदान्त	०-१२
संतोषसुरतरु वेदांत	०-८
संतप्रभाव वेदांत	०-६
विचारमालासटीकश्रीगोविन्ददासजीकीटीकास.	०-१२
भाषा (वेदांत)	१-८

संपूर्ण पुस्तकोंका "बड़ासूचीपत्र" अलगहै मंगालीजिये ।

खेमराज श्रीरुष्णदास "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम प्रेस-बंबई.